

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 मई 2016—ज्येष्ठ 6 शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 मई 2016

क्र. 1334-1509-2016-1-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विधान सभा क्षेत्र 132-घोडाडोंगरी (अ.ज.जा.), जिला बैतूल के उप चुनाव के लिये शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय में मतपत्रों की छपाई एवं अन्य मुद्रण से संबंधित कार्य आदि की देखरेख/समन्वय के लिये पूर्व चुनावों की भांति उपायुक्त (राजस्व), भोपाल को चुनावों के सम्पन्न होने तक की अवधि के लिये पदेन उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वाष्णीय, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2016

क्र. एफ 3-01-2016-1-4.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-प.ब.-एक, तारीख 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिअबल इन्स्ट्रूमेंट

एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत मध्यप्रदेश में विधान सभा उप चुनाव 2016 के सिलसिले में नीचे की अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उनके सामने अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा :—

2. क्र. एफ 3-01-2016-1-4 राज्य शासन एतद्द्वारा यह भी घोषित करता है कि विधान सभा उपचुनाव 2016 के लिए मतदान के दिन दिनांक 30 मई 2016 (सोमवार) को निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा.

अनुसूची

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक एवं नाम	मतदान की तारीख
(1)	(2)
जिला बैतूल के 132-घोडाडोंगरी (अ.ज.जा.)	30 मई 2016 सोमवार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, अपर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मई 2016

क्र. एफ-1(ए) 199-91-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मानव अधिकार आयोग, पर्यावास भवन, भोपाल को दिनांक 30 मई से 8 जून 2016 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मानव अधिकार आयोग, पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

भोपाल, दिनांक 18 मई 2016

क्र. एफ-1(ए) 168-89-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रबंध, पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 13 से 27 जून 2016 तक, कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 11 एवं 12 जून 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका कार्य मो. शाहिद अबसार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रबंध, पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्य से मुक्त हो जावेंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाना, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 08-97-ब-2-दो.—श्री के. पी. खरे, भा. पु. से. पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर दिनांक 28 मई से 4 जून 2016 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 5 जून 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए खण्ड वर्ष 2014-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत परिवार के निम्नलिखित

सदस्यों के साथ (जम्मू कश्मीर) जाने की अनुमति तथा 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	संबंध
(1)	(2)	(3)
1	श्री के. पी. खरे	स्वयं
2	श्रीमती रचना	पत्नी
3	वरूण देव	पुत्र

(2) अवकाश अवधि में श्री के. पी. खरे, भा.पु.से. का चालू कार्य श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. खरे, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. पी. खरे, भापुसे. के द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. पी. खरे, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. खरे, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 19 मई 2016

क्र. एफ-1(ए) 13-2000-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री विवेक शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 1 जून से 15 जुलाई 2016 तक, कुल पैंतालीस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री विवेक शर्मा, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आर. पी. सिंह, भापुसे, पुलिस उपमहानिरीक्षक (प्रशासन), अअवि, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री विवेक शर्मा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्य से मुक्त हो जावेंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री विवेक शर्मा, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2016

वर्ष 2017 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले न्यायिक अधिकारियों की सूची

क्रमांक 3(ए)-2-2006-इक्कीस-ब (एक)-1247.—राज्य शासन वर्ष 2017 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका (5) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है:—

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की अवधि	सेवानिवृत्ति दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री वृन्दावन लाल झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली.	9-1-1957	8-1-2017	31-1-2017
2	श्री इकबाल अहमद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर.	18-1-1957	17-1-2017	31-1-2017
3	श्री श्याम सुन्दर गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड.	20-1-1957	19-1-2017	31-1-2017
4	श्री हरी निवास बाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया.	26-1-1957	25-1-2017	31-1-2017
5	श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा.	4-2-1957	3-2-2017	28-2-2017
6	श्री रामलक्ष्मण करोरिया, अपर जिला न्यायाधीश, इन्दौर.	8-2-1957	7-2-2017	28-2-2017
7	श्री राज कुमार भावे, अध्यक्ष, उपभोक्ता फोरम, गुना.	10-2-1957	9-2-2017	28-2-2017
8	श्री श्रवण कुमार रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, मण्डलेश्वर.	1-3-1957	28-2-2017	28-2-2017
9	श्री जशरथ राज बच्चन, अपर जिला न्यायाधीश, कटनी.	7-3-1957	6-3-2017	31-3-2017
10	श्री दिनेश कुमार नायक, सदस्य-सचिव, म. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	14-5-1957	13-5-2017	31-5-2017
11	श्री प्रेमचन्द्र शर्मा, अपर जिला न्यायाधीश, देवास.	18-5-1957	17-5-2017	31-5-2017
12	श्री जोसेफ माईकल राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर अपर जिला न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा.	26-5-1957	25-5-2017	31-5-2017

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी.	30-5-1957	24-5-2017	31-5-2017
14	श्री राजेन्द्र कुमार सिंह गौतम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर.	15-6-1957	14-6-2017	30-6-2017
15	मीना सिंह, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर.	30-6-1957	29-6-2017	30-6-2017
16	श्रीमती विभावरी जोशी, अपर जिला न्यायाधीश, राजगढ़.	30-6-1957	29-6-2017	30-6-2017
17	श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल.	1-7-1957	30-6-2017	30-6-2017
18	श्री आलोक कुमार वर्मा (जूनि.), जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर.	20-7-1957	19-7-2017	31-7-2017
19	श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, अपर जिला न्यायाधीश, मण्डला.	15-8-1957	14-8-2017	31-8-2017
20	श्री सत्येन्द्र गोवर्धन लाल जोशी, विशेष न्यायाधीश, इन्दौर.	29-8-1957	28-8-2017	31-8-2017
21	श्री मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल, म. प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर.	8-9-1957	7-9-2017	30-9-2017
22	श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी.	10-9-1957	9-9-2017	30-9-2017
23	श्री विनोद कुमार दुबे (सीनि.), जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल.	22-9-1957	21-9-2017	30-9-2017
24	कुमारी कल्पना उपाध्याय, अपर जिला न्यायाधीश, नरसिंहपुर.	4-11-1957	3-11-2017	30-11-2017
25	श्री भरत भूषण श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, छतरपुर.	2-12-1957	1-12-2017	31-12-2017
26.	श्री महेश भदकारिया, अपर जिला न्यायाधीश, गुना.	15-12-1957	14-12-2017	31-12-2017
27	श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़.	22-12-1957	21-12-2017	31-12-2017
28	श्री कैलाश चन्द्र बांगर, विशेष न्यायाधीश, झाबुआ.	1-1-1958	31-12-2017	31-12-2017

भोपाल, दिनांक 16 मई 2016

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब-(एक)1653-2016.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(1), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 70 एवं 81 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :—

सारणी

स.क्र. (1)	सिविल जिले का नाम (2)	विशेष न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)
“70.	रायसेन	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन	श्री विजय चंद्रा, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन.
81.	सागर	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खुरई	श्री अनिल कुमार अग्रवाल, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खुरई.”

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(One)-1653-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th September, 2010, namely :—

AMENDMENTS

In the said notification, in the Table, for serial numbers 70 and 81 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Name of the Civil District (2)	Name of Special Court (3)	Name of the Judge of the Special Court (4)
“70.	Raisen	IIIrd Additional Sessions Judge, Raisen	Shri Vijay Chandra, IIIrd Additional Sessions Judge, Raisen
81.	Sagar	IIIrd Additional Sessions Judge, Khurai	Shri Anil Kumar Agrawal, IIIrd Additional Sessions Judge, Khurai.”

फा. क्र. 1-2-90-इक्कीस-ब(एक)-1511-2016.—अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 30 जनवरी, 1990 को, जहां तक कि उसका सम्बन्ध नीचे विनिर्दिष्ट जिलों में अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना से है, अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, नीचे विनिर्दिष्ट जिलों में से प्रत्येक के लिए उस तारीख से, जिसको कि उच्च न्यायालय द्वारा पदस्थ किए जाने वाले न्यायाधीश, उक्त न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करें, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिये अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करता है, अर्थात् :—

1. बैतूल
2. छतरपुर
3. मुरैना
4. सागर
5. विदिशा

2. उपरोक्त पांच जिलों के विशेष न्यायालयों में, उपरोक्त पैरा-1 के अधीन अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना की तारीख को लंबित समस्त मामले, पैरा-1 के अधीन स्थापित अनन्य विशेष न्यायालयों को अंतरित हो जाएंगे।

F.No. 1-2-90-XXI-B(1)-1511-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989) and in suppression of this Department's Notification No. 1-2-90-XXI-B(1), dated 30th January, 1990 so far as it relates to the establishment of the Exclusive Special Court in the following districts, the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, establish for each of the following districts an Exclusive Special Court from the date on which the Judge to be posted by the High Court to the concerned Exclusive Special Court assumes the charge of his office in the said Court to try the offences under the said Act, namely :—

1. Betul
2. Chhatarpur
3. Morena
4. Sagar
5. Vidisha

2. All cases pending in the Special Court of the above five districts on the date of establishment of exclusive Special Court under Para-1, shall stand transferred to the Exclusive Special Court established under para-1.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मई 2016

फा. क्र. 17(ई)2-2002-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अरूण सिंह तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया की सेवाएं, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वाणी, सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मई 2016

क्र. एफ-11-05-2006-उन्तीस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 मई 2016 द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन में संचालक के पद पर मनोनीत करने का आदेश निरस्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक एफ-25-19/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N-22°14'45.90" से N-22°15'25.27" उत्तर अक्षांश तथा E-75°12'45.34" से E-75°13'22.51" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

:: अनुसूची ::

जिला - धार
वनमण्डल - धार

तहसील - मनावर
वन परिक्षेत्र - धामनोद

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे० में)	
1	कुवाड	कुवाड	म.प्र. शासन चरनोई, निस्तार चरनोई	896 898/3 898/2	25 10 5	उत्तर - मुनारा क्रमांक 31 से 34 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - मुनारा क्रमांक 34 से 36 एवं मुनारा क्रमांक 36 से 01 एवं मुनारा क्रमांक 01 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 07 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 15 से 31 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	40	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-54/2012-एफसी दिनांक 29.01.2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, मनावर की स्वीकृत परियोजना औझर नाला तालाब में प्रभावित 108 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 110 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 40 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला धार के आदेश क्रमांक 62/11-12/अ-19(3) दिनांक 21.09.2012 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार मनावर द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2016

क्र. एफ-25-19-2016-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-19-2016-दस-3, दिनांक 13 मई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 13th May 2016

No. F-25-19/2016/10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-22°14'45.90" to N-22°15'25.27" North Latitude and E-75°12'45.34" to E-75°13'22.51" East Longitude.

SCHEDULE

District - Dhar		Tehsil. - Manawar				
Forest Division - Dhar		Forest Range - Dhamnod				
No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kuwad	Kuwad	M.P. Govt, Nistar Charnoi	896 898 / 3 898 / 2	25 10 5	North - Artificial forest boundary from pillar No. 31 to 34. East - Artificial Forest Boundary from Piller No 34 to 36 and pillar no. 36 to 01 and pillar No. 01 to 07. South - Artificial forest boundary from Piller No 07 to 15. West - Artificial forest boundary from pillar No 15 to 31.
				Total	40	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climet change, Govt. of India's order no. F.No. 8-54/2012-FC dated 29-01-13 and in lieu of 108 hectare of affected forest land under the sanctioned project of OJHARNALA TANK of Water Resource Department of E. E. Manawar, the above mentioned Non Forest Land of 40 hectare Transferred or muted in favour of M.P. Govt, Forest Department by order No. 62/11-12/A-19 (3) dated 21-09-2012 of Collector Dhar for the purpose of compensatory afforestation.

(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per Certificate of Tehsildar Manwar (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. **Individuals Right** - Nil
2. **Communities Rights** - Nil

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक एफ-25-19/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N-22⁰16'44.27" से N-22⁰17'12.05" उत्तर अक्षांश तथा E-75⁰17'20.33" से E-75⁰18'17.28" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

:: अनुसूची ::

जिला - धार
वनमण्डल - धार

तहसील - मनावर
वन परिक्षेत्र - धामनोद

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे० में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	साकल्दा	साकल्दा	म.प्र. शासन पहाड़ चरनोई	6/1/1/1/1/1	20	उत्तर - मुनारा क्रमांक 11 से 21 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - मुनारा क्रमांक 21 से 29 तक की कृत्रिम वन सीमा।
		पांजरिया	म.प्र. शासन पहाड़ चरनोई ना.का.	21/1/1/1/2	10	दक्षिण - मुनारा क्रमांक 29 से 01 एवं मुनारा क्रमांक 01 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			म.प्र. शासन पहाड़ चरनोई ना.का.	21/1/1/1/13अ	10	पश्चिम - मुनारा क्रमांक 10 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			योग		40	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-54/2012-एफसी दिनांक 29.01.2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, मनावर की स्वीकृत परियोजना औझर नाला तालाब में प्रभावित 108 हेक्टेयर वनभूमि के एवंज में प्राप्त कुल 110 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 40 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला धार के आदेश क्रमांक 62/11-12/अ-19(3) दिनांक 21.09.2012 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार मनावर (पदनाम) द्वारा दिये ग-
प्रमाण पत्र अनुमार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक एफ-25-19/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N-22⁰15'18.72" से N-22⁰15'46.85" उत्तर अक्षांश तथा E-75⁰12'38.60" से E-75⁰13'.11.73" देशांश के बीच स्थित है।

:: अनुसूची ::

जिला - धार तहसील - मनावर
वनमण्डल - धार वन परिक्षेत्र - धामनोद

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे० में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	सुलीबडी	सुलीबडी	म.प्र. शासन पहाड़	303/1/1/1/1	10	उत्तर - मुनारा क्रमांक 22 से 28 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				339/1/	21.990	पूर्व - मुनारा क्रमांक 28 से 01 एवं मुनारा क्रमांक 01 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						दक्षिण - मुनारा क्रमांक 07 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	31.990	पश्चिम - मुनारा क्रमांक 10 से 22 तक की कृत्रिम वन सीमा।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-54/2012-एफसी दिनांक 29.01.2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, मनावर की स्वीकृत परियोजना औझर नाला तालाब में प्रभावित 108 हेक्टेयर वनभूमि के एवंज में प्राप्त कुल 110 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 40 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला धार के आदेश क्रमांक 62/11-12/अ-19(3) दिनांक 21.09.2012 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, मनावर की प्रस्तावित परियोजना ग्राम डेगली (मोहाडपुरा) तालाब लघु सिंचाई योजना में (कक्ष क्रमांक 243 की वन भूमि) 12.037 हेक्टेयर प्रभावित होना प्रस्तावित होने के एवज में प्राप्त कुल 12.037 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.990 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला धार के आदेश क्रमांक 36/12-13/अ-19 (3) दिनांक 07.01.2013 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

इस प्रकार कुल 31.990 हेक्टेयर राजस्व भूमि को संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

- (ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार मनावर (पदनाम) द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र अनुमार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2016

क्र. एफ-25-19-2016-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-19-2016-दस-3, दिनांक 13 मई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 13th May 2016

No. F-25-19/2016/10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-22°15'18.72" to N-22°15'46.85" North Latitude and E-75°12'38.60" to E-75°13'.11.73" East Longitude.

SCHEDULE

District - Dhar
Forest Division - Dhar

Tehsil. - Manawar
Forest Range - Dhamnod

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sulibardi	Sulibardi	M.P. Govt, Pahad	303 / 1 / 1 / 1 / 1	10	North - Artificial forest boundary from pillar No. 22 to 28.
				339 / 1 / 1	21.990	East - Artificial forest boundary from pillar No. 28 to 01 and pillar no. 01 to 07.
						South - Artificial forest boundary from Piller No 07 to 10.
						West - Artificial forest boundary from pillar No 10 to 22.
				Total	31.990	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climet change, Govt. of India's order no. F.No. 8-54/2012-FC dated 29-01-13 and in lieu of 108 hectare of affected forest land under the sanctioned project of OJHARNALA TANK of Water Resource Department of E. E. Manawar, the above mentioned Non Forest Land of 40 hectare Transferred or muted in favour of M.P. Govt, Forest Department by order No. 62/11-12/A-19 (3) dated 21-09-2012 of Collector Dhar for the purpose of compensatory afforestation.
2. Apart from this, forest land of compartment no. 243 area 12.037 ha. will be affected forest land under the proposed project of DEKALI TANK of Water Resource Department of E. E. Manawar, the above mentioned Non Forest Land of 1.990 hectare was transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order no. 36/12-13/A-19 (3) dated 07-01-13 of Collector Dhar. for the purpose of compensatory afforestation.

Thus total revenue land of 31.990 ha. is declared as protected forest.

- (B)** The khasra Wise details of recorded right on the above land as per Certificate of Tehsildar Manwar (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. **Individuals Right** - Nil
2. **Communities Rights** - Nil

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक एफ-25-25/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड से N-24⁰21'43.9" से E-24⁰21'48.8" उत्तर अक्षांश तथा N-78⁰31'3.9" से E-78⁰31'11.00" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

:: अनुसूची ::

जिला -सागर तहसील - मालथौन
वनमण्डल - उत्तर सागर (सा0) वन परिक्षेत्र - मालथौन

क्रमांक	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे0 में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	चनारी	चनारी	छोटा घांस,	177/2	2.00	उत्तर - आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक आर.एफ. 102 का मुनारा क्रमांक 280 से 281 तक की वन सीमा। पूर्व - आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक आर.एफ. 102 की वन सीमा के मुनारा क्रमांक 01 तक की कृत्रिम सीमा। दक्षिण - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम सीमा। पश्चिम - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक आर.एफ. 102 का मुनारा क्रमांक 280 तक कृत्रिम सीमा।
				योग	2.00	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8सी/5/597-एफ.सी.डब्लू./1420 दिनांक 03.06.2008 में अधिरोपित शर्त के अनुसार श्री रमेश अजमानी सागर की स्वीकृत परियोजना फर्शी-पत्थर लीज श्री रमेश अजमानी सागर में प्रभावित 2.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 2.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 1728/खनिज/2007 दिनांक 13.12.2007 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 1728/खनिज/2007 दिनांक 13.12.2007 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- (अ) व्यक्तिगत अधिकार :— उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
 (ब) सामुदायिक अधिकार :— उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2016

क्र. एफ-25-25-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-25-2016-दस-3, दिनांक 13 मई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 13th May 2016

No. F-25-25/2016/10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-24°21'43.9" to E-24°21'48.8" North Latitude and N-78°31'3.9" to E-78°31'11.00" East Longitude.

SCHEDULE

District - Sagar
Forest Division - North Sagar (T)

Tehsil. - Malthone
Forest Range - Malthone

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Area (Hectare)	Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.				
1	2	3	4	5	6	7		
1	Chanari	Chanari	Chhota Ghas,	177 / 2	2.00	North -	Forest Boundary Line of Reserve Forest Block Compartment No. RF 102 of pillar No 280 of 281.	
						East -	Forest Boundary Line of Reserve Forest Block Compartment No. RF 102 pillar No 281 to Proposed Forest Block Artificial Line Pillar No. 01.	
						South -	Proposed Forest Block Artificial Line Pillar No. 01 to 02.	
						West -	Proposed Forest block Artificial Line Pillar No. 02 to Forest Boundary Line of Reserve Forest Block Compartment. RF 102 Artificial Line Pillar No. 280.	
				Total	2.00			

Reason for publication of Notification :-

- 1) In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climate change, Govt. of India's order no. F.No. 8C/5/597/98-FCW/1420 dated 03/06/2008 and in lieu of 2.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Stone Quarry Lease of Mr. Ramesh Ajmani Sagar of the above mentioned Non Forest Land of 2.00 hectare Transferred of muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No. 1728/Mining/2007 Dated 13-12-2007 of Revenue Collector Sagar for the Purpose of compensatory Afforestation in to be declared as protected forest.
- 2) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report No. 1728/Mining/2007 Dated 13-12-2007 Court of Competent Revenue officer Collector Sagar are as under.

(A) **Individuals Right** - There are not rights on individual.

(B) **Communities Rights** - There are not rights on Communities.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक एफ-25-27/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N-21⁰44'35.5" से N-21⁰44'50.5" उत्तर अक्षांश तथा E-74⁰37'32" से E-74⁰37'49.1" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

:: अनुसूची ::

जिला - बड़वानी तहसील - पानसेमल
वनमण्डल - सेंधवा, वनमण्डल वन परिक्षेत्र - पानसेमल

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे० में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	आमझिरी	आमझिरी	नाकाबिज चरनोई	38/8	12.683	उत्तर - आरक्षित वनखण्ड पानसेमल के कक्ष क्र. 747 की सीमा में स्थिति मुनारा क्रमांक 518 ए1 से 519 एवं 520 ए तक। पूर्व - मुनारा क्रमांक 518 ए1 से 518 ए6 तक की कृत्रिम सीमा। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 518 ए6 से 518 ए15 तक की कृत्रिम सीमा। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 518 ए15 से 520 ए तक की कृत्रिम सीमा।
				योग	12.683	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6-MPC041/2013-BHO/2098 दिनांक 28.04.2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग बड़वानी की स्वीकृत बोरवन तालाब परियोजना में प्रभावित 12.683 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 12.683 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 12.683 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक 901/रीडर/2012 राजस्व प्रकरण क्र.03/अ-74/2011-12 दिनांक 15.05.2012 हस्तांतरित एवं नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पानसेमल के प्रतिवेदन दिनांक 19.01.2016 के द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2016

क्र. एफ-25-27-2016-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-27-2016-दस-3, दिनांक 13 मई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 13th May 2016

No. F-25-27/2016/10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-21°44'35.5" to N-24°44'50.5" North Latitude and E-74°37'32" to E-74°37'49.1" East Longitude.

SCHEDULE

District - Barwani
Forest Division - Sendhwa
Tehsil. - Pansemal
Forest Range - Pansemal

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Amjhiri	Amjhiri	Grassland	38 / 3	12.683	7
						North - Boundary Piller No 518 S1 To 519 and 520A Situated in Compartment No. 747 of reserved forest Block pansemal.
						East - Artificial Forest Boundary from Piller No 518 A1 to 518 A6.
						South - Artificial forest boundary from Piller No 518 A6 to 518 A15.
						West - Artificial forest boundary from pillar No 518 A15 to 520A.
				Total	12.683	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climet change, Govt. of India's order no. F.No. 6-MPC041/2013-BHO/2098 dated 08/12/2014 and in lieu of 12.683 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Borwan Tank of project E.E. Water Resources Department Barwani the above mentioned Non Forest Land of 12.683 hectare Transferred or muted in favour of M.P. Govt, Forest Department by order No. 901 Revenu Cash No. 03/A-74/2011-12 dated 15-05-2015 of collector distt. Barwani for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Resoans - Nil

(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report No. Dated 19.01.2016 of sub Divisinal officer (Revenu) Pansamal are as under.

1. **Individuals Right** - Nil
2. **Communities Rights** - Nil

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. 490.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
(1)	(2)
ग्राम तेलीवट, प. ह. नं. 36 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-364.111 हेक्टेयर.	ग्राम-तराकढाना, प. ह. नं. 36.

छिंदवाड़ा, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्र. 644.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
(1)	(2)
ग्राम आंकिया, प. ह. नं. 72 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-342.986 हेक्टेयर.	ग्राम-धोबीघाट, प. ह. नं. 72

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 7 मई 2016

प्र. क्र. 02-अ-82-2015-16-ग्राम सुनवाहा.—चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमिधारकों की अंकित भूमि की हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों परियोजना के लिये राज्य सरकार के संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2-2014-सात-2ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

- परियोजना का नाम :—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों परियोजना के नहर निर्माण करने हेतु.
- भूमि का विवरण :—ग्राम-सुनवाहा, तहसील-टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-0.033 हेक्टेयर.

अनुसूची

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रभुदयाल पिता बारेलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.90	359	0.093	0.033
कुल योग			0.093	0.033

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों परियोजना के नहर निर्माण करने हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे एवं (प्लान) का निरीक्षण, टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग टीकमगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2014-15-ग्राम बौरी.—चूंकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों परियोजना के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2-2014-सात-2ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए, आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

- परियोजना का नाम :—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों परियोजना के नहर निर्माण करने हेतु.
- भूमि का विवरण :—ग्राम-बौरी, तहसील-टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-2.122 हेक्टेयर.

अनुसूची

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बृजलाल, रामस्वरूप, सुजान मथरा तनय हल्के, जाति यादव, पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	321/1 324/1	0.132 0.099	0.080 0.075
योग			0.231	0.155
2.	बृजलाल, सुजान मथरा तनय हल्के 3/4 हि. बराबर लच्छू पन्ना तनय किशोरी 1/4 हि. जाति यादव, पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	421/322 322	0.198 0.308	0.125 0.152
योग			0.506	0.277

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	जयराम, रणवीर तनय सीताप्रसाद, जाति यादव, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी काशीबाई पुत्री सीताप्रसाद, जाति यादव, पता नि. ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी बृजलाल, रामस्वरूप, सुजान, मथरा, तनय हल्के, जाति यादव पता नि. ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी राधे, शीलचन्द, रमेश, प्रकाश, सुरेश तनय राजाराम, जाति यादव, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी टुल्के, त. घनश्याम, रामसिंह, रामप्रसाद, राकेश, मुकेश त. छोड़ा, जाति यादव, पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी गोकल तनय काशीराम, जाति यादव, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी बालकिशन तनय काशीराम नाबा. सं. माता रामकुंवर, जाति यादव, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी रामकुंवर बेवा काशीराम, जाति यादव, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी अतलकुंवर, इमरत, गनेशीबाई पुत्री काशीराम जाति यादव, पता नि. ग्राम 1/12 भाग भूमि स्वामी.	323 326	0.085 0.032	0.040 0.012
			योग	0.117 0.052
4.	जयराम, रणवीर तनय सीताप्रसाद, जाति यादव, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी काशीबाई पुत्री सीताप्रसाद, जाति यादव, पता नि. ग्राम बराबर भाग भूमि स्वामी काशीबाई पुत्री सीताप्रसाद, जाति यादव, पता नि. ग्राम बराबर भाग भूमि स्वामी.	331/1/1	0.261	0.065
			योग	0.261 0.065
5.	रामचरन, हल्लू तनय मनका, जाति यादव, पता नि. खुशीपुरा बराबर भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.94.	333 334/1 335/1 336 337	0.198 0.212 0.280 0.178 0.275	0.060 0.191 0.030 0.006 0.074
			योग	1.143 0.361
6.	जयराम, रणवीर तनय सीताप्रसाद, जाति यादव, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी काशीबाई पुत्री सीताप्रसाद, जाति यादव, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	312/1	1.247	0.070
			योग	1.247 0.070
7.	जयराम, रणवीर तनय सीताप्रसाद, जाति यादव, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी काशीबाई पुत्री सीताप्रसाद, जाति यादव, पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी बृजलाल, रामस्वरूप, सुजान, मथरा, तनय हल्के, जाति यादव पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी.	311/1	0.819	0.060
			योग	0.819 0.060

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	ग्याप्रसाद, सुरेशकुमार, गोकलप्रसाद, प्रभुदयाल, शंकरलाल तनय हरचन्दी, जाति सुनार पता नि. टीकमगढ़ समान भाग भूमि स्वामी.	15/1	1.024	0.170
			योग	
			1.024	0.170
9	मनोज कुमार तनय कुंजबिहारी, जाति अवस्थी, नि. टीकमगढ़, भूमि स्वामी.	5/1/1	1.882	135
			योग	
			1.882	0.135
10	कमला तनय हरदास, जाति सौर पता नि. रामनगर सौंवड़ा हि. 1/2 भाग भूमि स्वामी माया बेवा मंगू, राजू, भागीरथ तनय मंगू, सोनम पुत्री मंगू जाति सौर, पता निवासी ग्राम रामनग सेवड़ा, तह. टीकमगढ़, हि. 1/2 भाग भूमि स्वामी.	3/4	1.619	0.422
			योग	
			1.619	0.422
11	मंगल तनय दौलत जाति हरिजन पता नि. टीकमगढ़ भूमि स्वामी.	3/5/1 3/6/1/1 3/6/2/1/1	0.358 0.521 0.572	0.087 0.023 0.021
			योग	
			1.451	0.131
12	चैना तनय झुट्टू जाति अहिरवार, पता नि. टीकमगढ़ भूमि स्वामी.	2/1/2	0.426	0.180
			योग	
			0.426	0.180
13	प्यारीबाई पत्नी हरचरन, जाति अहिरवार, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	1/4	1.150	0.040
			योग	
			1.150	0.040
14	हरचरन, छक्की तनय रीछा, काशीबाई पुत्री रीछा जाति अहिरवार, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	1/5	0.600	0.004
			योग	
			0.600	0.004
			कुल योग	
			12.476	2.122

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना के नहर निर्माण करने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं (प्लान) का निरीक्षण, टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(भू-अर्जन हेतु मध्यप्रदेश शासन की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" अंतर्गत)

देवास, दिनांक 13 मई 2016

क्र. 959-भू-अर्जन-16.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में, आपसी सहमति से क्रय नीति के अंतर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस-2 के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए आवश्यक है :—

अनुसूची

- (1) ग्राम का नाम—किलोदा-पी
- (2) तहसील—कन्नौद
- (3) जिला—देवास
- (4) कुल प्रस्ताव—01

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	सर्वे क्रमांक	रकबा अर्जन किये जाने वाली भूमि का
1	कृषि भूमि	श्री शब्बीर खाँ इब्राहीम खाँ	235	0.21 हे.
2	कृषि भूमि	श्री इब्राहिम पिता छोटे खाँ	236	0.01 हे.
3	कृषि भूमि	श्री कैलाश पिता तुलसीराम	230 / 1 / 1	0.13 हे.
4	कृषि भूमि	श्री कैलाश पिता तुलसीराम	270 पेकी	0.01 हे.
5	कृषि भूमि	श्री राधेश्याम पिता मुरली	228 / 1	0.08 हे.
6	कृषि भूमि	श्री गोंविंद पिता रामदीन जाति जाट	227	0.04 हे.
7	कृषि भूमि	श्री अरुणाबाई पति दीपचन्द्र	225	0.168 हे.
8	कृषि भूमि	श्री पर्वत पिता श्रीपाल गोंड	268 / 7	0.20 हे.
9	कृषि भूमि	श्री दीपचन्द्र पति चिमना जाति जाट	273	0.3 हे.
10	कृषि भूमि	श्री दीपचन्द्र पति चिमना जाति जाट	274	0.12 हे.
11	कृषि भूमि	श्री रामनारायण पिता रामकरण	264 / 2	0.28 हे.
12	कृषि भूमि	श्री खुशाल पिता रामदीन	227	0.20 हे.
13	कृषि भूमि	श्री संतोष पिता गबु गोंड	268 / 5 / 1	0.02 हे.
14	कृषि भूमि	श्री रामेश्वर पिता तुलसीराम जाट	272	0.12 हे.

कुल सर्वे नंबर—14 कुल प्रस्ताव—01.

उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस-2 के अंतर्गत ग्राम किलोदा-पी की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 965-भू-अर्जन-16.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में, आपसी सहमति से क्रय नीति के अंतर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस-2 के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए आवश्यक है :-

अनुसूची

- (1) ग्राम का नाम—किलोदा-पी
- (2) तहसील—कन्नौद
- (3) जिला—देवास
- (4) कुल प्रस्ताव—01

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	सर्वे क्रमांक	रकबा अर्जन किये जाने वाली भूमि का
1	2	3	4	5
1	कृषि भूमि	श्री मांगीलाल उमराव करणसिंह पिता चंदरसिंह लालसिंह गोलू सुमनबाई सीमाबाई पिता बुदु गीताबाई बेवा बुदु श्रवण आशा पिता प्रहलाद माता स्व. सीताबाई जाति कोरकु	80	0.06 हे.
2	कृषि भूमि	श्री मकबूल पिता इब्राहिम अ.पा.क. हाजराबाई पति इब्राहिम जाति मुसलमान	81	0.08 हे.
3	कृषि भूमि	श्री शरीफ खॉ पिता इब्राहिम खॉ अ.पा.क. माता हाजराबाई पति इब्राहिम खॉ	232	0.08 हे.
4	कृषि भूमि	श्री पीर जी पिता इब्राहिम खॉ अ.पा.क हाजराबाई पति इब्राहिम खॉ जाति मेवाती	233	0.10 हे.
5	कृषि भूमि	श्री मेहबूब खॉ पिता इब्राहिम खॉ अ.पा.क हाजराबाई पति इब्राहिम खॉ	234	0.10 हे.
6	कृषि भूमि	श्री शब्बीर खॉ पिता इब्राहिम खॉ	235	0.11 हे.
7	कृषि भूमि	श्री इब्राहिम खॉ पिता छोटे खॉ	236	0.11 हे.
8	कृषि भूमि	श्री गफुर पिता गनी खॉ	237	0.01 हे.
9	कृषि भूमि	श्री कैलाश पिता तुलराम जाति जाट	229 / 1	0.02 हे.
10	कृषि भूमि	श्री भुजराम, रामोतीबाई, लक्ष्मीबाई, गायत्रीबाई पिता सेवाराम, लीलाबाई बेवा सेवाराम जाति चमार	229 / 2 / 1	0.16 हे.
11	कृषि भूमि	श्रीमती गुलाबबाई पति तुलसीराम	229 / 2 / 2	0.03 हे.
12	कृषि भूमि	श्री महेन्द्र पिता मोहन, अ.पा.क. मणीबाई पति मोहन कुडिया जाति जाट	253 / 1	0.07 हे.
13	कृषि भूमि	श्री भगवतराम पिता शिवराम जाति जाट	253 / 2	0.10 हे.
14	कृषि भूमि	श्री रामेश्वर पिता शिवराम जाति जाट	254	0.08 हे.
15	कृषि भूमि	श्री हरी पिता पून्या जाति चमार	260	0.06 हे.
16	कृषि भूमि	श्री अमरा पिता हरलाल जाति गौड़	261	0.13 हे.
17	कृषि भूमि	श्री रामेश्वर पिता रामचरण, नत्थी विधवा रामचरण जाति बलाई	262 / 1	0.4 हे.
18	कृषि भूमि	श्री शिव पिता रामचरण जाति बलाई	262 / 2	0.04 हे.
19	कृषि भूमि	श्री सेवाराम पिता रामचरण जाति बलाई	262 / 3	0.05 हे.
20	कृषि भूमि	श्री रामनारायण पिता रामकरण	264 / 1	0.19 हे.

कुल सर्वे नंबर—20 कुल प्रस्ताव-01.

उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस-2 के अंतर्गत ग्राम किलोदा-पी की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 971-भू-अर्जन-16.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में, आपसी सहमति से क्रय नीति के अंतर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस-2 के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए आवश्यक है :-

अनुसूची

- (1) ग्राम का नाम—बामनीखुर्द
- (2) तहसील—कन्नौद
- (3) जिला—देवास
- (4) कुल प्रस्ताव—01

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	सर्वे क्रमांक	रकबा अर्जन किये जाने वाली भूमि का
1	कृषि भूमि	श्री शब्बीर खां पिता इसबखां जाति मेवाती	337	0.2 हे.
2	कृषि भूमि	श्री भीकाजी गोरेलाल पिरागबाई पिता गिरधारी	338	0.2 हे.
3	कृषि भूमि	श्री गोविन्द पिता गंगाराम जाति गुर्जर	354	0.14 हे.
4	कृषि भूमि	श्री शुभम पित नारायण अ. पा.कर्ता माँ पिकुबाई पति नारायण जाति गुर्जर	353	0.07 हे.
5	कृषि भूमि	श्री अशोक पिता मांगीलाल जाति गुर्जर	350	0.12 हे.
6	कृषि भूमि	श्री बलराम पिता मांगीलाल जाति गुर्जर	345 / 1	0.08 हे.
7	कृषि भूमि	श्रीमती विधाबाई पति बलराम जाति गुर्जर	345 / 2	0.08 हे.
8	कृषि भूमि	श्री नर्मदाप्रसाद पि. हिरालाल जाति बलाई	348 / 1	0.1 हे.
9	कृषि भूमि	श्री राधाकिशन पिता रामबकस जातिगुर्जर	346 / 1	0.04 हे.
10	कृषि भूमि	श्री संदीप पिता राधाकिशन जाति गुर्जर	346 / 2	0.04 हे.
11	कृषि भूमि	श्री अंकित अ. पा दूक पिता मोहनलाल	347	0.14 हे.
12	कृषि भूमि	श्री लखन पिता बुद्धु जाति बलाई	371 / 1	0.10 हे.
13	कृषि भूमि	श्रीमती गौराबाई वि. बुद्धु जाति बलाई	372	0.04 हे.
14	कृषि भूमि	श्री धनराज पिता रूगनाथ जाति गवली	373	0.09 हे.
15	कृषि भूमि	श्रीमती हरूनबाई पति कंवरखां जातिमेवाती	375	0.01 हे.
16	कृषि भूमि	श्री रमेश केदार कलीराम पिता बाबु सोना भगवती कलीबाई पिता बाबुमिटाबाई विधवा बाबु जाति बलाई	374	0.16 हे.
17	कृषि भूमि	श्रीमती हारून बाई पिता मान खां	565 / 1	0.18 हे.
18	कृषि भूमि	श्री मेहबुब पिता बोदर जाति मेवाती	566 / 1	0.06 हे.

19	कृषि भूमि	श्री हुसैन पिता रियासत अ. पा. क. आमना पति रियासत जाति मेवाती	542	0.04 हे.
20	कृषि भूमि	श्री शहीद खां पिता बोदर खां जाति मेवाती	543	0.192 हे.
21	कृषि भूमि	श्री रहीस खाँ पिता बोन्दर जाति मेवाती	547	0.3 हे.
22	कृषि भूमि	श्री हबीब खाँ पिता इसब खाँ जाति मेवाती	579	0.44 हे.
23	कृषि भूमि	श्री जितेन्द्र कुमार पिता सत्यनारायण अ.प.कर्ता सत्यनारायण पिता श्रीराम जाति गुर्जर	597	0.20 हे.
24	कृषि भूमि	श्री कल्ला खाँ पिता इदू खाँ जाति मेवाती	603	0.18 हे.
25	कृषि भूमि	श्री बलराम पिता कन्हैया जाति गुर्जर	442/1	0.06 हे.
26	कृषि भूमि	श्री मोहनलाल पिता कन्हैयालाल	443	0.07 हे.

कुल सर्वे नंबर—26 कुल प्रस्ताव-01.

उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस-2 के अंतर्गत ग्राम बामनीखुर्द की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 977-भू-अर्जन-16.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अंतर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस-2 के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए आवश्यक है :—

अनुसूची

- (1) ग्राम का नाम—रायपुरा
- (2) तहसील—कन्नौद
- (3) जिला—देवास
- (4) कुल प्रस्ताव—01

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	सर्वे क्रमांक	रकबा अर्जन किये जाने वाली भूमि का
1	कृषि भूमि	श्री हसन बी वेबा गबु हाफिज अल्ताफ नबी खां हफीजन बी पिता गबु मेवाती	2	0.03 हे.
2	कृषि भूमि	श्री सुबराती पिता मकबुलश्या जाति फकीर	6	0.13 हे.
3	कृषि भूमि	श्रीमती छोटीबाई पति नबु खां जाति मुसलमान	7/1	0.022 हे.
4	कृषि भूमि	श्रीमती रहिसा बाई पति नबू खां मुसलमान	7/2	0.022 हे.
5	कृषि भूमि	श्री बिलाल पिता नबू खां मुसलमान	7/3	0.022 हे.
6	कृषि भूमि	नूर बी पिता नबू खां मुसलमान	7/4	0.022 हे.
7	कृषि भूमि	श्री शरीफ पिता नबू खां मुसलमान	7/5	0.022 हे.
8	कृषि भूमि	श्री काले खां पिता नबू खां मुसलमान	7/6	0.022 हे.
9	कृषि भूमि	श्री आरिफ खां पिता नबू खां मुसलमान	7/7	0.03 हे.
10	कृषि भूमि	श्री शमशुद्दीन खां पिता नबू खां मुसलमान	7/8	0.028 हे.
11	कृषि भूमि	श्रीमती गुलशनबाई बेवा शब्बीर खां, शहीद, मेहबूब, अयूब, इकबाल, भूरे, इरफान, चुम्मु, छोटे खां, हकीमन, नसीब पिता शब्बीर खां	8/1	0.19 हे.
12	कृषि भूमि	श्री आयशाबाई बेवा हबीब खां मेवाती	52/1	0.24 हे.
13	कृषि भूमि	श्री रमजान खां पिता जहांगीर खां मेवाती	117	0.06 हे.
14	कृषि भूमि	श्रीमती नूरीबाई बेवा खाजु गफुरी पुत्री खाजु मेवाती	116	0.07 हे.
15	कृषि भूमि	श्री एहमद पिता नजीम खां सद्दाम पिता एहमद खां अ.प.क. पिता एहमद नजीम खां मेवाती	115/1	0.04 हे.
16	कृषि भूमि	श्री हलीमन बाई बेवा हमीद खां मेवाती	115/2	0.05 हे.
17	कृषि भूमि	श्री भागमल पिता असरफ मेवाती	199	0.10 हे.
18	कृषि भूमि	श्री कययुब पिता फुल खां, हसीनाबाई, आमनाबाई पिता फुल खां मेवाती	217/1	0.38 हे.
19	कृषि भूमि	श्री अजीज पिता अशरफ मेवाती	219/1	0.08 हे.
20	कृषि भूमि	श्रीमती बशीयाबाई पति अब्दुल रहमान खां मेवाती	223/1	0.06 हे.
21	कृषि भूमि	श्रीमती जेनमबाई पिता रसूल खां मेवाती	223/2	0.12 हे.
22	कृषि भूमि	श्री अफसर पिता मान खां मेवाती	239/2	0.42 हे.
23	कृषि भूमि	श्री शहीद खां पिता इदरूस खां मेवाती	238/1/1	0.16 हे.
24	कृषि भूमि	श्री छोटे खां पिता एवज खां मेवाती	238/1/2/2	0.20 हे.
25	कृषि भूमि	श्री भाई खां पिता जहागीर मेवाती	122	0.13 हे.
26	कृषि भूमि	श्रीमती छोटीबाई पिता रसूल खां मेवाती	239/1	0.14 हे.

कुल सर्वे नंबर—26 कुल प्रस्ताव-01.

उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस-2 के अंतर्गत ग्राम रायपुरा की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 983-भू-अर्जन-16.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में, आपसी सहमति से क्रय नीति के अंतर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस-2 के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए आवश्यक है :—

अनुसूची

- (1) ग्राम का नाम—बामनीखुर्द
- (2) तहसील—कन्नौद
- (3) जिला—देवास
- (4) कुल प्रस्ताव—01

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	सर्वे क्रमांक	रकबा अर्जन किये जाने वाली भूमि का
1	2	3	4	5
1	कृषि भूमि	श्री जगदीश पिता घिस्या जाति भिलाला	317	0.08 हे.
2	कृषि भूमि	श्री हब्बु खां पिता इदु खॉ जाति मेवाती	321	0.198 हे.
3	कृषि भूमि	श्री हमीद खॉ पिता आसीन खॉ जातिमेवाती	322	0.02 हे.
4	कृषि भूमि	श्री शहीद खॉ पिता हबीब खॉ जातिमेवाती	323	0.02 हे.
5	कृषि भूमि	श्री गजानन्द पिता हीरालाल कुम्हार	325	0.02 हे.
6	कृषि भूमि	श्री मनोज पिता रामेश्वर गुर्जर	454/1	0.33 हे.
7	कृषि भूमि	श्री भंवरसिंह पिता मिश्रीलाल गुर्जर	454/2	0.33 हे.
8	कृषि भूमि	श्री सुरेश पिता गंगाराम जाति गुर्जर	457	0.11 हे.
9	कृषि भूमि	श्री श्रीराम पिता रंगलाल जाति गुर्जर	463	0.11 हे.
10	कृषि भूमि	श्री प्रेमनारायण पिता रामप्रसाद जाति गुर्जर	464	0.10 हे.
11	कृषि भूमि	श्री शिवराम पिता श्यामलाल जाति गवली	465/2	0.0748 हे.
12	कृषि भूमि	श्री सरवाराम पिता श्यामलाल जाति गवली	465/3	0.11 हे.
13	कृषि भूमि	श्री गंगाबिशन पिता रामबक्स जाति गुर्जर	466	0.11 हे.
14	कृषि भूमि	श्री तुलसीबाई पति रामबक्स जाति गुर्जर	467	0.13 हे.
15	कृषि भूमि	श्री ओमप्रकाश पिता रामबक्स जाति गुर्जर	468	0.15 हे.

कुल सर्वे नंबर—15 कुल प्रस्ताव—01.

उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस-2 के अंतर्गत ग्राम बामनी खुर्द की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मण्डी, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 19 अक्टूबर 2015

क्र. क्यू.-ए.पी.डी.-2015-11695.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मै, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला विदिशा, कृषि उपज मण्डी समिति, लटेरी में निम्नानुसार प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूँ:—

क्र.	निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता	संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किया गया है	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती सांधना जैन पत्नि श्री सुरेश कुमार जैन, निवासी ग्राम मुरवास, तह. लटेरी (संस्था के संचालक मंडल की सदस्य).	विपणन सहकारी संस्था मर्यादित लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.).	1972 की धारा 11(5)

विदिशा, दिनांक 6 जनवरी 2016

क्र. क्यू.-ए.पी.डी.-2016-180.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मै, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला विदिशा, कृषि उपज मण्डी समितियों हेतु निम्नानुसार प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूँ:—

क्र.	निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता	नाम जिस मंडी हेतु नियुक्त किया जा रहा है.	संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किया गया है	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री श्याम सुन्दर शर्मा, विदिशा संस्था के संचालक मंडल के सदस्य	कृषि उपज मंडी, विदिशा	श्री श्याम सुन्दर शर्मा, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा.	1972 की धारा 11(5)
2.	श्री प्रेमनारायण विश्वकर्मा संस्था के संचालक मंडल के सदस्य.	कृषि उपज मंडी, लटेरी	श्री श्याम सुन्दर शर्मा, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा.	1972 की धारा 11(5)
3.	श्री दिनेश सोनी, प्रबंधक समिति के संचालक मंडल के सदस्य.	कृषि उपज मंडी, कुरवाई	श्री श्याम सुन्दर शर्मा, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा.	1972 की धारा 11(5)
4.	श्री भगवान सिंह धाकड़	कृषि उपज मंडी, शमशाबाद	श्री श्याम सुन्दर शर्मा, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा.	1972 की धारा 11(5)

विदिशा, दिनांक 13 जनवरी 2016

क्र. क्यू.-ए.पी.डी.-2016-583.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1)के बिन्दु क्रमांक (ज) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मै, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला विदिशा, कृषि उपज मण्डी समिति, लटेरी में निम्नानुसार प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूँ:—

क्र.	निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता	संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किया गया है	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती मिथलेश बाई पत्नि श्री हेतराज यादव, जनपद सदस्य, वार्ड क्र. 18, तह. लटेरी, जिला विदिशा.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.).	1972 की धारा 11(1)

विदिशा, दिनांक 12 मई 2016

क्र. क्यू.-ए.पी.डी.-2016-8698.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1)के बिन्दु क्रमांक (ज) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला विदिशा, कृषि उपज मण्डी समिति, सिरोंज में निम्नानुसार प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूँ:—

क्र.	निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता	संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किया गया है	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री राकेश पालीवाल पुत्र श्री नरेन्द्र प्रसाद पालीवाल, सिरोंज.	मां. श्री गोवर्धन लालजी उपाध्याय, विधायक विधान सभा क्षेत्र 147, सिरोंज	1972 की धारा 11(1)घ

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 10 मई 2016

क्र. 2817-2016-विपप्र-ओएसडी.—सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015-1-9, दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है एवं 1 जुलाई 2015 से नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2014 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 8 से 12 फरवरी 2016 तक प्रशासन अकादमी के द्वारा आयोजन किया गया. इस आयोजित परीक्षा में विषय राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (आदेश लेखन) में निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री रिशव गुप्ता	सहायक कलेक्टर

भोपाल, दिनांक 19 मई 2016

क्र. 3008-2016-विपप्र-ओएसडी.—सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015-1-9, दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है एवं 1 जुलाई 2015 से नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2014 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 8 से 12 फरवरी 2016 के मध्य प्रशासन अकादमी के द्वारा आयोजन किया गया. इस आयोजित परीक्षा में विषय राजस्व प्रशासनिक विधि तथा प्रक्रिया द्वितीय में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री आदित्य सिंह	सहायक कलेक्टर
2	श्री अंकित अस्थाना	सहायक कलेक्टर
3	श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा	सहायक कलेक्टर
4	श्री आशीष वशिष्ठ	सहायक कलेक्टर
5	श्री अवि प्रसाद	सहायक कलेक्टर

(1)	(2)	(3)
6	श्री जांगिड लोकेश कुमार रामचंद्रा	सहायक कलेक्टर
7	श्री रिशव गुप्ता	सहायक कलेक्टर
8	श्री साकेत मालवीय	सहायक कलेक्टर
9	श्री शीतला पटेल	सहायक कलेक्टर
10	श्री ऋजु बाफना	सहायक कलेक्टर
11	सुश्री भव्या मित्तल	सहायक कलेक्टर
12	सुश्री तन्वी हुड्डा	सहायक कलेक्टर
13	श्री आर. उमा महेशवरी	सहायक कलेक्टर

क्र. 3010-2016-विपप्र-ओएसडी.—सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015-1-9, दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है एवं 1 जुलाई 2015 से नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2014 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 8 से 12 फरवरी 2016 के मध्य प्रशासन अकादमी के द्वारा आयोजन किया गया. इस आयोजित परीक्षा में विषय प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया प्रथम में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री आदित्य सिंह	सहायक कलेक्टर
2	श्री अंकित अस्थाना	सहायक कलेक्टर
3	श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा	सहायक कलेक्टर
4	श्री आशीष वशिष्ठ	सहायक कलेक्टर
5	श्री अवि प्रसाद	सहायक कलेक्टर
6	श्री जांगिड लोकेश कुमार रामचंद्रा	सहायक कलेक्टर
7	श्री रिशव गुप्ता	सहायक कलेक्टर
8	श्री साकेत मालवीय	सहायक कलेक्टर
9	श्री शीतला पटेल	सहायक कलेक्टर
10	श्री ऋजु बाफना	सहायक कलेक्टर
11	सुश्री भव्या मित्तल	सहायक कलेक्टर
12	सुश्री तन्वी हुड्डा	सहायक कलेक्टर
13	श्री आर. उमा महेशवरी	सहायक कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 17 फरवरी 2016

नस्ती क्र.-एल.ए.-2015-भू-अर्जन प्र. क्र. 01-अ-82-2015-16.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर द्वारा पत्र क्र. इन्दौर-डब्ल्यू-335-4, दिनांक 31 अक्टूबर 2015 एवं दिनांक 20 जनवरी 2016 प्रस्तुत कर खण्डवा सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) के अध्याय 2(अ) धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9-2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :-

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में.	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	06	अत्तर	7.58	खण्डवा सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु

नोट :-उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

- (2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-2015-भू-अर्जन प्र. क्र. 02-अ-82-2015-16.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर द्वारा पत्र क्र. इन्दौर-डब्ल्यू-335-4, दिनांक 31 अक्टूबर 2015 एवं दिनांक 20 जनवरी 2016 प्रस्तुत कर खण्डवा सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) के अध्याय 2(अ) धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9-2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :-

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में.	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	20	अंजटी	1.84	खण्डवा सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु

नोट :-उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

- (2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-2015-भू-अर्जन प्र. क्र. 03-अ-82-2015-16.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर द्वारा पत्र क्र. इन्दौर-डब्ल्यू-335-4, दिनांक 31 अक्टूबर 2015 एवं दिनांक 20 जनवरी 2016 प्रस्तुत कर खण्डवा सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) के अध्याय 2(अ) धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9-2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :—

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में.	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	13	चिचगोहन	0.78	खण्डवा सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु.

नोट :—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

- (2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-2015-भू-अर्जन प्र. क्र. 04-अ-82-2015-16.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर द्वारा पत्र क्र. इन्दौर-डब्ल्यू-335-4, दिनांक 31 अक्टूबर 2015 एवं दिनांक 20 जनवरी 2016 प्रस्तुत कर खण्डवा सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) के अध्याय 2(अ) धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9-2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :—

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में.	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	17	सिरा	1.69	खण्डवा सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु.

नोट :—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

- (2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-2015-भू-अर्जन प्र. क्र. 05-अ-82-2015-16.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर द्वारा पत्र क्र. इन्दौर-डब्ल्यू-335-4, दिनांक 31 अक्टूबर 2015 एवं दिनांक 20 जनवरी 2016 प्रस्तुत कर खण्डवा सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) के अध्याय 2(अ) धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मै, डॉ. एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9-2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :—

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में.	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	31	अहमदपुर खै.	0.25 हे.	खण्डवा सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु.

नोट :—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

- (2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-2015-भू-अर्जन प्र. क्र. 06-अ-82-2015-16.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर द्वारा पत्र क्र. इन्दौर-डब्ल्यू-335-4, दिनांक 31 अक्टूबर 2015 एवं दिनांक 20 जनवरी 2016 प्रस्तुत कर खण्डवा सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) के अध्याय 2(अ) धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मै, डॉ. एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9-2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :—

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में.	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	13	रोहनाई	0.08 हे.	खण्डवा सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु.

नोट :—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

- (2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-2015-भू-अर्जन प्र. क्र. 07-अ-82-2015-16.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर द्वारा पत्र क्र. इन्दौर-डब्ल्यू-335-4, दिनांक 31 अक्टूबर 2015 एवं दिनांक 20 जनवरी 2016 प्रस्तुत कर खण्डवा सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) के अध्याय 2(अ) धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9-2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :-

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में.	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	4	तलवडिया	1.99 हे.	खण्डवा सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु.

नोट :-उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

- (2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-2015-भू-अर्जन प्र. क्र. 08-अ-82-2015-16.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर द्वारा पत्र क्र. इन्दौर-डब्ल्यू-335-4, दिनांक 31 अक्टूबर 2015 एवं दिनांक 20 जनवरी 2016 प्रस्तुत कर खण्डवा सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) के अध्याय 2(अ) धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9-2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :-

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में.	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	80	खण्डवा तरफ कुनबी	0.28 हे.	खण्डवा सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु.

नोट :-उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

- (2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 18 मई 2016

प्रकरण क्रमांक 3/32/2015-16 /भू-अर्जन/बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम – सिहोरा डुंगरिया

तहसील- उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा न.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिहोरा डुंगरिया	कवेन्द्र सिंह आ. कोमल सिंह जाति रघु. नि. ग्राम	84 85 86/2	2.322 0.555 1.324	0.389 0.104 0.146	कार्यपालन यंत्री बारना बायी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छतौर उप नहर हेतु
2		संदीप, कुलदीप आ. गोविंद सिंह जाति रघु. नि. ग्राम	86/1 87	0.729 6.467	0.089 0.626		
3		हरीश कुमार आ. नारायण सिंह जाति रघु. नि. ग्राम	156 158	1.761 1.757	0.188 0.160		
4		शुभम कुमार आ. राजकुमार जाति रघु. नि. ग्राम	157	1.761	0.148		
5		राजीव सिंह आ. कोमलसिंह जाति रघु. नि. ग्राम	159/1	2.835	0.141		
6		अरविंद आ. कोमल सिंह रघु. नि. ग्राम	159/2	4.493	0.486		
7		भवानी सिंह आ. मानसिंह रघु. नि. ग्राम	160/1/1	3.371	0.151		
8		कमलेश सिंह आ. साहब सिंह रघु. नि. ग्राम	178	4.777	0.389		
9		हरीसिंह आ. जसरतप्रसाद किरार नि. ग्राम	176/1/1	0.768	0.170		

10	हिमाचल आ. रामस्वरूप जाति रघु. नि. निवाड़ी	176/1/2 176/2	0.425 1.193	0.047 0.010		
11	गंगाराम आ. काशीराम जाति किरार नि. ग्राम	177/1/1 177/1/2/2	0.768 0.425	0.263 0.093		
12	ब्रजेश आ. काशीराम किरार नि. ग्राम	177/1/2/1 177/2	0.384 0.809	0.174 0.182		
13	श्रीमति रचना पत्नि विनीत मनोहर जाति रघु. नि. निवाड़ी	175/1/2	0.809	0.081		

प्रकरण क्रमांक 2/912/2015-16 / भू-अर्जन / बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम – निवाड़ी

तहसील – उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निवाड़ी	शिवदयाल आ. जुगराज जाति ब्रा. नि. ग्राम सिहोरा डुंगरिया	1/1/1/1	0.833	0.032	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छातैर उप नहर हेतु
2		प्रेमनारायण आ. तुलसीराम जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	1/1/1/2	0.809	0.040		
3		तुलसीराम आ हल्केवीर जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	1/1/2	0.809	0.016		

ओ. पी. सोनी, सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्
तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मंदिर रोड, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2016

क्र. पंजीयन-निर्वाचन-1589-2016.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) की धारा 34 तथा 39 के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (1) द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम की धारा 3 के अन्तर्गत निर्मित सह-चिकित्सीय व्यवसायियों का राज्य रजिस्ट्रार.

प्रमाणित किया जाता है कि परिषद् में नामांकित सह-चिकित्सीय व्यवसायियों की सूची का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 जून 2015, 26 जून 2015, 3 जुलाई 2015, 10 जुलाई 2015 तथा 17 जुलाई 2015 में करवाया गया है. प्रकाशन के समय कुछ डाटा प्रकाशित नहीं हो पाया है. जिसे अब राजपत्र में प्रकाशित करवाया जा रहा है.

पूजा शुक्ला, प्रभारी रजिस्ट्रार.

एसे पंजीयन क्रमांकों की सूची जिनका प्रकाशन पूर्व में राजपत्र में नहीं हो पाया था :-

क्र.	एससीएच-04ए/सॉर्ट/20977/13	मुकेश कुमार पाटीदार/भवराज पाटीदार	ग्राम निम्बोद तहसील खुशी जिला धार	देवी अहिल्या विठ्ठि इंदौर। आदर्श इंस्टी. ऑफ मैनेज. साइंस। सीएमएलटी 22.9.2000	1200/-	20.7.1976 38वर्ष	निरक	8 जुलाई 2013
2	एससीएच-23/सॉर्ट/20978/13	मनोज कुमार टाकले/स्व. श्री संतोष टाकले	12/6 गौसा दरवाजा वीर दुर्गावास मार्ग, उज्जैन	जिला चिकित्सालय उज्जैन। सॉर्ट. इन एलो. कम्पा.	1700/-	13.01.83	उज्जैन	8 जुलाई 2013
3	एससीएच-27/डिप्लो/20979/13	श्रीमती सीमा चौधरी/ नंदकिशोर चौधरी	463, करवना नगर, रायसेन रोड, पिपवाडी भोपाल	मध्य विदेशी शिक्षा मण्डल भोपाल। शासकीय महिला पॉलीटेक्निक भोपाल। डीएमएलटी 1993	2200/-	10.08.75	भोपाल	8 जुलाई 2013
4	एससीएच-04/सॉर्ट/20980/13	प्रमोद पाण्डेय/रामानंद पाण्डेय	ग्राम पो. पगार खुई जिला सतना	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना। सीएमएलटी 4.2.1986	1700/-	25.07.82	शहडोल	8 जुलाई 2013
5	एससीएच-04/सॉर्ट/20981/13	विमल साहू/केशव प्रसाद साहू	ग्राम बिहारी पोस्ट अमरावां तहसील निवास जिला मण्डला	मध्य सह-चिकित्सीय परिषद्। एएम कालेज ऑफ फिजियोथेरेपी एण्ड थेरापी, जबलपुर। सीएमएलटी 29.2.2012	1700/-	27.09.89	मण्डला	8 जुलाई 2013
6	एससीएच-23/सॉर्ट/20982/13	मुकेश बघेल/रामलतार बघेल	काली माता मंदिर के पास सख्यो नगर, लक्ष्मीगंज लखर ग्वालियर	मध्य सह-चिकित्सीय परिषद्। ग्वालियर कालेज ऑफ फिजियो. एण्ड थेरापी, साइंस। सॉर्ट. इन होम्यो. कम्पा. 22.10.2011	1700/-	06.08.90	ग्वालियर	8 जुलाई 2013
7	एससीएच-25/डिप्लो/20983/13	परशुराम मोंगरे/शिव कुमार मोंगरे	ग्राम व पोस्ट हियापीपर तहसील गोरगारु जिला शहडोल	बकतचल्ला विठ्ठि भोपाल। जीएससी मेडिकल कालेज भोपाल। डिप्लो. इन न्यूरोलिकल बायोकेमिस्ट्री 10.5.2012	2200/-	18.09.70	शहडोल	8 जुलाई 2013
8	एससीएच-34/सॉर्ट/20984/13	श्रीमती चंद्रा राठौर/रामशेर राठौर	शिव नगर, हरियाज टाकीज के पीछे, हंसकुटी आश्रम वाली गली, मुने	मध्य सह-चिकित्सीय परिषद्। शास. आयु. कालेज ग्वालियर। सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 29.2.2012	1200/-	28.02.12	मुने	8 जुलाई 2013
9	एससीएच-29/डिप्लो/20985/13	गिराज कुमार वैश्य/स्व. श्री सुंदाराम वैश्य	गंगोला मोहला धामनील के पास भागव की चककी के पास, दरगाह के सामने, लखर, ग्वालियर	गजरा राज मेडिकल कालेज ग्वालियर। डिप्लोमा इन आस्थात्मक अग्नि. 23.7.1990	1200/-	07.05.83	ग्वालियर	8 जुलाई 2013
10	एससीएच-34/सॉर्ट/20986/13	श्रीमती इमरती टैगोर/ जुवान सिंह	फोडक स्टूडियो के सामने, तलाई के पास, अर्जुन कालोनी, धार	संवातनालाय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्यो. भोपाल। त्रिभूति महिला आयु. स्वा. कार्य. प्रशि. के. ग्वालियर। सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वाकार्यकर्ता 24.1.2000	1700/-	12.10.80	धार	8 जुलाई 2013
11	एससीएच-23/डिप्लो/20987/13	कुं अजरा कुंरेशी/मो. सलाम कुंरेशी	बाजार चौक खैरा पलारी जिला सिवनी	राजी दुर्गावती विठ्ठि जबलपुर। मीनाडी एकेडमी ऑफ थेरापी, साइंस जबलपुर। डिप्लो. इन एलो. कम्पा. 6.7.2010	1200/-	04.06.88	सिवनी	8 जुलाई 2013
12	एससीएच-23/सॉर्ट/20988/13	कुं लक्ष्मी लालीवार/शिवकुमार लालीवार	ग्राम पीपरानी पोस्ट पदसी तहसील व जिला मण्डला	मध्य सह-चिकित्सीय परिषद्। महाकाशल इंस्टी. ऑफ पैरामेडिकल टेक्नालाजी, जबलपुर। सॉर्ट. इन आयुर्वेद कम्पाउण्डर। 29.02.2012	1700/-	29.02.12	मण्डला	8 जुलाई 2013
13	एससीएच-21/सॉर्ट/20989/13	वन्दना सिंह पटेल/मोती सिंह पटेल	एफ 15, पी.डब्ल्यू.डी. कालोनी, माधव नगर, जिला कटनी म.प्र.	मध्य सह-चिकित्सीय परिषद्। पायोनियर इंस्टी. ऑफ पैरामेडिकल एण्ड एडवांस टेक्नालाजी, इंदौर। सॉर्ट. इन हेल्थ इंस्पेक्टर 25.3.2010	700/-	13.3.1985 28वर्ष	सतना	8 जुलाई 2013

14	एससीएच-23 / डिल्को / 20990 / 13	पन्नालाल / कन्हैयालाल जी	गांव अर्पनिया मामादेव तहसील जाबद, पोस्ट लासूर, जिला नीमच म.प्र.	देवी अहिल्या विठोबि इंदौर। देवी अहिल्या कालेज आफ पैरामे. साइंस इंदौर। डिल्को. इन एनो. कम्पा. 13.5.2010	1200/-	26.9.1989 24वर्ष	नीमच	8 जुलाई 2013	
15	एससीएच-27 / डिल्को / 20991 / 13	सतोष कुमार रजक / जोगेन्द्र प्रसाद रजक	ग्राम बाढा पोस्ट मानिकपुर, तहसील शहपुरा, जिला डिण्डोरी म.प्र.	रानी दुर्गावती विठोबि जबलपुर। सीनाक्षी एकेडमी आफ पैरामे. साइंस जबलपुर। डीएमएलटी 30.1.2011	700/-	10.2.1984 29वर्ष	डिण्डोरी	8 जुलाई 2013	
16	एससीएच-27 / डिल्को / 20992 / 13	सुशु कुंती नागवंशी / रमेश कुमार नागवंशी	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के पीछे ककरैया तलैया गोरखपुर जिला जबलपुर म.प्र.	रानी दुर्गावती विठोबि जबलपुर। ए पी एन कालेज जबलपुर। डीएमएलटी 22.7.2010	700/-	12.4.1989 24वर्ष	जबलपुर	8 जुलाई 2013	
17	एससीएच-04 / सर्टि / 20993 / 13	अशिका प्रसाद पाण्डेय / केशव प्रसाद पाण्डेय	दाया कामता प्रसाद तिवारी, मिश्रा नर्सिंग होम, जिला अस्पताल के सामने, सीधी	गांधी मेडिकल कालेज एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल भोपाल। सीएमएलटी 20.1.1986	1200/-	3.1.1951 62वर्ष	सीधी	8 जुलाई 2013	
18	एससीएच-27 / डिल्को / 20994 / 13	अब्दुल वसीम खान / अब्दुल रहीम खान	528 / 25 डेडो जफर गली नं. 3, तुलसी कालोनी जिला मुरैना म.प्र.	जीवाणी विठोबि खालियर। माधवी राजे पैरा मेडिकल कालेज, मुरैना। डीएमएलटी 30.7.2012	2200/-	9.12.1984 29वर्ष	मुरैना	8 जुलाई 2013	
19	एससीएच-23 / सर्टि / 20995 / 13	माधव सिंह बघेल / भूवान सिंह बघेल	ग्राम उमरेदपुरा पटलपुरा, तहसील डही, जिला धार म.प्र.	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। संस्कार विद्यापीठ पैरामे. इस्टी. इंदौर। आयु. कम्पा. 25.3.2010	700/-	01.07.1983 32वर्ष	धार	8 जुलाई 2013	
20	एससीएच-34 / सर्टि / 20996 / 13	श्रीमती चंचल दिंडोरकर / गिरिजा दिंडोरकर	खाचरोद बडनगर रोड, जिला उज्जैन म.प्र.	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। शास. आयु. महिला प्रांशि. के. राउ इंदौर। सर्टि. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 29.2.2012	1200/-	23.9.1992 21वर्ष	उज्जैन	8 जुलाई 2013	
21	एससीएच-34 / सर्टि / 20997 / 13	रानी मोदी / किशोरी लाल	मगरानी निगमापुर पोस्ट मगरानी जिला शिवपुरी म.प्र.	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। शास. आयु. कालेज खालियर। सर्टि. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 29.8.2012	1200/-	3.8.1989 25वर्ष	शिवपुरी	8 जुलाई 2013	
पंजीयन क्रमांक 20998 से 21235 तक नंबर आन लाइन पंजीयन प्रारम्भ होने के पूर्व आफ लाइन पंजीयन के विचाराधीन प्रकरणों के लिए छोड़े गए हैं।									
22	SCH-34/CERT/ 22975/2013	जयश्री डोंगरे / साहेबराव डोंगरे	सुरंगी बिडुआ तहसील छिन्दवाडा	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। नाजरा इस्टी. ऑफ पैरामे. कालेज। सर्टि. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 12.4.2013	1200/-	10-7-1990 23y	छिन्दवाडा	23 अगस्त 2013	
23	एससीएच-23 / सर्टि / 22979 / 13	शिव कुमार जोगी / हीरालाल जोगी	गांव सेंदुरा पोस्ट कोचिला तहसील गोपद बनास जिला सीधी	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। मानसरोवर पैरामे. कालेज सीधी। सर्टि इन आयु. कम्पा. 12.4.2013	1200/-	1-5-1986	सीधी	23 अगस्त 2013	
24	एससीएच-23 / सर्टि / 22981 / 13	कैलाश कुमार वर्मा / किशोर चंद वर्मा	एट लोहरा पोस्ट बहन्नुवावा तहसील बौरख जिला छिन्दवाडा	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। आर.ए.बी.एल. कालेज छिन्दवाडा। सर्टि. इन होमो. कम्पा. 12.4.2013	1200/-	12.04.13	निरंक	23 अगस्त 2013	
25	एससीएच-23 / सर्टि / 23006 / 13	विनोद कुमार सिंगरौल / बृपत प्रसाद सिंगरौल	223 बिरसिंहपुर ग्राम बिरसिंहपुर तहसील पवई जिला पन्ना	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। साइ पैरामे. इस्टी. आयु. कम्पा. 12.4.2013	1200/-	04.04.90	निरंक	23 अगस्त 2013	

26	एससीएच-23/सॉर्ट/ 23015/13	अतुल कुमार जाट/ सुप्रेम सिंह जाट	गणेश वाई तहसील करेली जिला नरसिंहपुर	गणेश वाई तहसील करेली जिला नरसिंहपुर	म090 सह-विकिस्तीय परिषद। स्वामी विवेकानंद आइडियल इंस्टी. ऑफ पैरामे. साइंस जबलपुर। आयु. कम्पा. 12.4.2013	1200/-	10.9.1979	निरंक	23 अगस्त 2013
27	एससीएच-34/सॉर्ट/ 23024/13	दीपती सल्लाम/ रविशम	गाव जामोडडीकला पोस्ट बरेला तहसील धनसौर सिवनी	गाव जामोडडीकला पोस्ट बरेला तहसील धनसौर सिवनी	म090 सह-विकिस्तीय परिषद। स्वामितक पैरामोडि एकेडमी जबलपुर। सॉर्ट इन महिला आयु स्वा कार्यकर्ता। 12.4.2013	1200/-	15.06.90	निरंक	23 अगस्त 2013
28	एससीएच-23/सॉर्ट/ 23033/13	रामकिशोर नागेश्वर/ रामफल नागेश्वर	एसबीआई कालोनी जयरात नाका सिवनी	एसबीआई कालोनी जयरात नाका सिवनी	म090 सह-विकिस्तीय परिषद। स्वयं प्रभा इंस्टी. आफ पैरामे. टेक्ना. जबलपुर। सॉर्ट. इन आयु. कम्पा. 29.8.2012	1200/-	24.09.79	निरंक	23 अगस्त 2013
29	एससीएच-23/सॉर्ट/ 23039/13	पूजा परमार/ भागीरथ परमार	253 एबी रोड सिया देवास	253 एबी रोड सिया देवास	म090 सह-विकिस्तीय परिषद। शास. अष्टांग आयु महावि. इंदौर। सॉर्ट. इन महिला आयु स्वा. कार्य. 29.2.2012	2100/-	5.4.1992	देवास	23 अगस्त 2013
30	एससीएच-34/सॉर्ट/ 23041/13	दुर्गा परमार/ भागीरथ परमार	253 एबी रोड सिया देवास	253 एबी रोड सिया देवास	म090 सह-विकिस्तीय परिषद। शास. अष्टांग आयु महावि. इंदौर। सॉर्ट. इन महिला आयु स्वा. कार्य. 29.2.2012	2100/-	12.4.1986	देवास	23 अगस्त 2013
31	एससीएच-34/सॉर्ट/ 22008/13	संध्या कुमरे/ सुंदर लाल कुमरे	साउथ सिविल लाइन छिन्दवाडा	साउथ सिविल लाइन छिन्दवाडा	शास. महिला आयु स्वा. कार्य. प्र.कं. राउ. इंदौर। सॉर्ट. इन महिला आयु स्वा. कार्य. 23.6.2006	2700/-	24.10.1984	छिन्दवाडा	8 अगस्त 2013
32	एससीएच-23/सॉर्ट/ 22015/13	रामकृष्ण कुशवाहा/ उषम सिंह	50, गांव आमखेडा तहसील सिरोंजा विदिशा	50, गांव आमखेडा तहसील सिरोंजा विदिशा	म090 सह-विकिस्तीय परिषद। सांची आयु. चिकि. महावि. अनु. रायसेन। आयु. कम्पा. 1.2.1991	2700/-	02.01.91	विदिशा	8 अगस्त 2013
33	एससीएच-23/सॉर्ट/ 22018/13	विकास कसन धुर्वे/ मंगल प्रसाद	ग्राम क्षिपानी पोस्ट बगसापुर तहसील गौहरगंज रायसेन	ग्राम क्षिपानी पोस्ट बगसापुर तहसील गौहरगंज रायसेन	म090 सह-विकिस्तीय परिषद। सांची आयु. चिकि. महावि. एवं अनुसंधान कें. रायसेन आयु. कम्पा. 3.5.2012	2700/-	01.02.91	रायसेन	8 अगस्त 2013
34	एससीएच-23/सॉर्ट/ 22019/13	सुमित राय/ सुंदर लाल राय	बाजार रोड गैरगाज पुलिस चौकी 464884	बाजार रोड गैरगाज पुलिस चौकी 464884	म090 सह-विकिस्तीय परिषद। सांची आयु. चिकि. महावि. अनु. रायसेन। आयु. कम्पा. 29.8.2012	2200/-	29.1.1992	गैरगाज रायसेन	8 अगस्त 2013
35	एससीएच-23/सॉर्ट/ 22020/13	चंद्रश ठाकुर/ मोहर सिंह ठाकुर	एच सं. 60 मउपथरई तहसील रायसेन जिला रायसेन	एच सं. 60 मउपथरई तहसील रायसेन जिला रायसेन	म090 सह-विकिस्तीय परिषद। सांची आयु. चिकि. महावि. एवं अनुसंधान कें. रायसेन आयु. कम्पा. 3.5.2012	2700/-	12.8.1984	रायसेन	8 अगस्त 2013
36	एससीएच-23/सॉर्ट/ 22021/13	विजय आनंद आर्य/ प्रमोद कुमार आर्य	गांव पोस्ट टावर के पास शिवपुरी कुडेश्वर जिला टीकमगढ	गांव पोस्ट टावर के पास शिवपुरी कुडेश्वर जिला टीकमगढ	म090 सह-विकिस्तीय परिषद। सांची आयु. चिकि. महावि. एवं अनुसंधान कें. रायसेन। आयु. कम्पा. 12.4.2013	1200/-	13.7.1983	टीकमगढ	8 अगस्त 2013
37	एससीएच-23/सॉर्ट/ 22022/13	केलाश नारयण शुक्ला/ भगवान दास शुक्ला	गांव पोस्ट पहाली तिलवारा जिला टीकमगढ	गांव पोस्ट पहाली तिलवारा जिला टीकमगढ	म090 सह-विकिस्तीय परिषद। सांची आयु. चिकि. महावि. एवं अनुसंधान कें. रायसेन। आयु. कम्पा. 12.4.2013	1200/-	4.11.1974	टीकमगढ	8 अगस्त 2013
38	SCH-27/DIP/ 22054/2013	रवि कुमार नेमा/ के एल नेमा	गुलाब भवन नियर भारत माता स्कूल पाण्डव नगर शहडोल	गुलाब भवन नियर भारत माता स्कूल पाण्डव नगर शहडोल	बरकरउल्ला विठिको मोपाल मीनानी एकेडमी आफ पैरामे. साइंससेस। डीएएलटी 06/06/2013	1700/-	30/07/1968	SHAHDOL	8 अगस्त 2013
39	SCH-27/DIP/ 22055/2013	ममता नेमा/ रवि कुमार नेमा	गुलाब भवन नियर भारत माता स्कूल पाण्डव नगर शहडोल	गुलाब भवन नियर भारत माता स्कूल पाण्डव नगर शहडोल	बरकरउल्ला विठिको मोपाल मीनानी एकेडमी आफ पैरामे. साइंससेस। डीएएलटी 06/06/2013	1700/-	29-07-1972	SHAHDOL	8 अगस्त 2013

40	एससीएच-23 / सॉर्ट / 22077 / 13	कु0 सरिता मरावी / देवला	ग्राम पोस्ट रामपुरी कचरीटोला तहसील नैनपुर मण्डला		म090 सह-विकिस्तीय परिसर। मण्डला इस्टी. आफ पैरामे. टेक्ना. मण्डला। आयु. कम्पा. 29.8.2012	2200/-	04.10.89	मण्डला	8 अगस्त 2013
41	एससीएच-23 / सॉर्ट / 22078 / 13	फूलकाली कुलस्ते / सुकल सिंह कुलस्ते	ग्राम अंबली पोस्ट सेमराखापा जिला मण्डला		म090 सह-विकिस्तीय परिसर। मण्डला इस्टी. आफ पैरामे. टेक्ना. मण्डला। आयु. कम्पा. 29.8.2012	2200/-	7.6.1976	मण्डला	8 अगस्त 2013
42	एससीएच-23 / सॉर्ट / 22079 / 13	अमिता कुशराम / हमीनाल कुशराम	बहसुंडा पाण्डी बिछिया मण्डला	st	म090 सह-विकिस्तीय परिसर। मण्डला इस्टी. आफ पैरामे. टेक्ना. मण्डला। आयु. कम्पा. 18.3.2011	2700/-	08.08.88	मण्डला	8 अगस्त 2013
43	एससीएच-23 / सॉर्ट / 22086 / 13	श्यामा रेतले / रमेश प्रसाद	स्वामी सीताराम वार्ड नं. 11 हरिजन कालोनी के पीछे मण्डला		म090 सह-विकिस्तीय परिसर। मण्डला इस्टी. आफ पैरामे. टेक्ना. मण्डला। आयु. कम्पा. 12.4.2013	1700/-	7.6.1985	निरंक	8 अगस्त 2013
44	एससीएच-23 / सॉर्ट / 22091 / 13	भुरे लाल किरार / धनसिंह किरार नंबर निरस्त किया गया। आवेदक फेल है।	ग्राम गो. मलवान तहसील वारला बडवानी, म.प्र.		म090 सह-विकिस्तीय परिसर। प्रेमसुख इस्टी. ऑफ पैरामेडिकल साइन्स, बडवानी। होम्योपैथिक कम्पा. 28.3.2010	2700/-	03.02.1982	बडवानी	8 अगस्त 2013
45	एससीएच-23 / सॉर्ट / 22161 / 13	कुलदीप गर्द / अर्जुन गर्द	वार्ड नं. 17 अग्रवाल केजालाजी लैब महावीर चौक सेन रोड बालाघाट, म.प्र.		म.प्र. सह-विकिस्तीय परिसर। अग्रसेन इस्टी. ऑफ पैरामे. साइंस बालाघाट। होम्यो. कम्पा. 12.4.2013	1200/-	21.4.1992	बालाघाट	12 अगस्त 2013
46	एससीएच-23 / सॉर्ट / 22165 / 13	रोहित कुमार सुतार / भावती लाल सुतार	जानकपुरम मोहल्ला सुतारो की पोल मंदसौर		म.प्र. सह-विकिस्तीय परिसर। मिरेकल पैरामेडिकल कालेज मंदसौर। आयु. कम्पा. 12.4.2013	1200/-	18.8.1991	मंदसौर	12 अगस्त 2013
47	एससीएच-34 / सॉर्ट / 22168 / 13	कविता कुमावत / पुरोवाल कुमावत	ग्राम सेजपुरिया पोस्ट अमलावाडा जिला मंदसौर		म090 सह-विकिस्तीय परिसर। मिरेकल पैरामे. कालेज मंदसौर। सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 12.4.2013	1200/-	26.10.1993	मंदसौर	12 अगस्त 2013
48	एससीएच-34 / सॉर्ट / 22172 / 13	शिल्पा श्रीवास / नरेश श्रीवास	वार्ड नं. 3 ताज नगर बैहर रोड बालाघाट		म090 सह-विकिस्तीय परिसर। अनुदेश संस्थान बालाघाट हास्पिटल CMASK 12-4-2013	1200/-			12 अगस्त 2013
49	एससीएच-34 / सॉर्ट / 22174 / 13	व्योमेश्वरी पटले / कामल बंद पटले	एट झालीवाडा पोस्ट जालीवाडा तहसील वाराणिकनी जिला बालाघाट		म090 सह-विकिस्तीय परिसर। अनुदेश संस्थान बालाघाट हास्पिटल CMASK 12-4-2013	1200/-	1.5.1977	निरंक	12 अगस्त 2013
50	एससीएच-34 / सॉर्ट / 22216 / 13	गीता महार / देवी सिंह महार	हाउस नं. 29 वार्ड नं. 9 शांति नगर		म090 सह-विकिस्तीय परिसर। जे. के. पाठक पैरामे. इस्टी. सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 29.8.2012	1700/-	05.08.81	निरंक	16 अगस्त 2013
51	एससीएच-23 / सॉर्ट / 22218 / 13	प्रमोद सिंह यादव / जगदीश सिंह यादव	यादव किराना स्टोर न्यू कोट तिराहा एम एस रोड मुना		जे.के.पाठक पैरामेडिकल इस्टीट्यूट।म.प्र. सह-विकिस्तीय परिसर। सॉर्ट. आयु. कम्पाउण्डर।। 29 / 8 / 2012	1700/-	12.11.1985	मुना	16 अगस्त 2013
52	SCH-23/CERT/22220/2013	सुषमा अय्यकर / दत्तात्रय	द्वारा चंद्रकांत डोंगरे विटनीश की गीठ लश्कर वलियार		जे.के.पाठक पैरामेडिकल इस्टीट्यूट।म.प्र. सह-विकिस्तीय परिसर। सॉर्ट. आयु. कम्पाउण्डर।। 29 / 8 / 2012	1700/-	20.8.1971	वालियार	16 अगस्त 2013
53	एससीएच-23 / सॉर्ट / 22227 / 13	पुंजेश कुमार / राज सिंह	न्यू कालोनी नं. 2 / 140 बिरला नगर वलियार		म090 सह-विकिस्तीय परिसर। आक्टोपस इस्टी. ऑफ पैरामे. टेक्ना. आयु. कम्पा. 12.4.2013	1200/-	24.1.1985	वालियार	16 अगस्त 2013

54	एससीएच-34 / सॉर्ट / 22230 / 13	उषा शाक्य / ओम प्रकाश	सुभाष नगर बुरेना									1200/-	07.10.83	वालियर	16 अगस्त 2013
55	एससीएच-34 / सॉर्ट / 22270 / 13	रश्मि सिलावट / भरो प्रसाद सिलावट	निरंजन वाई मूल के पास गाढखाबा नरसिंहपुर, म.प्र.									1200/-	14.4.1988	निरंक	16 अगस्त 2013
56	एससीएच-23 / सॉर्ट / 22284 / 13	पुरुषोत्तम सिंह लोधी / ओमकार सिंह लोधी	एट पोस्ट उमरिया बिनकी तहसील करेवी जिला नरसिंहपुर									1200/-	16.9.1985	नरसिंहपुर	16 अगस्त 2013
57	एससीएच-34 / सॉर्ट / 22288 / 13	शमा परवीन / शंख रियाज	जनता साइकिल स्टोर बस स्टेज केवडी नरसिंहपुर									1200/-	29.9.1985	नरसिंहपुर	16 अगस्त 2013
58	एससीएच-23 / सॉर्ट / 22290 / 13	रामकेश प्रजापति / गोपाल प्रसाद	बिछुआ कला पोस्ट कोसामखेडा नरसिंहपुर									1200/-	1.7.1987	नरसिंहपुर	16 अगस्त 2013
59	एससीएच-23 / सॉर्ट / 22291 / 13	वन्दना पटेल / माखन लाल पटेल	पाठक वाई रिहायार पाली - मोहल्ला केवडी नरसिंहपुर									1200/-	31.1.1983	नरसिंहपुर	16 अगस्त 2013
60	एससीएच-34 / सॉर्ट / 22298 / 13	किरण सोनी / श्री लोचन प्रसाद	शिवाजी पटेल सिधपुर चौराहा शिवाजी वाई केवडी नरसिंहपुर									1200/-	13.10.1973	नरसिंहपुर	16 अगस्त 2013
61	SCH-34/CERT/ 22975/2013	जयश्री डोंगर / साहेबराव डोंगर	सुरंगी बिछुआ तहसील छिन्दवाडा									1200/-	10-7-1990	छिन्दवाडा	23 अगस्त 2013
62	एससीएच-23 / सॉर्ट / 22979 / 13	शिव कुमार जोनी / हीरालाल जोनी	गांव सेंदुरा पोस्ट कोथिला तहसील गोपद बनास जिला सीधी									1200/-	1.5.1986	सीधी	23 अगस्त 2013
63	एससीएच-23 / सॉर्ट / 22981 / 13	कैलाश कुमार वर्मा / किशोर चंद वर्मा	एट लोहार पोस्ट बहुनवारा तहसील चौरई जिला छिन्दवाडा									1200/-	12.04.13	निरंक	23 अगस्त 2013
64	एससीएच-23 / सॉर्ट / 23006 / 13	विनोद कुमार सिंगारौल / भूपत प्रसाद सिंगारौल	223 बिरसिंहपुर ग्राम बिरसिंहपुर तहसील पवई जिला पन्ना									1200/-	04.04.90	निरंक	23 अगस्त 2013
65	एससीएच-23 / सॉर्ट / 23015 / 13	अजुल कुमार जाट / सुरेंद्र सिंह जाट	गणेश वाई तहसील करेली जिला नरसिंहपुर									1200/-	10.3.1979	निरंक	23 अगस्त 2013
66	एससीएच-34 / सॉर्ट / 23024 / 13	दौपती सल्लाम / रतिराम	गांव जानोहडीकला पोस्ट बरेला तहसील धनसौर सिवनी									1200/-	15.06.90	निरंक	23 अगस्त 2013
67	एससीएच-23 / सॉर्ट / 23033 / 13	रामकिशोर नागेश्वर / रामफल नागेश्वर	एससीआई कालोनी जयारत नाका सिवनी									1200/-	24.09.79	निरंक	23 अगस्त 2013

68	एससीएच-23/सॉर्ट/23039/13	पूजा परमार/भागीरथ परमार	253 एबी रोड सिया देवास	म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिषद। शास. अट्यांग आयु. महावि. इंदौर। सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 29. 2.2012	2100/-	5.4.1992	देवास	23 अगस्त 2013
69	एससीएच-34/सॉर्ट/23041/13	दुर्गा परमार/भागीरथ परमार	253 एबी रोड सिया देवास	म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिषद। शास. अट्यांग आयु. महावि. इंदौर। सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 29. 2.2012	2100/-	12.4.1986	देवास	23 अगस्त 2013
70	एससीएच-34/सॉर्ट/23049/13	प्रमलता मकवाना/फ्रांसिस गोवारिया	एलआईसी कालोनी झाबुआ तहसील व जिला झाबुआ	डीआईएसएम। शास. अट्यांग आयु. महावि. इंदौर। सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 15.12.2004	2700/-	20.7.1974	झाबुआ	23 अगस्त 2013
71	एससीएच-34/सॉर्ट/23053/13	मनीषा मकवाना/सुनील मकवाना	ग्राम मिर्जापुर पोस्ट मगमुर महेश्वर खरणोन म.प्र.	म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिषद। शास. अट्यांग आयु. महावि. इंदौर। सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 3.5.2012	2700/-	04.01.90	खरणोन	23 अगस्त 2013
72	एससीएच-34/सॉर्ट/23054/13	ललिता बामनिया/रुनलाल बामनिया	गोलाबाडी रोडला झाबुआ म.प्र.	म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिषद। शास. अट्यांग आयु. महावि. इंदौर। सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 18. 3.2011	2700/-	10.10.72	इंदौर	23 अगस्त 2013
73	एससीएच-23/सॉर्ट/23057/13	महेन्द्र जाधव/अनिल जाधव	22 ब्रज विहार कालोनी निबर रांगवासा रेलवे क्रासिंग राउ इंदौर	म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिषद। शासकीय स्थायी अट्यांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय, इंदौर। सॉर्ट. इन. आयु. कम्पा. 23. 11.2009	2700/-	11.07.85	इंदौर	23 अगस्त 2013
74	एससीएच-23/सॉर्ट/23062/13	शीला मास्कोले/गबरू मास्कोले	दोलतपुर तहसील पुनासा जिला खण्डवा	म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिषद। शासकीय स्थायी अट्यांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय, इंदौर। सॉर्ट. इन. आयु. कम्पा. 12. 04.2013	1200/-	14.5.1988	इंदौर	23 अगस्त 2013
75	एससीएच-34/सॉर्ट/23075/13	बेला अहिरवार/खेतलाल अहिरवार	एम आई जी 164 हालसिंग बोर्ड कालोनी विवेकानंद नगर दमोह	भारतीय चिकि. पद्धति एवं होम्यो. भोपाल। शास. महिला आयु. स्वा. कार्य. प्रशि. के. राउ इंदौर। सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 31.12.2007	2700/-	20.7.1986	निरक	23 अगस्त 2013
76	एससीएच-34/सॉर्ट/23079/13	आशा सेंगर/राकेश सिंह सेंगर	झार-देवेन्द्र सिंह राठौर रस्तापुरा नं. 2 लोहा मण्डी खालियर	भारतीय चिकि. पद्धति एवं होम्यो. भोपाल। शास. महिला आयु. स्वा. कार्य. प्रशि. के. राउ इंदौर। सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 4.12.1996	2700/-	13.9.1971	खालियर	23 अगस्त 2013
77	एससीएच-23/सॉर्ट/23084/13	कुंजबिहारी सक्सेना/भाटेश्वरी देवाल	131 ग्राम प्रेमसर तहसील रघोपुर जिला रघोपुर	आईडियल कम्पाउंडर प्रशिक्षण केंद्र इंदौर। आयु. कम्पा. 10. 11.2004	2700/-	01.05.80	इंदौर	23 अगस्त 2013
78	एससीएच-34/सॉर्ट/23086/13	पिकी नकवाल/रतनलाल नकवाल	8 एमटीएच कम्पाउण्ड इंदौर	म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिषद। मारुति पैरामे. कालोज इंदौर। सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 18.3.2011	2700/-	26.11.1984	निरक	23 अगस्त 2013
79	एससीएच-23/सॉर्ट/23115/13	राकेश जामोद/जोगाडिया	158 जुलवानिया गांव रोजा पोस्ट गिरवानिया तहसील कुंभी जिला धार	म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिषद। श्री निमाड कालेज ऑफ पैरामे. साइंस धार। आयु. कम्पा. 12.4.2013	1200/-	04.03.92	धार	23 अगस्त 2013
80	एससीएच-23/सॉर्ट/23129/13	रेशम जामोद/रतन सिंह जामोद	गांव शिकारिबालवारी तहसील गंधवानी जिला धार	म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिषद। पयोनिवर इंस्टी. ऑफ पैरामे. साइंस एण्ड एडवांस टेक्ना. आयु. कम्पा. 12.4.2013	1200/-	14.5.1988	धार	23 अगस्त 2013
81	एससीएच-23/सॉर्ट/23140/13	सविन्द्र श्रीवास्तव/रमेश्वर डी श्रीवास्तव	झारा आर. के. फोटो स्टूडियो कुलदीप सदन. भाण्डेर जिला दतिया	म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिषद। राजीव जन विकास आयु. कम्पा. प्रशि. के. आयु. कम्पा. 5.10.2004	2700/-	12.05.81	दतिया	23 अगस्त 2013

82	एससीएच-23/सॉर्ट / 23170/13	तारसुम अग्र/सस्तार खान	झर्रा टिकुरिया फोरस्टर वरदम भारत चौक नियर कलारी जिला कटनी	भारतीय चिकि. पद्धति एवं होम्यो. नेपाल। भारतीय. महिला आयु. स्वा. कार्य.। सॉर्ट. इन आयु. कम्पा. 1.12.2008	2700/-	05.01.80	कटनी	23 अगस्त 2013
83	एससीएच-23/सॉर्ट / 23178/13	ओमप्रकाश श्रीवास्तव/रणगोपाल श्रीवास्तव	गाव अरण्याडोड पोस्ट हंसखेडी तहसील आद्या जिला सीहोर	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। वैदेही शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान। आयु. कम्पा. 12.4.2013	1200/-	07.01.81	सीहोर	23 अगस्त 2013
84	एससीएच-34/सॉर्ट / 23185/13	वर्षा कुशवाहा/सरनाम	88 12 अजाक्स आफिस सेकण्ड स्टॉप जुलसी नगर भोपाल	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। हनुमान सिंह इस्टी. ऑफ पैरामे. साइंस। सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 18.3.2011	2700/-	05.07.88	भोपाल	23 अगस्त 2013
85	एससीएच-34/सॉर्ट / 23252/13	ऊषा विश्वकर्मा/मोहन लाल विश्वकर्मा	आजाद नगर गली नं. 2 सीधी	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। अमर इस्टी. ऑफ पैरामे. टेक्ना.। सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 12.4.2013	1200/-	07.07.92	सीधी	23 अगस्त 2013
86	एससीएच-23/सॉर्ट / 23266/13	चंदर सिंह/श्री देव बगस	स्टॉक स्वाटर बी ब्लॉक रूप नं. 13 पीसीएमएस कैम्पस भानपुर भोपाल	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। मेयो कालेज ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल। आयु. कम्पा. 12.4.2013	1200/-	07.07.84	भोपाल	23 अगस्त 2013
87	एससीएच-36/डिप्लो/23273/13	लोकचंद साहू/फूलचंद साहू	गाव पोस्ट कठोतिया तहसील साहपुरा जिला डिण्डोरी	बकतराल्ला विडियो भोपाल। पं. सुशीलाल शर्मा स्व. शासकीय आयु. महावि. भोपाल। डिप्लोमा इन आयु. फार्मसी 4.10.2002	2700/-	05.01.71	डिण्डोरी	23 अगस्त 2013
88	एससीएच-23/सॉर्ट / 23278/13	आशा शाक्य/बनवारी लाल शाक्य	27 चू गायत्री नगर नियर पुल इफण्ट ऑफ आसमानी माता वाली गली लोको यालियर	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। शास. आयु. महावि.। आयु. कम्पा. 25.5.2013	1200/-	20.8.1982	निरंक	23 अगस्त 2013
89	एससीएच-23/सॉर्ट / 23291/13	सगीता सोलंकी/बोधन सिंह सोलंकी	99 आंबिकापुरी एयरपोर्ट रोड इंदौर	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। माकलति पैरामे. कालेज इंदौर। आयु. कम्पा. 18.3.2011	2700/-	14.2.1982	निरंक	23 अगस्त 2013
90	एससीएच-23/सॉर्ट / 23303/13	यशवंत सिंह चौधरी/चंद्रमान सिंह	देवाळा नरसिंहपुर	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। एम आई एम टी कालेज। आयु. कम्पा 12.4.2013	1200/-	05.10.84	नरसिंहपुर	23 अगस्त 2013
91	एससीएच-23/सॉर्ट / 23304/13	दिव्या भारती पटेल/यशवंत सिंह पटेल	धनारे कालोनी नरसिंहपुर	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। रोजाश्री इस्टी. ऑफ मेडिकल साइंस। आयु. कम्पा 12.4.2013	1200/-	02.03.94	नरसिंहपुर	23 अगस्त 2013
92	एससीएच-23/सॉर्ट / 23307/13	अनिल कुशवाहा/रामजियान	हाउस नं. 608 गाव निपानिया अमरिया टोला रीवा	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। श्री इस्टी. ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। आयु. कम्पा. 12.4.2013	1200/-	07.10.90	रीवा	23 अगस्त 2013
93	एससीएच-34/सॉर्ट / 23314/13	ज्योति कुशवाहा/उद्यान सिंह	पण्डा मोहल्ला इंडोर तहसील इंडोर जिला अशोकनगर	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। वैष्णो पैरामे. कालेज अशोकनगर। सॉर्ट. महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण। 29.2.2012	2200/-	08.01.91	निरंक	23 अगस्त 2013
94	एससीएच-23/सॉर्ट / 23321/13	राधा मलावी/ध्यानी मलावी	तिलबोडीकरी तहसील लखनदौन सिक्की	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। मण्डला इस्टी. ऑफ पैरामे. टेक्ना. मण्डला आयु. कम्पा. 29.8.2012	1700/-	01.12.85	निरंक	23 अगस्त 2013
95	एससीएच-23/सॉर्ट / 23322/13	सुलोचना उलारी/फतह सिंह	101/1 केशपुर मण्डला	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। मण्डला इस्टी. ऑफ पैरामे. टेक्ना. मण्डला आयु. कम्पा. 6.6.2013	1200/-	06.02.88	निरंक	23 अगस्त 2013
96	एससीएच-23/सॉर्ट / 23331/13	रामखिलाडी धाकड/बलीराम धाकड	ग्राम परसोटा पोस्ट परसोटा तहसील जौरा मुरैना	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। जे. के. पाठक पैरामे. इस्टी.। सॉर्ट. इन होम्यो. कम्पा. 29.12.2012	1700/-	04.11.88	निरंक	23 अगस्त 2013

97	एससीएच-23/सॉर्ट/ 23345/13	ममता कौर/रतन लाल कौर	ठाकुरपुर, इच्छावर तहसील इच्छावर जिला सीहोर	ठाकुरपुर, इच्छावर तहसील इच्छावर जिला सीहोर		म090 सह-चिकित्सीय परिषद। शास. होम्यो. चिकि. महावि. एवं हास्पिटल। सॉर्ट. इन होम्यो. कम्पा. 11.5.2013	1200/-	28.10.1988	सीहोर	23 अगस्त 2013
98	एससीएच-23/सॉर्ट/ 23366/13	देव नारायण यादव/जुलर प्रसाद यादव	गांव पोस्ट गौर चित्तौरी	गांव पोस्ट गौर चित्तौरी		म090 सह-चिकित्सीय परिषद। छतरपुर पैरामे. कालेज छतरपुर। आयु. कम्पा. 12.4.2013	1200/-	06.03.87	सिगरौली	23 अगस्त 2013
99	एससीएच-34/सॉर्ट/ 23388/13	मुनालाल पाण्डेय/ओमप्रकाश पाण्डेय	ग्राम बैरहा पोस्ट देवगावा जिला सीधी	ग्राम बैरहा पोस्ट देवगावा जिला सीधी		म090 सह-चिकित्सीय परिषद। छतरपुर पैरामेडिकल कालेज, छतरपुर। सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 18.3.2011	1700/-	07.01.85	सीधी	23 अगस्त 2013
100	एससीएच-34/सॉर्ट/ 23371/13	कु0 संध्या टेकाम/मेयालाल	शलाई पोस्ट विजयापानी तहसील कुण्ड जिला सिवनी	शलाई पोस्ट विजयापानी तहसील कुण्ड जिला सिवनी		म090 सह-चिकित्सीय परिषद। बालाजी पैरामे. कालेज। CMASK 12.4.2013	1200/-	14.6.1989	छिन्दवाडा	23 अगस्त 2013
101	एससीएच-23/सॉर्ट/ 23388/13	वर्षा खटीक/हेमराज खटीक	वर्षा खटीक/हेमराज खटीक	वर्षा खटीक/हेमराज खटीक		म090 सह-चिकित्सीय परिषद दिव्याशा कालोनी आफ पैरामे. साइंस। आयु. कम्पा. 25.3.2010	2700/-	10.08.86	निरंक	23 अगस्त 2013
102	एससीएच-34/सॉर्ट/ 23394/13	निशा पाटीदार/रामेश्वर पाटीदार	ओल्ड पलायिया खीन्द्र नगर मेडिकेयर हास्पिटल इंदौर	ओल्ड पलायिया खीन्द्र नगर मेडिकेयर हास्पिटल इंदौर		संचालनालय भार. चिकि. पद्धति एवं होम्यो.। भारतीय महिला आयु. स्वा. कार्य. 20.12.2006	2700/-	14.10.1987	निरंक	23 अगस्त 2013
103	एससीएच-34/सॉर्ट/ 23430/13	बिजू अमलियार/जेतु अमलियार	285 गलदा मिल पलटन भील कालोनी मुसाखेडी इंदौर	285 गलदा मिल पलटन भील कालोनी मुसाखेडी इंदौर		शास. महिला आयु. स्वा. कार्य. प्र. के. राठ इंदौर। संचालनालय भारतीय चिकि. पद्धति एवं होम्यो. भोपाल। सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 25.3.2010	2700/-	06.05.82	इंदौर	23 अगस्त 2013
104	एससीएच-34/सॉर्ट/ 23434/13	दीपिका चौहान/जुलसी राम	माली चौक हरसोला महु इंदौर	माली चौक हरसोला महु इंदौर		म090 सह-चिकित्सीय परिषद। मारुति पैरामे. कालेज इंदौर	2700/-	05.05.87	इंदौर	23 अगस्त 2013
105	एससीएच-23/सॉर्ट/ 23436/13	नरेन्द्र मेहता/भवसिंह मेहता	कापानी कुण्डमल जसुपुरा पोस्ट देवला तहसील ठीकरी जिला बडवानी	कापानी कुण्डमल जसुपुरा पोस्ट देवला तहसील ठीकरी जिला बडवानी		संचालनालय भारतीय चिकि. प. एवं होम्यो. भोपाल। राजीव जन विकास आयु. कम्पा. प्रशि. के. इंदौर। आयु. कम्पा. 9.10.2003	2700/-		बडवानी	23 अगस्त 2013
106	एससीएच-23/सॉर्ट/ 23438/13	आशुतोष पाटीदार/गुरार पाटीदार	ग्राम पोस्ट पवारड तहसील महेश्वर जिला खरगौन	ग्राम पोस्ट पवारड तहसील महेश्वर जिला खरगौन		संचालनालय भारतीय चिकि. प. एवं होम्यो. भोपाल। एस आर एम एस संयोजक कम्पा. प्र.के. इंदौर। आयु. कम्पा. 5.7.2003	2700/-	21.2.1977 36वर्ष	निरंक	23 अगस्त 2013
107	एससीएच-23/सॉर्ट/ 23445/13	शेख सकील/श्री शेख रकायत	गांव खेडा पोस्ट कालोनी तहसील लखनादौन जिला सिवनी	गांव खेडा पोस्ट कालोनी तहसील लखनादौन जिला सिवनी		म090 सह-चिकित्सीय परिषद। जबलपुर इस्टी. ऑफ पैरामे. टेक्ना. जबलपुर। आयु. कम्पा. 5.8.2004	2700/-	07.03.85	निरंक	23 अगस्त 2013
108	एससीएच-23/सॉर्ट/ 23453/13	संतोष कुमार यादव/ललतु सिंह	ग्राम देवरी पोस्ट पारसर तहसील जिला छिन्करी	ग्राम देवरी पोस्ट पारसर तहसील जिला छिन्करी		म090 सह-चिकित्सीय परिषद। सुभाष चंद्र बोस पैरामे. इस्टी. जबलपुर। आयु. कम्पा. 29.8.2012	2700/-	05.02.87	निरंक	23 अगस्त 2013
109	एससीएच-23/सॉर्ट/ 23460/13	आशीष कुमार गौड/हरिगोविंद गौड	मुकाम पोस्ट गोरखपुर नरसिंहपुर	मुकाम पोस्ट गोरखपुर नरसिंहपुर		म090 सह-चिकित्सीय परिषद। एमआईएमटी कालेज। आयु. कम्पा. 12.4.2013	1200/-	06.03.85	नरसिंहपुर	23 अगस्त 2013
110	एससीएच-34/सॉर्ट/ 23461/13	अवना कहार/रविशंकर कहार	अगारि कालोनी टिन्डनी रोड नियर नलकूप नरसिंहपुर	अगारि कालोनी टिन्डनी रोड नियर नलकूप नरसिंहपुर		म090 सह-चिकित्सीय परिषद। एमआईएमटी कालेज। सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. प्र.। 12.4.2013	1200/-	5.9.1986	निरंक	23 अगस्त 2013
111	एससीएच-34/सॉर्ट/ 23463/13	निर्मला वर्मा/प्रेमलाल वर्मा	गांव खुठी तहसील रघुपालनगर सतना	गांव खुठी तहसील रघुपालनगर सतना		म090 सह-चिकित्सीय परिषद। चौरसिया पैरामे. इस्टी. शेवा। सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 12.4.2013	1200/-	26.8.1988	निरंक	23 अगस्त 2013

112	एससीएच-34/सॉर्ट/23464/13	विद्या चौरसिया/लोकेश चौरसिया	गांव पोस्ट हिना तहसील अमरगढ थाना ताला सतना म.प्र.	म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिसर। चौरसिया पैरामे, इस्टी. रोवा। सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वा.कार्य. 28.2.2012	1700/-	20.4.1983	निरंक	23 अगस्त 2013
113	एससीएच-23/सॉर्ट/23465/13	जितेन्द्र कुमार पटेल/राम धानि पटेल	ग्राम पोस्ट भमहा प्रथम तहसील ब्यौहारी शहडोल	संचालनालय भार. विकि. पदाति एवं होम्स। शास. आयु. मेडिकल कालेज। आयु. कम्पा. 4.1.2008	2700/-	02.06.80	निरंक	23 अगस्त 2013
114	एससीएच-23/सॉर्ट/23470/13	दीपक कुमार द्विवेदी/शतला प्रसाद	गांव बनिया टोला पोस्ट पहरौला तहसील मंडौली जिला सीधी	म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिसर। शास. आयु. मेडिकल कालेज आयु. कम्पा. 30.11.2012	1700/-	06.04.81	रोवा	23 अगस्त 2013
115	एससीएच-23/सॉर्ट/23471/13	प्रिंस कुशवाहा/राम कुशवाहा	बाणसागर कालोनी इन्फ्रण्ट ऑफ गुलशन प्लावर समान रोड रोवा	म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिसर। श्री इस्टी. ऑफ प्रोफे. स्टडीज। आयु. कम्पात्र 12.4.2013	1200/-	2.12.1989	निरंक	23 अगस्त 2013
116	एससीएच-23/सॉर्ट/23472/13	मनोज साकेत/मुन्नालाल साकेत	गांव हरिहरपुर तहसील हुजूर रोवा	म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिसर। श्री इस्टी. ऑफ प्रोफे. स्टडीज। आयु. कम्पात्र 12.4.2013	1200/-	03.07.90	निरंक	23 अगस्त 2013
117	एससीएच-23/सॉर्ट/23477/13	अविनाश ब्राह्मण/राजकुमार शर्मा	गुरु गोविन्द सिंह वाई पारासर डेरी के पास सागर	म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिसर नरसिंह इस्टी. ऑफ पैरामे. टेना। आयु. कम्पा. 15.5.2013	1200/-	20.5.1988	सागर	23 अगस्त 2013
118	एससीएच-38/डिप्लो/23479/2013	अलेश कुमार शुक्ला/श्री नंदा किशोर शुक्ला	रामखोरिया जिला सतना म.प्र.।	मास पैरामेडिकल इस्टीट्यूट, सतना। डिप्लो. डी. फार्मा। 28.12.2009	2700/-	15.04.1985	बांदा	23 अगस्त 2013
119	एससीएच-23/सॉर्ट/23480/2013	भारती पवार / एच.एस.चौहान	नगर मोहल्ला राजगढ 465661	पी.एन.एस. पैरामेडिकल संस्थान सीहोर। सॉर्ट आयुर्वेद कम्पाउण्डर। 18.3.2011	1200/-	29.09.1972	सीहोर	23 अगस्त 2013
120	एससीएच-34/सॉर्ट/23481/2013	रत्नी मरकाम / कुंवर सिंह मरकाम	पुरानी डिण्डोरी बंद टोला वाई नं. 12 तहसील और जिला डिण्डोरी ए.पी. 481880	महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण। 12.4.2013	1200/-	01.01.81	सीहोर	23 अगस्त 2013
121	एससीएच-23/सॉर्ट/23487/2013	रमाकांत मरावी / सीताराम मरावी	ग्राम घटकोहका पोस्ट सिंदरिया थाना कुरे सिवनी एम.पी. 480661	निनाक्षी एकाडमी ऑफ पैरामेडिकल स्टडीज। सॉर्ट आयुर्वेद कम्पाउण्डर। 12.4.2013	1200/-	01.05.74	निरंक	23 अगस्त 2013
122	एससीएच-23/सॉर्ट/23488/2013	श्रीकांत राय / अक्षय बिहारी राय	विलेज पोस्ट छिंदा तेह. केओलरी जिला सिवनी 480994	निनाक्षी एकाडमी ऑफ पैरामेडिकल स्टडीज। सॉर्ट आयुर्वेद कम्पाउण्डर। 12.4.2013	1200/-	13.9.1988	निरंक	23 अगस्त 2013
123	एससीएच-34/सॉर्ट/23500/2013	बिमला सिंह / बुद्धसेन सिंह परन्न	विलेज संधा टोला बसनिहा पो. लखुर तह.पुष्पाराजगढ तहसील अनुपपुर एम.पी.484881	स्वयं साक्षी इस्टी.ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी। सॉर्ट. महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण। 12.7.2012		15.2.1972	शहडोल	23 अगस्त 2013
124	एससीएच-34/सॉर्ट/23501/2013	सुमित्रा देवी / दौलीप सिंह	विलेज और पोस्ट सिंहादा तह. मिण्ड जिला मिण्ड 477332	आयुष्यान इस्टी ऑफ पैरामेडिकल साईंस। टेक्नोलॉजी। सॉर्ट. महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण। 29.8.2012		12.12.84	मिण्ड	23 अगस्त 2013
125	एससीएच-34/सॉर्ट/23503/2013	मंजू दयाल / रामनरेश दयाल	वाई नं.3 रगताल चौक पुरानी बस्ती बिक्रम मोहल्ला मैहर जिला सतना	व्यासकीय आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशि केन्द्र कोलास शिवपुरी। सॉर्ट. महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशि। 1.9.2007		14.1.1982	मैहर	23 अगस्त 2013
126	एससीएच-23/सॉर्ट/23505/2013	रामपुरील नामदेव / रामनिहार नामदेव	विलेज पोस्ट बडखेरा तह.बुरहट 486661	मानसरोवर पैरामेडिकल कालेज। सॉर्ट आयुर्वेद कम्पाउण्डर। 12.4.2013	1200/-	20.7.1988	बुरहट	23 अगस्त 2013

127	एससीएच-34/सॉर्ट/ 23511/ 13	रामदेवी बंशकार/ किशोरी लाल	राव विजयपुर पोस्ट टोरिया तहसील पलर जिला टोकमगढ	SC	म090 सह-विकितीय परिषद। भारतीय महिला आयु. स्वा. कार्य. प्र. के. खासियर। सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 12.4.2013	30.08.92	टोकमगढ	23 अगस्त 2013
128	एससीएच-23/सॉर्ट/ 23518/ 2013	अनीता नायक / रमेश नायक	वार्ड नं.16 गुरुनामक पुरा कागी मोहल्ला मालवीय गंज इटारसी 461111		आर आर एम पैरामोडिकल इस्टी. सॉर्टि आयुर्वेद कम्पाउण्डर 113.5.2013	28.2.1980	इटारसी	23 अगस्त 2013
129	एससीएच-23/सॉर्ट/ 23521/ 2013	सुलदीप खटीक / अशोक कुमार	वार्ड नं.9 बीनागंज तहसील 473115		दिव्याश कालेज आफ पैरामोडिकल साइंस। सॉर्टि आयुर्वेद कम्पाउण्डर 125.3.2010	02.05.10	निरंक	23 अगस्त 2013
130	एससीएच-23/सॉर्ट/ 23522/ 13	नीरज कुमार लिटोरिया/ महेश चंद लिटोरिया	गांव और पोस्ट उनाओ बालाजी जिला दतिया		म090 सह-विकितीय परिषद। त्रिमूर्ति इस्टी. फार जनरल पैरामे. नर्सिंग साइंसेस। सॉर्टि. इन आयु. कम्पा. 12.4.2013	29.12.87	दतिया	23 अगस्त 2013
131	एससीएच-34/सॉर्ट/ 23527/ 2013	दीपा मुरकुटे/ जितेंद्र	वार्ड नं.07 विलेज भलवा पोस्ट नोहगाओ तह.किरनापुर जिला बालाघाट 481226		कृष्णा इस्टी.ऑफ पैरामोडिकल साइंस एंड टेक्नोलोजी भोपाल। सॉर्टि महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण। 18.4. 2011	07.08.86	निरंक	
132	एससीएच-23/सॉर्ट/ 23528/ 2013	अजली पाठक/ विष्णु दयाल पाठक	बडी मटन मोहल्ला वार्ड नं.7 निवाडी जिला टोकमगढ एम.पी. 472442		पं.खुशीलाल शर्मा स्वशासी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल। सॉर्टि आयुर्वेद कम्पाउण्डर। 12.5. 2013	22.9.1992	निरंक	
133	एससीएच-36/डिप्लो/ 23529/ 2013	अलोक कुमार दत्तवेदी/ रघुवर प्रसाद दत्तवेदी	98 मरकन्दगज पोस्ट झरकुआ तर जिला पन्ना एम.पी.488001		पं.खुशीलाल शर्मा स्वशासी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल। डिप्लो. डी.फार्मा। 28.6.2007	13.8.1987	पन्ना	
134	एससीएच-23/सॉर्ट/ 23549/ 2013	सचिन सोनी/ लक्ष्मण	ग्राम झकनावादा तह.पेटलावद जिला झाडुआ एम.पी.457661		श्री सत्य सॉई कालेज आफ पैरामोडिकल साइंसेस बडवानी। सॉर्टि आयुर्वेद कम्पाउण्डर। 12.4.2013	15.12.1988	बडवानी	23 अगस्त 2013
135	एससीएच-23/सॉर्ट/ 23560/ 2013	लेवण सिंह मार्को / ज्ञान सिंह मार्को	101/6 न्यू भीम नगर भोपाल 462038		शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय। सॉर्टि. होम्योपैथिक कम्पाउण्डर। 27.12.2006	04.03.84	भोपाल	
136	एससीएच-23/सॉर्ट/ 23561/ 2013	परवेश श्रीवास्तव/ शिवकुमार श्रीवास्तव	जी-2 चिनारी ग्लोरी नियर चिनारी उपवन दानिय नगर हाथगाबाद रोड भोपाल 462026		शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय। सॉर्टि. होम्योपैथिक कम्पाउण्डर। 11.5.2013	22.9.1967	भोपाल	
137	एससीएच-34/सॉर्ट/ 23562/ 2013	सरोज गोह/ मरसानन्द	एच नं. 429 के.पी.एच.-30 साईखेडा -2 विलेज साईखेडा तहसील मुलताई जिला हैदुल 460557		एन एन पैरामोडिकल कालेज। सॉर्टि. महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण। 18.3.2011	28.4.1991	हैदुल	
138	एससीएच-23/सॉर्ट/ 23567/ 13	परसलाल साहू/ प्रताप सिंह	महोबा रोड नियर नौगांव जिला छतरपुर	obc	म090 सह-विकितीय परिषद। एम. जी. एम. इस्टी. आफ पैरामे. साइंस। आयु. कम्पा. 11.05.2013	1.1.1976 37वर्ष	छतरपुर	23 अगस्त 2013
139	एससीएच-34/सॉर्ट/ 23574/ 2013	कुमारी ज्योति सनोडिया/ रामेश्वर	ग्राम अरपा पोस्ट भुलारा तह. सिवनी 480661		बालाजी पैरामोडिकल कालेज। सॉर्टि. महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण। 12.4.2013	06.07.89	निरंक	23 अगस्त 2013

140	एससीएच-34/सॉर्ट/23578/13	सुनीता अम्बुले/हुकमवंद अम्बुले	सुनीता अम्बुले/हुकमवंद अम्बुले	वार्ड नं. 3 अस्पताल कालोनी तहसील बरघाट जिला सिवनी	obc	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। आर ए बी एल कालेज छिन्दवाडा। सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 12.4.2013	1200/-	25.10.76	सिवनी	23 अगस्त 2013
141	एससीएच-23/सॉर्ट/23591/13	लखन सिंह सविता/सीताराम सविता	लखन सिंह सविता/सीताराम सविता	46 ग्राम गंधारी तहसील लहार भिण्ड		म090 सह-चिकित्सीय परिषद। बीएल एकेडमी आफ प्रोफेशनल स्टडीज। आयु. कम्पा. 12.4.2013	1200/-	08.05.81	भिण्ड	23 अगस्त 2013
142	एससीएच-34/सॉर्ट/23592/2013	भाया पाटिल/अंजनाम	भाया पाटिल/अंजनाम	एट कबाह पोस्ट लोनीया करबल छिन्दवाडा 480001		बालाजी पैरामेडिकल कालेज। सॉर्ट.महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण। 29.2.2012		24.6.1981	निरंक	23 अगस्त 2013
143	एससीएच-23/सॉर्ट/23593/2013	राजीव लोचन श्रीवास्तव/नरोत्तम दास श्रीवास्तव	राजीव लोचन श्रीवास्तव/नरोत्तम दास श्रीवास्तव	हाउस नं.9 शिवाजी नगर निगर स्टेट बैंक सिलवानी जिला रायसेन 464886		शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय। सॉर्ट आयुर्वेद कम्पाउण्डर। 14.1.2008		07.01.80	निरंक	23 अगस्त 2013
144	एससीएच-23/सॉर्ट/23609/2013	चंद्र शंखर कोटा/उमाशंकर कोटा	चंद्र शंखर कोटा/उमाशंकर कोटा	229 साउथ मिल्लोनीगंज बघाई मोहल्ला जबलपुर 482002		बालाश्री इंस्टी.आफ पैरामेडिकल साइन्स जबलपुर। सॉर्ट आयुर्वेद कम्पाउण्डर। 29.2.2012		05.05.78	जबलपुर	23 अगस्त 2013
145	एससीएच-23/सॉर्ट/23611/2013	विवेक कुमार मिमते/देवानंद	विवेक कुमार मिमते/देवानंद	वार्ड नं.12 एट पोस्ट जाम तह. तालबर्गी जिला बालाघाट 481448		शा.आयुर्वेद मेडिकल कालेज। सॉर्ट आयुर्वेद कम्पाउण्डर। 13.2.2009		21.8.1981	निरंक	23 अगस्त 2013
146	एससीएच-23/सॉर्ट/23617/2013	अरविंद चमार/हजारी लाल चौधरी	अरविंद चमार/हजारी लाल चौधरी	177 के बसानापानी पोस्ट करकबेल परियम बसानापानी नरसिंहपुर		साई पैरामेडिकल इंस्टी.। कालेज। सॉर्ट आयुर्वेद कम्पाउण्डर। 12.4.2013	1200/-	06.09.90	निरंक	
147	एससीएच-36/हिस्को/23619/2013	जीतेंद्र कुमार विश्वकर्मा/मंडी लाल विश्वकर्मा	जीतेंद्र कुमार विश्वकर्मा/मंडी लाल विश्वकर्मा	विलेज घाना पोस्ट दसरगान तह. डीपार जिला कटनी		स्वांसितक पैरामेडिकल एकेडमी जबलपुर। डि.लोमा डि.फार्म। 13.7.2013	1200/-	06.02.90	जबलपुर	
148	एससीएच-34/सॉर्ट/23623/2013	मोहनी कुलस्ते/धनराज कुलस्ते	मोहनी कुलस्ते/धनराज कुलस्ते	विलेज घाना पोस्ट दसरगान तह. डीपार जिला कटनी		स्वांसितक पैरामेडिकल एकेडमी। सॉर्ट.महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण। 15.12.2012		09.05.93	जबलपुर	23 अगस्त 2013
149	एससीएच-23/सॉर्ट/23624/2013	एजाज कुमारी दर्जा/संतोष कुमार दर्जा	एजाज कुमारी दर्जा/संतोष कुमार दर्जा	विलेज पोस्ट सिहदी तहसील बोहरीबंद कटनी		स्वयं प्रभा इंस्टी.आफ पैरामेडिकल टेक्नालाजी जबलपुर। सॉर्ट. इन होम्यो. कम्पा. 2.4.2013		16.4.1993	कटनी	23 अगस्त 2013
150	एससीएच-23/सॉर्ट/23627/2013	सुखलाल साहू/धरमवास साहू	सुखलाल साहू/धरमवास साहू	विलेज संवरा पोस्ट सिहपुर तहसील जंबेरा जिला दमोह 470881		बारडोली महाविद्यालय कटनी। 12.4.2013		08.11.74	निरंक	23 अगस्त 2013
151	एससीएच-23/सॉर्ट/23635/2013	संजय राठौर/राजेंद्र प्रसाद	संजय राठौर/राजेंद्र प्रसाद	ओ एल डी सब्जी मंडी के पास राठौर गली कैलासपुर 476224		जे. के. पाठक पैरामेडिकल इंस्टी.। सॉर्ट. होम्योपैथिक कम्पाउण्डर। 29.2.2012		18.9.1992	मुरैना	23 अगस्त 2013
152	एससीएच-23/सॉर्ट/23636/13	राजकुमार मलाह/मुनीलाल मलाह	राजकुमार मलाह/मुनीलाल मलाह	गांव आमखंडा पोस्ट केरपानी तहसील करौली नरसिंहपुर		म090 सह-चिकित्सीय परिषद। एमआईएमटी कालेज आयु. कम्पा. 12.4.2013	1200/-	30-7-1984	नरसिंहपुर	23 अगस्त 2013
153	एससीएच-34/सॉर्ट/23637/2013	संगीता पटेल/श्री गोपाल प्रसाद	संगीता पटेल/श्री गोपाल प्रसाद	हाउस आफ दीपक डूबे बजरांग वार्ड कन्दली नरसिंहपुर 487001		स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण। 12.4.2013		25.6.1978	नरसिंहपुर	23 अगस्त 2013
154	एससीएच-34/सॉर्ट/23638/2013	चंदना मेहरा/श्री जयराम मेहरा	चंदना मेहरा/श्री जयराम मेहरा	महेन्द्र वार्ड करौली 487221		एम आई टी कालेज। सॉर्ट.महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण। 12.4.2013		01.06.88	नरसिंहपुर	23 अगस्त 2013
155	एससीएच-34/सॉर्ट/23641/13	सलमा बानो/दीन खान	सलमा बानो/दीन खान	ग्राम पोस्ट दिगोडा विलोक जतारा जिला टीकमगढ़	OBC	संचालनालय भारतीय चिकि. पद्धति एवं होम्यो. भोपाल। शास. आयु. महावि. सेवा। सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 2.4.2004	2700/-	15.7.1977 37वर्ष	टीकमगढ़	

156	एससीएच-34/सॉर्ट/23642/13	नाजरा बानो/दीन खान	ग्राम पोस्ट दिगोडा विलोक जतारा जिला टीकमगढ़	OBC	संचालनालय भारतीय चिकि. पद्धति एवं होम्यो. भोपाल। शास. आयु. महावि. रीवा। सॉर्ट. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 2.4.2004	2700/-	1.1.1973 40वर्ष	टीकमगढ़	23 अगस्त 2013
157	एससीएच-34/सॉर्ट/23660/2013	श्रद्धा डेहरिया / मनोज कुमार डेहरिया	विलेज कोहका पोस्ट बानाजी तहसील केओलरी जिला सिवनी 480994		ज्ञान गंगा इंस्टी.आफ पैरामेडिकल साइन्सेस सिवनी।12.4.2013		27.12.1990	निरंक	23 अगस्त 2013
158	एससीएच-23/सॉर्ट/23666/2013	सुनील कुमार वर्मा/बाबु लाल वर्मा	विलेज पोस्ट जाधपुर जमुनीहटोला तहसील सोहागपुर जिला शहडोल 484001		शिवानी पैरामेडिकल कालेज शहडोल। सॉर्ट आयुर्वेद कम्पाउण्डर 12.4.2013	1200/-	03.02.89	निरंक	23 अगस्त 2013
159	एससीएच-34/सॉर्ट/23669/2013	उमा कुमारी खटीक/ सुखनंदन खटीक	गांव और पोस्ट चंदेरा जिला टीकमगढ़ एम.पी.472118		व्यासकीय आयुर्वेद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र कोलारस शिवपुरी। सॉर्ट. महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण।17.7.1998	2700/-	07.07.76	टीकमगढ़	23 अगस्त 2013
160	एससीएच-34/सॉर्ट/23673/2013	अनुराधा सिंह / अनजनी सिंह	विलेज जमोदी कला पोस्ट पंवार जिला सीधी 486661		कमला देवी इंस्टी. आफ पैरामेडिकल टेकनालाजी। सॉर्ट महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण।12.4.2013		01.01.89	सीधी	23 अगस्त 2013
161	एससीएच-23/सॉर्ट/23674/2013	अशोक कुमार सिंह/ गुलाब प्रसाद सिंह	विलेज गडगावा पोस्ट खेदार तहसील धितरगी जिला सिंगरौली 486882		मानसरोवर पैरामेडिकल कालेज। सॉर्ट आयुर्वेद कम्पाउण्डर। 12.4.2013		01.01.83	निरंक	23 अगस्त 2013
162	एससीएच-23/सॉर्ट/23678/2013	रमाशंकर चतुर्वेदी/ स्वामी प्रसाद चतुर्वेदी	इंद्रा कालोनी बिहाइड गोल खवाटर टीकमगढ़ 472001		भारतीय औषधि संयोजक कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केंद्र खरगापुर टीकमगढ़। सॉर्ट आयुर्वेद कम्पाउण्डर। 18.2.2002		02.07.76	निरंक	23 अगस्त 2013
163	एससीएच-23/सॉर्ट/23682/2013	राज पाल सिंह/राम सिंह	विलेज और पोस्ट शाह तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ 472339		इंटर गांधी आयुर्वेद कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केंद्र भोपाल सॉर्ट आयुर्वेद कम्पाउण्डर। 31.3.2001		28.4.1980	निरंक	23 अगस्त 2013
164	एससीएच-23/सॉर्ट/23688/2013	सुन्दर बेलबशी / धीरज बेलबशी	गांव चंदनाग पोस्ट बडगांव तहसील चौराई जिला छिंदवाडा 480110		आर. बी.एल.कालेज छिंदवाडा सॉर्ट आयुर्वेद कम्पाउण्डर। 29.2.2012		07.03.87	छिंदवाडा	23 अगस्त 2013
165	एससीएच-23/सॉर्ट/23689/13	कुसुमा मीनाटे/ हरिओम मीनाटे	पुराना बाजार गांव चौक बिडुआ जिला छिंदवाडा		म090 सह-विक्रितीय परिषद। आर.ए.बी.एल. कालेज छिंदवाडा। आयु. कर्मा. 12.4.2013	1200/-	6.6.1983	छिंदवाडा	23 अगस्त 2013
166	एससीएच-23/सॉर्ट/23714/2013	रश्मा चौहान / हंगरीया चौहान	विलेज बलोला बडी पोस्ट रजला तहसील झाडुआ जिला झाडुआ 457661		महर्षि पैरामेडिकल कालेज सॉर्ट आयुर्वेद कम्पाउण्डर। 4.1.2008		12.06.81	झाडुआ	23 अगस्त 2013
167	एससीएच-23/सॉर्ट/23715/2013	कन्धी चौहान / दुर्गाया चौहान	विलेज बलोला बडी पोस्ट रजला तहसील झाडुआ जिला झाडुआ 457661		महर्षि पैरामेडिकल कालेज सॉर्ट आयुर्वेद कम्पाउण्डर। 4.1.2008		04.01.81	झाडुआ	23 अगस्त 2013
168	एससीएच-34/सॉर्ट/23716/2013	नीलू पिरौजी / राम विलास	28/346 प्रकाश कावेन्ट वाली गली नई गांधी गली कालोनी मुरेना 476001		जे.के.पाठक पैरामेडिकल इंस्टी। सॉर्ट महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण। 29.2.2012		20.1.1989	मुरेना	23 अगस्त 2013

169	एससीएच-23 / सर्टि / 23726 / 13	अरविन्द कुमार बिदुआ / जगदीश पसाद बिदुआ	जरोन खालसा तहसील पृथ्वीपुर जिला टिकमगढ़	UR	मोप्रो सह-चिकित्सीय परिषद। भारतीय औषधि संयोजक कम्पा. प्रशि. के. खरापुर टिकमगढ़। आयु. कम्पा. 11.5.2013	1200/-	30.12.82	टिकमगढ़	23 अगस्त 2013
170	एससीएच-27 / डिलो / 23787 / 13	वदना पाटीदार / अन्धाराम पाटीदार	गांव पोस्ट रिच्छल्लू गुडा, तहसील दालौदा, जिला मंडसौर	obc	देवी अहिल्या विठो विदौर। देवी अहिल्या कालेज आफ पैरामे. साइसेस इंदौर। डीएमएलटी 21.1.2013	1700/-	25.6.1990 23वर्ष	मंडसौर	23 अगस्त 2013
171	एससीएच-27 / डिलो / 23790 / 13	हरनाम प्रजापति / मोहनलाल प्रजापति	राजेंद्र अस्पताल के पास, इन्द्रपुरी कालोनी, टिकमगढ़	SC	बरकतउल्ला विठो मोपाल। जीएमसी मोपाल। डीएमएलटी 28.3.2013	1700/-	18.1.1988 25वर्ष	निरक	23 अगस्त 2013
172	एससीएच-27 / डिलो / 23858 / 2013	अरफात खान / रसजान खान	07 आदर्श नगर कालोनी सेंट एंजिल्स स्कूल के पास बडवाह जिला खरगोन 451115		श्री अरविन्दो इस्टी. आफ मेडिकल साइंस। डिलो. मेडिकल लेब टेक्नीशियन। 21.1.2013		27.4.1984	खरगोन	09 सितम्बर 2013
173	एससीएच-27 / डिलो / 23869 / 13	उमेश कुमार पटेल / शिव कुमार पटेल	सी 408 सर्वधर्म कालोनी कोलार रोड भोपाल		बरकतउल्ला विठो मोपाल। मानसरोवर पैरमे. कालेज। डीएमएलटी 12.4.2012	1700/-	15.9.1985	भोपाल	09 सितम्बर 2013
174	एससीएच-34 / सर्टि / 23871 / 2013	अनीता शर्मा / राम दीन शर्मा	रामगोविंद वाली गली महावीर पुग मुरैना 476001		राजकुमारी महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता मिड। सर्टि. महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण। 31.8.2005		22.4.1982	मुरैना	09 सितम्बर 2013
175	एससीएच-27 / डिलो / 23874 / 2013	दीना चौहान / जमेल चौहान	ग्राम पोई पोस्ट बगनाला तहसील श्रीकणाव जिला खरगोन 451331		स्वशासी शासकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय। डिलो. मेडिकल लेब टेक्नीशियन। 6.6.2013		08.03.91	निरक	09 सितम्बर 2013
176	एससीएच-27 / डिलो / 23883 / 2013	राहुल चौहान / राधेश्याम चौहान	मकान नं.7 गार्ड सुन्दर नगर के पास बिस्तान रोड खरगोन 451001		देवी अहिल्या कालेज आफ पैरामेडिकल साइसेस एण्ड एसीसिएटेड हासिपटल इंदौर डिलो. मेडिकल लेब टेक्नीशियन। 21.1.2013		25.6.1987	खरगोन	09 सितम्बर 2013
177	एससीएच-27 / डिलो / 23886 / 2013	विनय मुकाती / सुभाष चंद्र मुकाती	15 गुलेश्वर गली धार 454001		देवी अहिल्या कालेज आफ पैरामेडिकल साइसेस एण्ड एसीसिएटेड हासिपटल इंदौर डिलो. मेडिकल लेब टेक्नीशियन। 1.5.2002		12.12.81	धार	09 सितम्बर 2013
178	एससीएच-27 / डिलो / 23890 / 2013	कमील पाटीदार / कैलाश पाटीदार	कोलांव पोस्ट ननोदा तहसील कुंभी जिला धार 454331		देवी अहिल्या कालेज आफ पैरामेडिकल साइसेस एण्ड एसीसिएटेड हासिपटल इंदौर डिलो. मेडिकल लेब टेक्नीशियन। 1.3.3.2013		14.8.1991	धार	09 सितम्बर 2013
179	एससीएच-12 / डिलो / 23982 / 2013	रजनी शर्मा / स्व. श्री योगेंद्र शर्मा	140 गंगा नगर एयरपोर्ट रोड इंदौर 452005		देवी अहिल्या कालेज आफ पैरामेडिकल साइसेस एण्ड एसीसिएटेड हासिपटल इंदौर डिलो. आटोमेटिक रिफरेशन। 21.1.2013		23.12.1989	इंदौर	09 सितम्बर 2013
180	एससीएच-27 / डिलो / 23915 / 2013	दिनाथक तडाम / सोहेब लाल तडाम	गांव कोहिया पोस्ट हतनापुर तह. मुलताई जिला बेतुल 460661		स्वशासी गौंधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल। इंदौर डिलो. मेडिकल लेब टेक्नीशियन। 28.3.2013		25.12.1992	बेतुल	10 सितम्बर 2013
181	एससीएच-27 / डिलो / 23916 / 2013	राजकुमार अहिस्वार / रामस्वरुण अहिस्वार	शावस नं.1 विजय स्कुलिय चिकलाद रोड शपसन 464551		स्वशासी गौंधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल। इंदौर डिलो. मेडिकल लेब टेक्नीशियन। 28.3.2013		04.01.91	भोपाल	10 सितम्बर 2013

182	एससीएच-31 / डिलो / 23917 / 2013	मुकेश बजुरी / राम किशोर बजुरी	गांव पो.तह.मानपुर जिला उमरिया 484665	स्वाश्री गौरी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल। इंदौर डिलो.कैथ लेब टेक्नीशियन। 28.3.2013				07.09.85	निरंक	10 सितम्बर 2013
183	एससीएच-12 / डिलो / 23994 / 2013	दिनाथु भागव / सुभाष चंद्र भागव	भागव आँटीशिल्प ओ पी सी मोती मस्जिद पुलताना रोड भोपाल 462001	भोपाल मेमोरियल हासिपटल एंड रिसर्च सेंटर डिलो. आर्टोमेट्रिक रिफरेंस। 14.3.2012				20.9.1975	भोपाल	10 सितम्बर 2013
184	एससीएच-12 / डिलो / 23995 / 2013	रेनु भागव / नरेन्द्र नाथ भागव	भागव आँटीशिल्प ओ पी सी मोती मस्जिद पुलताना रोड भोपाल 462001	भोपाल मेमोरियल हासिपटल एंड रिसर्च सेंटर डिलो. आर्टोमेट्रिक रिफरेंस। 24.8.2012				08.02.78	भोपाल	10 सितम्बर 2013
185	एससीएच-27 / डिलो / 24039 / 2013	मनोरमा किरकम / मेवा लाल किरकम	हाउस नं.44 रकजा कमला नगर रायसेन रोड नरेला शंकरा ख्वाजा कालोनी भोपाल. 462022	स्वाश्री शासकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय। डिलो.रेडिकल लेब टेक्नीशियन। 6.6.2013				02.08.89	निरंक	16 सितम्बर 2013
186	एससीएच-23 / सर्टि / 24065 / 13	किरण सिंह मरावी / गंगा सिंह मरावी	गांव बरने पोस्ट रुखा तहसील व जिला चिण्डौरी	मडो सह-चिकित्सीय परिषद। नर्मदा पैरामेडिकल कालेज अनुपपुर। आयु. क्रमा. 12.4.2013	st		1200/-	2.3.1990	23वर्ष	डिंडोरी
187	एससीएच-23 / सर्टि / 24067 / 2013	धीरज कुमार वर्मा / अशोक वर्मा	गार्ड नं.04 रेल्वे कॉलोनी धानपुरी नं.3 नियर भावती शिशु निकेतन स्कूल जिला रहडोल 484114	नर्मदा पैरामेडिकल कालेज। सर्टि आयुर्वेद क्रमांक. 12.4.2013				30.9.1991	रहडोल	01 अक्टूबर 2013
188	एससीएच-23 / सर्टि / 24068 / 2013	दीनेश कुमार साह / रुद्र शरण साह	विलेज पोस्ट डिये तहसील अनुपपुर जिला अनुपपुर 484224	नर्मदा पैरामेडिकल कालेज। सर्टि आयुर्वेद क्रमांक. 12.4.2013				03.01.92	निरंक	01 अक्टूबर 2013
189	एससीएच-27 / डिलो / 24073 / 13	राजकुमार तिवारी / लक्ष्मी प्रसाद तिवारी	बिहार्ड शासकीय स्कूल नियर पुलिस लाइन न्यू कटनी जंक्शन कटनी	अवधेश प्रताप सिंह विठो रोवा। बारडोली कालेज कटनी। डीएमएलटी 6.6.2013			1700/-	05.06.86	कटनी	01 अक्टूबर 2013
190	एससीएच-27 / डिलो / 24076 / 13	अरविन्द कुमार सनोडिया / शोभे राम सनोडिया	गिरिजा कुंड नेहरू रोड हुनुगान मंदिर के सामने सिवनी	रानी दुर्गावती विठो जबलपुर। बारडोली महाविद्यालय, कटनी। डीएमएलटी। 6/6/2013	obc		1700/-	4.12.1988	25वर्ष	सिवनी
191	एससीएच-27 / डिलो / 24077 / 13	किशोर कुमार चौधरी / खेमचंद्र चौधरी	एट पोस्ट कोसमी तहसील बरघाट जिला सिवनी	रानी दुर्गावती विठो जबलपुर। बारडोली महाविद्यालय, कटनी। डीएमएलटी। 6/6/2013	obc		1700/-	15.10.1978		सिवनी
192	एससीएच-27 / डिलो / 24078 / 13	शिखा बघेल / तामसिंह बघेल	बडा शिव मंदिर मंगलीपेट कस्तूरवा वार्ड सिवनी	रानी दुर्गावती विठो जबलपुर। बारडोली महाविद्यालय, कटनी। डीएमएलटी। 6/6/2013			1700/-	19.1.1992		सिवनी
193	एससीएच-27 / डिलो / 24079 / 13	पुनम ठाकुर / अरविन्द सिंह ठाकुर	एट बंकी पोस्ट बंकी सिवनी	रानी दुर्गावती विठो जबलपुर। बारडोली महाविद्यालय, कटनी। डीएमएलटी। 6/6/2013			1700/-	12.09.92		सिवनी
194	एससीएच-27 / डिलो / 24080 / 13	नेहा चौहान / प्रताप सिंह चौहान	राष्ट्रीय राजमार्ग 7 डुंगरिया रोड छपरा सिवनी	रानी दुर्गावती विठो जबलपुर। बारडोली महाविद्यालय, कटनी। डीएमएलटी। 6/6/2013			1700/-	21.2.1988		सिवनी
195	एससीएच-12 / डिलो / 24082 / 13	भव्य कालानी / ओम प्रकाश कालानी	नेत्र प्रकाश आर्टिकल सोल्ड हाई कोर्ट ग्वालियर	देवी अहिल्या विठो इंदौर। देवी अहिल्या कालेज ऑफ पैरामे. साइंस इंदौर। डिलो. इन आर्टो. सिं. 28.4.2013			1700/-	06.06.93		ग्वालियर
196	एससीएच-34 / सर्टि / 24091 / 13	शीतल बघेल / तामसिंह बघेल	शिव मंदिर के पास, मंगलपेट जिला सिवनी	मडो सह-चिकित्सीय परिषद। सर्वमान्य पैरामे. कालेज सिवनी। सर्टि. इन महिला आयु. स्वा. कार्य. 29.2.2012			2400/-	22.10.1984		सिवनी

197	एससीएच-05ए/सॉर्ट/24113/13	पूजा खुवंची/सुरेश खुवंची	पुन्येश शंभरी	17 न्यू दुर्गा नगर बागंगा नियर कुशवाह नगर इंदौर	म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद। इंदौर इंस्टी ऑफ मेडिकल साइंस, इंदौर। सॉर्ट इन सीटीएमआरआई टेक्नी। 30.4.2013	1200/-	14.11.1988	इंदौर	15 अक्टूबर 2013
198	एससीएच-05ए/सॉर्ट/24114/13	विजय विश्वकर्मा/सगवानदीन विश्वकर्मा	विजय विश्वकर्मा	शुभ लाम वैली ब्लाक नं. बी 2 प्लेट नं. 102 बगाली स्कावर इंदौर	म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद। इंदौर इंस्टी ऑफ मेडिकल साइंस, इंदौर। सॉर्ट इन सीटीएमआरआई टेक्नी। 4.1.2008	2700/-	10.02.82	इंदौर	15 अक्टूबर 2013
199	एससीएच-01/डिप्री 2/24118/13	आशा भागवती मावासु/वैक्य राव मावासु	आशा भागवती मावासु/वैक्य राव मावासु	23/ए सृष्टि पैलेस छोटा बाणवा रोड इंदौर	देवी अहिल्या विठ्ठल इंदौर। इंदौर इंस्टी. ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर। बैचलर ऑफ आयुषेशनल थेरेपी 27.4.2012	3200/-	20.7.1987	निरंक	15 अक्टूबर 2013
200	एससीएच-01/डिप्री2/24121/13	भीति दिवान/केशव दिवास	भीति दिवान/केशव दिवास	पेट्रोल पम्प के सामने तार बाजार पाडुर्ना जिला छिन्दवाडा	देवी अहिल्या विठ्ठल इंदौर। इंदौर इंस्टी. ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर। बीपीटी 1.4.2008	2200/-	14.3.1985	निरंक	15 अक्टूबर 2013
201	एससीएच-23/सॉर्ट/24176/13	गंभीर सिंह नरवरिया/महेन्द्र सिंह नरवरिया	गंभीर सिंह नरवरिया/महेन्द्र सिंह नरवरिया	गांव शवतपुर पोस्ट गोरमी जिला मिण्ड	म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद। पी शिवनाथ शास्त्री स्व. आयु. चिकि. महावि. बुरखानपुर। आयु. कम्पा. 4.6.2003	2700/-	05.07.76	निरंक	15 दिसम्बर 2013
202	एससीएच-29/डिप्लो./24361/13	प्रियका तिवारी/श्री प्रेम शंकर तिवारी	प्रियका तिवारी/श्री प्रेम शंकर तिवारी	अगिरा प्रसाद शुक्ला विकास नगर, कोलमा वार्ड नं. 10 जिला अनूपपुर म.प्र.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा। स्व. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा। डिल्लोमा इन पैरामेडिकल आथलमिक असिस्टेन्ट। 03.08.2013	1700/-	04.07.1987 33 वर्ष	अनूपपुर	24 दिसम्बर 2013
203	एससीएच-29/डिप्लो./24362/13	समा विश्वकर्मा/तीरथ प्रसाद विश्वकर्मा	समा विश्वकर्मा/तीरथ प्रसाद विश्वकर्मा	सौरभ नगर बोदा बाग हुजर रीवा म.प्र.	अवधेश प्रताप सिंह विठ्ठल रीवा एसएस मेडिकल कालेज रीवा। डिल्लो. इन आस्था. अस्ति. 20.8.2013	1700/-	28.2.1979 34 वर्ष	रीवा	24 दिसम्बर 2013
204	एससीएच-29/डिप्लो./24363/13	अनीश कुमार शुक्ला/राज नारायण शुक्ला	अनीश कुमार शुक्ला/राज नारायण शुक्ला	गांव हहोती पुवा जफे कटवा पो. रायपुर सोनरी तहसील त्योंथर रीवा म.प्र.	स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा। डीप्लो इन आथलमिक असिस्टेन्ट। 3/8/2013	1700/-	9.9.1985 28 वर्ष	रीवा	24 दिसम्बर 2013
205	एससीएच-29/डिप्लो./24364/13	रवि प्रकाश तिवारी/राजेंद्र प्रसाद तिवारी	रवि प्रकाश तिवारी/राजेंद्र प्रसाद तिवारी	गांव पो. सलेया तह चुहट जिला-सीधी म.प्र.	स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा। डीप्लो इन आथलमिक असिस्टेन्ट। 3/8/2013	1700/-	8/4/1991 22 yrs	सीधी	24 दिसम्बर 2013
206	एससीएच-17/सॉर्ट/24365/13	रामकुमार कुशवाहा/राम कुशाल कुशवाहा	रामकुमार कुशवाहा/राम कुशाल कुशवाहा	2228 रामपुर दुर्गा नगर के पास भट्टा कुआ जहलपुर म.प्र.	म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद। विकल्प इंस्टी. ऑफ पैरामे. साइंस। सॉर्ट. इन आपरेशन थियेटर टेक्नी. 12.4.2013	1200/-	02.06.1988 25 वर्ष	निरंक	24 दिसम्बर 2013
207	एससीएच-17/सॉर्ट/24366/13	चंदा कुशवाहा/राम भजन कुशवाहा	चंदा कुशवाहा/राम भजन कुशवाहा	गांव पो. ओढागडी थाना बरगान सिंगरौली म.प्र.	म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद। विकल्प इंस्टी. ऑफ पैरामे. साइंस। सॉर्ट. इन आपरेशन थियेटर टेक्नी. 12.4.2013	1200/-	15.06.1984 29 वर्ष	निरंक	24 दिसम्बर 2013
208	एससीएच-17/सॉर्ट/24367/13	योगेश शर्मा/हरगोविंद शर्मा	योगेश शर्मा/हरगोविंद शर्मा	काटकी महिला श्रमजीवी छात्रावास प्लेट नं 1 चार इगली भोपाल म.प्र.	एल.एन. पैरामेडिकल कालेज। म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद। सॉर्ट आपरेशन थियेटर। 18/3/2011	2700/-	8/12/1972 41 yrs	भोपाल	24 दिसम्बर 2013

209	एससीएच-17/सॉर्ट/24368/13	सविन पटेल/प्रकाश पटेल	गांव पुनारडीवाई पो.बरलाई जिला-इंदौर म.प्र.	OBC	एल.सी.एच. इस्टी आफ प्रोफेशनल स्टडीज एण्ड रिसर्च सेंटर इंदौर म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद सॉर्टि आपरेशन थियेटर। 18/3/2011	2700/-	5/6/1987 26 YFS	इंदौर	24 दिसम्बर 2013
210	एससीएच-17/सॉर्ट/24369/13	गजानन बडोले/शंकरलाल	आएच 28 जे परिसर कोलार रोड भोपाल म.प्र.	SC	एल. एन. पैरामेट्रिकल कालेज म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद सॉर्टि आपरेशन थियेटर। 29/2/2012	2400/-	2/2/1977 37 YFS	भोपाल	24 दिसम्बर 2013
211	एससीएच-17/सॉर्ट/24370/13	संदीप कुमार जायसवाल/नत्यू जी जायसवाल	आएच 1 एच नं 17 जे के मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान केन्द्र जेके टाउन कोलार रोड जिला-भोपाल म.प्र.	SC	एल.एन. पैरामेट्रिकल कालेज। म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद सॉर्टि आपरेशन थियेटर। 29/8/2012	1800/-	11/1/1978 36 yrs	भोपाल	24 दिसम्बर 2013
212	एससीएच-17/सॉर्ट/24371/13	वर्षा आस्वानी/नामकसन आस्वानी	म.नं. 6, गली नं. 1, पत्थर वाली गली, नूर महल भोपाल, म.प्र.	UR	म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद। गांधी मेडिकल कालेज भोपाल। सॉर्टि आपरेशन थियेटर। 12.4.2013	1200/-	23.4.1989 24 वर्ष	भोपाल	24 दिसम्बर 2013
213	एससीएच-17/सॉर्ट/24372/13	पुष्पा भन्नारिया/रमेश प्रसाद भन्नारिया	खजरी रोड शिक्षक कालोनी वाइन शॉप के सामने छिंदवाडा	SC	म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद। गांधी मेडिकल कालेज भोपाल। सॉर्टि आपरेशन थियेटर। 12.4.2013	1200/-	16.11.1987 26वर्ष	छिन्दवाडा	24 दिसम्बर 2013
214	एससीएच-17/सॉर्ट/24373/13	नेहा मालवीय/श्री गुलाब चंद मालवीय	रान कालोनी, करोंद जिला भोपाल म.प्र.	SC	म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद। गांधी मेडिकल कालेज भोपाल। सॉर्टि आपरेशन थियेटर। 12.4.2013	1200/-	03.09.1992 21 वर्ष	भोपाल	24 दिसम्बर 2013
215	एससीएच-17/सॉर्ट/24374/13	हेमा नुदंतेल/रिम बहादुर	189 श्री गणेश नाए, नारयिन. खंडा, भोपाल, म.प्र.	UR	म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद। गांधी मेडिकल कालेज भोपाल। सॉर्टि आपरेशन थियेटर। 12.4.2013	1200/-	22.4.1990 23 वर्ष	भोपाल	24 दिसम्बर 2013
216	एससीएच-17/सॉर्ट/24375/13	प्रवीण पाटीदार/कैलाश चंद	ग्राम कारू, खंडा पोस्ट तालोनी तहसील सारांगपुर राजगढ़	OBC	म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद। मेडिकेयर इस्टी. आफ पैरामे. साइसेस। सॉर्टि आपरेशन थियेटर। 12.4.2013	1200/-	16.5.1992 21वर्ष	राजगढ़	24 दिसम्बर 2013
217	एससीएच-17/सॉर्ट/24376/13	दिनेश बडोदिया/जगन्नाथ	गांव शवलिया गोसाई पोस्ट आर्य तहसील इच्छावर सीहोर	SC	म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद। मेडिकेयर इस्टी. आफ पैरामे. साइसेस। सॉर्टि आपरेशन थियेटर। 12.4.2013	1200/-	7.6.1990 24वर्ष	सीहोर	24 दिसम्बर 2013
218	एससीएच-17/सॉर्ट/24377/13	सविन पाटीदार/नागजी राम	ग्राम कारू, खंडा पोस्ट तालोनी तहसील सारांगपुर राजगढ़	OBC	म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद। एमएम कालेज ऑफ फिजियोथेरेपी एण्ड पैरामे. साइसेस जबलपुर। सॉर्टि आपरेशन थियेटर। 12.4.2013	1200/-	16.4.1992 21वर्ष	राजगढ़	24 दिसम्बर 2013
219	एससीएच-17/सॉर्ट/24378/13	शैल कुमार वर्मा/राकेश वर्मा	एम एम कालेज राइट टाउन जबलपुर म.प्र.	OBC	म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद। एमएम कालेज ऑफ फिजियोथेरेपी एण्ड पैरामे. साइसेस जबलपुर। सॉर्टि आपरेशन थियेटर। 12.4.2013	1200/-	6.11.1992 21वर्ष	जबलपुर	24 दिसम्बर 2013
220	एससीएच-17/सॉर्ट/24379/13	शंकर लाल नेमा/पी डी नेमा	एम एम कालेज राइट टाउन जबलपुर म.प्र.	UR	म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद। एमएम कालेज ऑफ फिजियोथेरेपी एण्ड पैरामे. साइसेस जबलपुर। सॉर्टि आपरेशन थियेटर। 12.4.2013	1200/-	10.6.1987 28वर्ष	जबलपुर	24 दिसम्बर 2013

221	एससीएच-17/सॉर्टि/24380/13	रवि तिवारी/वीरमान तिवारी	न्यू टीचर्स होम के सामने, सुहागी आधारताल, जबलपुर	UR	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। बालाश्री इंस्टी. ऑफ पैरामे. साइसेस जबलपुर। सॉर्टि. इन आपरेशन थियेटर टेक्नी. 12.4.2013	1200/-	7.12.1992 21वर्ष	जबलपुर	24 दिसम्बर 2013
222	एससीएच-17/सॉर्टि/24381/13	अन्या भवेल/गंगाराम भवेल	13 खघाट पेटलाबद पोस्ट टाकी तहसील नमावर धार	SI.	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। एलसीएच इंस्टी. ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एण्ड रिसर्च सेंटर इंदौर। सॉर्टि. इन आपरेशन थियेटर टेक्नी. 10.5.2013	1200/-	2.4.1988 25वर्ष	इंदौर	24 दिसम्बर 2013
223	एससीएच-17/सॉर्टि/24382/13	नीलम सोनी/स0 आँकार सोनी	भकान नं. 326, सरकारी कुआं, महाराणा प्रताप चौक, धमापुर, जबलपुर	OBC	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। बालाश्री इंस्टी. ऑफ पैरामे. साइसेस जबलपुर। सॉर्टि. इन आपरेशन थियेटर टेक्नी. 12.4.2013	1200/-	8.2.1993 20वर्ष	जबलपुर	24 दिसम्बर 2013
224	एससीएच-17/सॉर्टि/24383/13	राजबाबू जाट/कमलेश सिंह जाट	ग्राम पोस्ट सोठिया, सागर		म090 सह-चिकित्सीय परिषद। चैतन्य इंस्टी. ऑफ पैरामे. साइसेस सागर। सॉर्टि. इन आपरेशन थियेटर टेक्नी. 12.4.2013	1200/-	10.1.1989 24वर्ष	सागर	24 दिसम्बर 2013
225	एससीएच-17/सॉर्टि/24384/13	नीलू बिजौरै/गुलसीराम	491 रुस्तम का बगीचा मालवामिल, इंदौर	SC	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। एमजीएम मेडिकल कालेज इंदौर। सॉर्टि. इन आपरेशन थियेटर टेक्नी. 12.4.2013	1200/-	2.2.1992 21वर्ष	इंदौर	24 दिसम्बर 2013
226	एससीएच-17/सॉर्टि/24385/13	राजेश मालेकर/कृष्णा मालेकर	गांव कतरगांव पोस्ट कतरगांव तहसील महेश्वर खरगोन, म.प्र.	SC	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। एमजीएम मेडिकल कालेज इंदौर। सॉर्टि. इन आपरेशन थियेटर टेक्नी. 12.4.2013	1200/-	9.10.1992 21वर्ष	खरगोन	24 दिसम्बर 2013
227	एससीएच-17/सॉर्टि/24386/13	सुताष यादव/छीतर यादव	4 राधा स्वामी नगर, चिताबद रोड, इंदौर, म.प्र.	OBC	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। देवी अहिल्या कालेज आफ पैरामे. साइसेस एण्ड एसो. हास्पिटल इंदौर। सॉर्टि. इन आपरेशन थियेटर टेक्नी. 12.4.2013	1200/-	7.2.1981 32 वर्ष	निरंक	24 दिसम्बर 2013
228	एससीएच-17/सॉर्टि/24387/13	रघु लाल गोलहानी/हुसमबद गोलहानी	बेदी नगर बदनपुर के पीछे शिव किराना स्टोर्स जबलपुर म.प्र.		म090 सह-चिकित्सीय परिषद। बंसल इंस्टी. ऑफ पैरामे. साइसेस। सॉर्टि. इन आपरेशन थियेटर टेक्नी. 12.4.2013	1200/-	10.06.1976 37 वर्ष	निरंक	24 दिसम्बर 2013
229	एससीएच-17/सॉर्टि/24388/13	चन्द्र प्रभा झारिया/श्री धनीराम झारिया	गांव कुंदम चांदनी चौक जिला जबलपुर म.प्र.।	SC	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। बंसल इंस्टी. ऑफ पैरामे. साइसेस। सॉर्टि. इन आपरेशन थियेटर टेक्नी. 12.4.2013	1200/-	14.06.1992 21 वर्ष	जबलपुर	24 दिसम्बर 2013
230	एससीएच-17/सॉर्टि/24389/13	प्रियका ओझा/जीवन लाल ओझा	नंद बैंग कालोनी टिकारिया मेन रोड इंदौर	OBC	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। श्री अरविन्दो इंस्टी. ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर। CERT. IN O.T. TECH. 29-8-2012	1700/-	23.9.1993 20वर्ष	इंदौर	24 दिसम्बर 2013
231	एससीएच-17/सॉर्टि/24390/13	मरत गुजर/रामरुप गुजर	33 कोशल्यापुरी नमावर रोड इंदौर	OBC	म090 सह-चिकित्सीय परिषद। श्री अरविन्दो इंस्टी. ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर। CERT. IN O.T. TECH. 29-8-2012	1700/-	4.2.1990 23वर्ष	इंदौर	24 दिसम्बर 2013
232	एससीएच-17/सॉर्टि/24391/13	श्री नितेश मण्डारी/श्री सुरेश सिंह मण्डारी	एसी रोड आलरी, तहसील टोकबुर्द, जिला देवास म.प्र.		म090 सह-चिकित्सीय परिषद। श्री अरविन्दो इंस्टी. ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर। CERT. IN O.T. TECH. 12-4-2013	1200/-	10.2.1994 20 वर्ष	देवास	24 दिसम्बर 2013

233	एससीएच-17/सॉर्ट/24392/13	सुनील बागवान/हरियान बागवान	200 संत मार्ग गांधी नगर इंदौर	obc	मध्य सह-चिकित्सीय परिषद। श्री अरविन्दो इस्टी. आफ मेडिकल साइंस इंदौर। CERT. IN O.T. TECH. 12-4-2013	1200/-	7.10.1993 20वर्ष	इंदौर	24 दिसम्बर 2013
234	एससीएच-17/सॉर्ट/24393/13	तरुण कानवा/गुलाब	392 गोविंद कालोनी किला रोड जिला-इंदौर म.प्र.	obc	मध्य सह-चिकित्सीय परिषद। श्री अरविन्दो इस्टी आफ मेडिकल साइंस सॉर्ट इन ओ.टी.टी। 29/8/2012	1700/-	06.11.1991 22वर्ष	इंदौर	24 दिसम्बर 2013
235	एससीएच-17/सॉर्ट/24394/13	राहुल राठोड/मुन्ना लाल राठोड	200 संत मार्ग गांधी नगर इंदौर	obc	मध्य सह-चिकित्सीय परिषद। श्री अरविन्दो इस्टी. आफ मेडिकल साइंस इंदौर। CERT. IN O.T. TECH. 12-4-2013	1200/-	6.4.1992 21वर्ष	इंदौर	24 दिसम्बर 2013
236	एससीएच-17/सॉर्ट/24395/13	अर्जुन धाकड/श्री अतर सिंह धाकड	160 निपाण्या धाकड, तह, गुलाना जिला शाजापुर म.प्र.।	OBC	मध्य सह-चिकित्सीय परिषद। श्री अरविन्दो इस्टी आफ मेडिकल साइंस सॉर्ट इन ओ.टी.टी। 29/8/2012	1800/-	02.02.1992 21 वर्ष	इंदौर	24 दिसम्बर 2013
237	एससीएच-17/सॉर्ट/24396/13	मावना श्रोत्रिय/अशोक श्रोत्रिय	14 नंदबाग कालोनी मेन रोड इंदौर	UR	मध्य सह-चिकित्सीय परिषद। श्री अरविन्दो इस्टी आफ मेडिकल साइंस सॉर्ट इन ओ.टी.टी। 29/2/2012	2300/-	7.10.1989 24वर्ष	इंदौर	24 दिसम्बर 2013
238	एससीएच-17/सॉर्ट/24397/13	रियाज शेख/हासिद शेख	241 एकजी रोड गौरसा तहसील सोनकच्छ देवास	OBC	मध्य सह-चिकित्सीय परिषद। श्री अरविन्दो इस्टी आफ मेडिकल साइंस सॉर्ट इन ओ.टी.टी। 29/2/2012	2400/-	1.1.1984 29वर्ष	निरक	24 दिसम्बर 2013
239	एससीएच-17/सॉर्ट/24398/13	अकिता पांडे/श्री संतोष पांडे	9/ए. नंदबाग कालोनी, टिकरिया रोड जिला इंदौर म.प्र.।	UR	मध्य सह-चिकित्सीय परिषद। श्री अरविन्दो इस्टी आफ मेडिकल साइंस सॉर्ट इन ओ.टी.टी। 29/8/2012	1700/-	12.08.1993 20 वर्ष	इंदौर	24 दिसम्बर 2013
240	एससीएच-17/सॉर्ट/24399/13	रूपेंद्र सिंह पवार/पार सिंह पवार	भुवानी सडक तवाडीपुरा सनावद गली नं 3 तेह.बड़वाह जिला-खरगोन म.प्र.	UR	मध्य सह-चिकित्सीय परिषद। श्री अरविन्दो इस्टी आफ मेडिकल साइंस सॉर्ट इन ओ.टी.टी। 29/2/2012	2400/-	30.01.1989 25वर्ष	खरगोन	24 दिसम्बर 2013
241	एससीएच-17/सॉर्ट/24400/13	आरिफ मंसूरी/श्री अली मोहम्मद खां	गांव देहरिया साहू, तहसील हाटपिपल्या जिला देवास म.प्र.।	OBC	मध्य सह-चिकित्सीय परिषद। श्री अरविन्दो इस्टी आफ मेडिकल साइंस सॉर्ट इन ओ.टी.टी। 12/4/2013	1200/-	15.06.1992 21 वर्ष	देवास	24 दिसम्बर 2013
242	एससीएच-17/सॉर्ट/24401/13	महेंद्र पवार/अमरलाल पवार	412 गोविंद कालोनी बागगा जिला-इंदौर म.प्र.	obc	मध्य सह-चिकित्सीय परिषद। श्री अरविन्दो इस्टी आफ मेडिकल साइंस सॉर्ट इन ओ.टी.टी। 29/8/2012	1800/-	14.04.1989 25वर्ष	इंदौर	24 दिसम्बर 2013
243	एससीएच-17/सॉर्ट/24402/13	दीपक लोहार/कमल लोहार	ग्राम पोस्ट देहरिया साहू, हाटपिपल्या देवास	OBC	मध्य सह-चिकित्सीय परिषद। श्री अरविन्दो इस्टी आफ मेडिकल साइंस सॉर्ट इन ओ.टी.टी। 12/4/2013	1200/-	1.9.1993 20वर्ष	देवास	24 दिसम्बर 2013

244	एससीएच-17/सर्टि/24403/13	एजाज कुरैशी/सईस मोहम्मद कुरैशी देवास	5 माइल रोड रजत कालोनी देवास	OBC	म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिषद। श्री अरबिदो इस्टी आफ मेडिकल साइंस सर्टि इन ओ.टी.टी। 12/4/2013	1200/-	17.6.1985 28 वर्ष	देवास	24 दिसम्बर 2013
245	एससीएच-17/सर्टि/24404/13	धर्मनंद गोठी/ब्रह्मानंद गोठी	17 ए शीतल नगर विजय इंदौर	OBC	म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिषद। श्री अरबिदो इस्टी आफ मेडिकल साइंस सर्टि इन ओ.टी.टी। 29/8/2012	1800/-	2.3.1989 24 वर्ष	इंदौर	24 दिसम्बर 2013
246	एससीएच-17/सर्टि/24405/13	महावीर शाह/श्री सुखदेव शाह	गांव नलवा पो. धाकलागांव, तहसील बडवाह जिला खरगोन म.प्र.।	OBC	म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिषद। श्री अरबिदो इस्टी आफ मेडिकल साइंस सर्टि इन ओ.टी.टी। 29/2/2012	2400/-	10.10.1990 23 वर्ष	इंदौर	24 दिसम्बर 2013
247	एससीएच-17/सर्टि/24406/13	रामेश्वर प्रसाद झारिया/श्री राम लाल झारिया	123 देवगांव कटगी, तहसील पाटन जिला जबलपुर म.प्र.।	SC	म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिषद। श्री अरबिदो इस्टी आफ मेडिकल साइंस सर्टि इन ओ.टी.टी। 29/2/2012	2400/-	03.05.1980 33 वर्ष	इंदौर	24 दिसम्बर 2013
248	एससीएच-17/सर्टि/24407/13	देवेन्द्र डोडे/श्री चंगा लाल डोडे	म.नं. 91, वार्ड नं. 7, मुख्य गली खम्मा के पास, नादखडामफी जिला खण्डवा म.प्र.।	OBC	म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिषद। श्री अरबिदो इस्टी आफ मेडिकल साइंस सर्टि इन ओ.टी.टी। 29/2/2012	2400/-	12.04.1991 23 वर्ष	इंदौर	24 दिसम्बर 2013
249	एससीएच-23/सर्टि/24408/13	जसवंत सिंह लोढा/नारायण लाल लोढा	जोगी मोहल्ला सुदाम कालोनी वार्ड नं. 8, गुना, म.प्र.		म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिषद। ओमकार कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज महावि.। आयु. कम्पा. 29.8.2012	1700/-	04.03.1982 31 वर्ष	गुना	24 दिसम्बर 2013
250	एससीएच-23/सर्टि/24408/13	श्री श्याम कुमार चौरे/ अरुण कुमार चौरे	ग्राम मैरा पो. खेरलारी तहसील केवलारी सिवनी म.प्र.		आयुर्वेद चिकित्सा प्र.संस्थान एवं अनुसंधान के. छिन्दवाडा। सचालनालय भार.विकि. प. एवं. होम्यो. भीपाल। आयु. कम्पा. 6.5.2002	2700/-	07.05.1981 32 वर्ष	निरंक	24 दिसम्बर 2013
251	एससीएच-23/सर्टि/24410/13	नरेश कुमार रजक/ गणपतलाल रजक	वार्ड नं. 4 कैथरा शाहपुर विठोनी जबलपुर, म.प्र.		म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिषद। सुभाष चंद्र बोस पैरामे. इस्टी. जबलपुर। आयु. कम्पा. 12.4.2013	1200/-	22.01.1979 34 वर्ष	जबलपुर	24 दिसम्बर 2013
252	एससीएच-23/सर्टि/24411/13	निखिल ताम्रकार/कोमल चंद्र	404 कोतवाली बाजार के पास बलदाउजी मंदिर जबलपुर म.प्र.		म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिषद। सुभाष चंद्र बोस पैरामे. इस्टी. जबलपुर। आयु. कम्पा. 12.4.2013	1200/-	30.10.1986 27 वर्ष	जबलपुर	24 दिसम्बर 2013
253	एससीएच-23/सर्टि/24412/13	मो0 शरीफ खान/शेर खान	47, राजेन्द्र नगर इन्द्रा स्कूल के पास, खरगोन म.प्र.		म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिषद। साईनाथ मेमोरियल पैरामे. कालेज। आयु. कम्पा. 18.3.2011	2700/-	21.07.1975 38 वर्ष	खरगोन	24 दिसम्बर 2013
254	एससीएच-23/सर्टि/24413/13	प्रेमलाल साकेत/रामदयाल साकेत	गांव पो. लानीकही तहसील अमरघाटन सतना म.प्र.		म0प्र0 सह-विकिस्तीय परिषद। छत्तपुर इस्टी. ऑफ पैरामे. साइंस छत्तपुर। आयु. कम्पा. 18.3.2011	2700/-	21.01.1991 22 वर्ष	सतना	24 दिसम्बर 2013

255	एससीएच-23/सर्पटि/24414/13	वर्षा भालराव/जगदीश चंद्र भालराव	114 ए नौलम नई सुगाव कालोनी राम कालोनी के पास खण्डवा म.प्र.		म030 सह-शिकित्सीय परिषद। श्री दावाजी कालेज आफ पैरामे. साइंस। आयु. कम्पा. 12.4.2013	1200/-	08.08.1966 47 वर्ष	खण्डवा	24 दिसम्बर 2013
256	एससीएच-01/डिप्री2/24415/13	दिव्या शर्मा/मोहन शर्मा	जेआर एनआईजी 117 सेक्टर ए एचबी कालोनी सतलापुर मण्डीदीप	UR	बरकतउल्ला विठ्ठल भोपाल। राजीव गांधी कालेज भोपाल। बीपीटी 11.5.2013	2200/-	26.10.1989 24वर्ष	निरक	24 दिसम्बर 2013
257	एससीएच-01/डिप्री2/24416/13	नवीन मोची/ओंकार लाल मोची	गाव पो. विजयाज मण्डी देवास, म.प्र.	sc	विक्रम विठ्ठल उज्जैन। इस्टी. आफ पैरामेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च आफ फिजियोथेरेपी। बीपीटी। 22.12.2012	2700/-	14.7.1986 26वर्ष	देवास	24 दिसम्बर 2013
258	एससीएच-01/डिप्री2/24417/13	कुमेश्वर सिंह देवडा/नागेन्द्र सिंह देवडा	बी 21/18 महानंदा नगर उज्जैन	UR	विक्रम विठ्ठल उज्जैन। इस्टी. आफ पैरामेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च आफ फिजियोथेरेपी। बीपीटी। 22.12.2012	2700/-	4.5.1989 24वर्ष	उज्जैन	24 दिसम्बर 2013
259	एससीएच-01/डिप्री2/24418/13	अखिलेश जोसफ/शैलेश जोसफ	16/1 दमदमा कोठी रोड उज्जैन	UR	विक्रम विठ्ठल उज्जैन। इस्टी. आफ पैरामेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च आफ फिजियोथेरेपी। बीपीटी। 22.12.2012	2700/-	24.8.1986 26वर्ष	उज्जैन	24 दिसम्बर 2013
260	एससीएच-01/डिप्री2/24419/13	दीपशिखा पाण्डेय/प्रदीप पाण्डेय	42/6 नामदारपुर गौतम मार्ग उज्जैन	UR	विक्रम विठ्ठल उज्जैन। इस्टी. आफ पैरामेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च आफ फिजियोथेरेपी। बीपीटी। 22.12.2012	2700/-	17.7.1987 26वर्ष	उज्जैन	24 दिसम्बर 2013
261	एससीएच-01/डिप्री2/24432/13	आयुषी सक्सेना/सुकेश सक्सेना	38 सर्व सम्पन्न नगर, इंदौर	UR	विक्रम विठ्ठल उज्जैन। इस्टी. आफ पैरामेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च आफ फिजियोथेरेपी। बीपीटी। 22.12.2012	2200/-	27.9.1988 25वर्ष	इंदौर	24 दिसम्बर 2013
262	एससीएच-01/डिप्री2/24433/13	सोमन तिवारी/ओमप्रकाश तिवारी	सी 14/9 महाकाल वाणिज्य केन्द्र, नानाखेडा, उज्जैन, म.प्र.	UR	विक्रम विठ्ठल उज्जैन। इस्टी. आफ पैरामेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च आफ फिजियोथेरेपी। बीपीटी। 22.12.2012	2200/-	18.6.1988 25वर्ष	निरक	24 दिसम्बर 2013
263	एससीएच-01/डिप्री2/24434/13	महेरूख खान/अनवर अहमद खान	ए-3/191 आदर्श नगर देवास रोड उज्जैन	UR	विक्रम विठ्ठल उज्जैन। इस्टी. आफ पैरामेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च आफ फिजियोथेरेपी। बीपीटी। 22.12.2012	2200/-	6.6.1990 23वर्ष	उज्जैन	24 दिसम्बर 2013

264	एससीएच-01/डिमी2/24435/13	पूजा अखण्ड/रमेश चंद्र अखण्ड	217 देसाई नगर उज्जैन	SC	विक्रम विठ्ठल उज्जैन। इस्टी. आफ पैरामेट्रिकल साइंसेस एण्ड रिसर्च आफ फिजियोलॉजी। बीपीटी। 25.5.2012	2700/-	20.7.1989 24वर्ष	उज्जैन	24 दिसम्बर 2013
265	एससीएच-01/डिमी2/24436/13	माधुरी लालावत/रमेश लालावत	147/11 देसाई मकसी रोड उज्जैन	SC	विक्रम विठ्ठल उज्जैन। इस्टी. आफ पैरामेट्रिकल साइंसेस एण्ड रिसर्च आफ फिजियोलॉजी। बीपीटी। 22.12.2012	2200/-	21.2.1989 24वर्ष	निरंक	24 दिसम्बर 2013
266	एससीएच-01/डिमी2/24437/13	अकिता कन्दरे/के. एन. कन्दरे	वार्ड नंबर 28 बीएसएन कालेज के पीछे, नवीन नगर शाजापुर	SC	देवी अहिल्या विठ्ठल इंदौर। एमजीएम मेडिकल कालेज इंदौर। बीपीटी 1.4.2013	2200/-	13.2.1989 24वर्ष	इंदौर	24 दिसम्बर 2013
267	एससीएच-01/डिमी2/24438/14	स्वाति बिडला/विलीप बिडला	ड्राय सुनील अमीर चंद पिकाल ई उड्डयु एस 128 नानाखेडा रविदास नगर उज्जैन	SC	देवी अहिल्या विठ्ठल इंदौर। एमजीएम मेडिकल कालेज इंदौर। बीपीटी 1.4.2013	2200/-	17.9.1987 26वर्ष	उज्जैन	24 दिसम्बर 2013
268	एससीएच-23/सॉर्टि/24439/13	मनोज कुमार जाटव/मदन लाल जाटव	39 ग्राम सुजानगढी तहजौरा जिला मुर्ना म.प्र.	SC	पी.एन.एस पैरामेट्रिकल संस्थान,सीहोर। म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद। आर्यु कम्पाउण्डर 118/3/2011	2700/-	14/9/1985 28 yrs	मुर्ना	24 दिसम्बर 2013
269	एससीएच-23/सॉर्टि/24440/13	सतीश कुमार/धनश्याम	ग्राम पो. बेवहारी तहसील घंसेर सिवनी म.प्र.		म030 सह-चिकित्सीय परिषद। शालाश्री इस्टी. आफ पैरामेट्रिकल साइंसेस जबलपुर। आर्यु कम्पा. 29.8.2012	1700/-	7.1.1992 21 वर्ष	सिवनी	24 दिसम्बर 2013
270	एससीएच-23/सॉर्टि/24441/13	संदीप शर्मा/सुभाष प्रसाद शर्मा	एम.एम कॉलेज राइट टाऊन जबलपुर म.प्र.	OBC	एम.एम कॉलेज आफ फिजियोलॉजी एण्ड पैरामेट्रिकल साइंसेस जबलपुर। म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद। आर्यु कम्पाउण्डर 112/4/2013	1200/-	3/4/1982 31 yrs	जबलपुर	24 दिसम्बर 2013
271	एससीएच-23/सॉर्टि/24442/13	वंदना पाटिल/नेहरु लाल पाटिल	एम.एम कॉलेज राइट टाऊन जबलपुर म.प्र.	SC	एम.एम कॉलेज आफ फिजियोलॉजी एण्ड पैरामेट्रिकल साइंसेस जबलपुर। म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद। आर्यु कम्पाउण्डर 112/7/2013	1200/-	25/12/1990 23 Yrs	जबलपुर	24 दिसम्बर 2013
272	एससीएच-23/सॉर्टि/24443/13	शशु शर्मा/रामहेल शर्मा	क्वार्टर 2 पालिका बाजार सिविल डिस्पेंसरी मुर्ना म.प्र.	OBC	जे.के.पाठक पैरामेट्रिकल इंस्टीट्यूट म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद। आर्यु कम्पाउण्डर। 29/2/2012	2400/-	31/10/1984 29 yrs	मुर्ना	24 दिसम्बर 2013

273	एससीएच-23/साई /24550/14	विमला सोपवानी/रामसिंह गुरेली	शासकीय आयु. अस्पताल डिंडोरी		dism	आयु. चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र छिन्दवाडा	AYURV EDIC COM.	05-06-02	2700/-	15-06-81	32y	डिंडोरी	06-01-14	भोपाल
274	एससीएच-27/डि. लो/24614/14	विशान मलिक/एम एच मलिक	नियर रेज अफिस मोहागाव मण्डला		रानी दुर्गावती विठ्ठि भोपाल।	एपीएन पैरामे. इंस्टी. आफ साइंस एण्ड रिसर्च सेंटर।	DMLT	22-07-10	2700/-	12-12-89	24	निरंक	06-01-14	भोपाल
275	एससीएच-29/डि. लो/24621/14	भूषण कुमार/कुंडलिक कुमार	जयश्री विला सवार नगर मेन कनाडिया रोड इंदौर		बरकतउल्ला विठ्ठि भोपाल।	जोएम्सी भोपाल।	DIP. IN OPHTH ALMIC ASS.	10-04-13	1700/-	11-04-90	26y	सोहर	07-01-14	भोपाल
276	एससीएच-34/साई /24663/14	रेखा मांजी/श्याम लाल मांजी	म.नं. 476, ग्राम देशाभ्यन तहसील टीमरखेडा कटनी		DISM	शास. महिला आयु. स्वा. कार्यकर्ता प्र.के. राज इंदौर	CMASK	19-3-2001	2700/-	26-1-1980	34	इंदौर	15/1/2014	भोपाल
277	एससीएच-27/डि. लो/24654/14	अरुणोदय कुमार प्रजापति/पंचम लाल प्रजापति	ग्राम पोस्ट हिनोती तहसील रामनगर सतना		एसएस मेडिकल कालेज शेवा	एसएस मेडिकल कालेज शेवा	DMLT	9-10-2013		1-2-1990	24	निरंक	15/1/2014	भोपाल
278	एससीएच-04ए/सा /24662/14	रविचंद्र महाजन/मायावत महाजन	एमआईजी 13, पार्ट 4, नई इंदिरा कालोनी जिला बुरहानपुर	OBC	मोड्रो सह-चिकित्सीय परिषद।	विकानंद इंस्टी. ऑफ पैरामे. साइंस बुरहानपुर	CMLT	18 march 2011	2700/-	5 dec 1976	38y	बुरहान पुर	15/1/2014	भोपाल
279	एससीएच-34/साई /24663/14	सुनीता सैनी/विनीता सैनी	प्रजा फर्नीचर माट मुख्य बाजार नया गांव एनकेजे कटनी		मोड्रो सह-चिकित्सीय परिषद।	बाइडोली कालेज कटनी	CMASK	29 feb 2012	2700/-	10 dec 1974	40y	कटनी	16/1/2014	भोपाल
280	एससीएच-04ए/सा /24664/14	ज्योति यादव/हरि मोहन यादव	42 धाने के पास बाडके पीछे विठुआ डबरा मालियर	OBC	मोड्रो सह-चिकित्सीय परिषद।	सन इंस्टी. ऑफ पैरामे. साइंस।	CMLT	12 apr 2013	1700/-	27 sep 1991	23y	मालिय र	16/1/2014	भोपाल
281	एससीएच-01/डि. /24668/14	बरुण मिश्रा/हरि शंकर मिश्रा	तिवारी भवन के पीछे, ताज प्रेडोल पप रंगल मार्केट शहीद नगर भोपाल	UR	बरकतउल्ला विठ्ठि भोपाल	मैत्री कालेज ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल।	BMLT	27 nov 2012	2700/-	5 jan 1985	29y	भोपाल	16/1/2014	भोपाल
282	एससीएच-05बी/1 डप्लो/24671/14	शिव कुमार सिंह/ बलभद्र यादव	सोनी वार्ड नं. 7 मीतिया कुवा रायसेन		बरकतउल्ला विठ्ठि भोपाल	जोएम्सी भोपाल।	DIP. IN X-RAY TECH.	28 march 2013	1700/-	2 june 1987	27y	निरंक	27/1/2014	भोपाल
283	एससीएच-04ए/सा /25107/14	रामगोपाल पटेल/लखन लाल पटेल	रोहन गिरि बगोचा ग्राम पोस्ट सतना धाना जिला सागर		मोड्रो सह-चिकित्सीय परिषद।	छतपुर पैरामे. कालेज छतपुर।	CMLT	29-2-2012	1700/-	3-5-1978	36y	सागर	4-4-2014	भोपाल
284	एससीएच-34/साई /25127/14	कु. कमलेश पाल/कैदार सिंह	ग्राम व पोस्ट देवरकला तहसील लहार जिला मिण्ड		DISM	शास. स्व. अद्यंग आयु. महावि. इंदौर।	CMASK	04-Dec-96	2700/-	01-Jan-77	37y	मिण्ड	4-4-2014	भोपाल

285	एससीएच-34 / सॉर्ट / 25167 / 14	मंजू भारती / बुधी लाल	शिवका मोहल्ला, मोक्षधाम रोड, वार्ड नं. 20 छिन्दवाड़ा	शिवका मोहल्ला, मोक्षधाम रोड, वार्ड नं. 20 छिन्दवाड़ा	DISM	शास. महिला आधु. स्वा. कार्य. प्र. के. राठ खिला इंदौर।	CMASK	31-Jul-06	2700/-	13-May-83	31y	निरक	25-4-2014	भोपाल
286	एससीएच-34 / सॉर्ट / 25169 / 14	छोटी बाई / दुर्गा प्रसाद	गांव साधपुरा तहसील इंदौरसी, होशंगाबाद म. प्र.	गांव साधपुरा तहसील इंदौरसी, होशंगाबाद म. प्र.	म०प्र० सह-विकिस्तीय परिषद	मुक्ता एकेडमी ऑफ मैनेज्मे. साइसेस होशंगाबाद	CMASK	3-8-2013	1700/-	14-7-1990	24	होशंगा बाद	25-04-14	भोपाल
287	एससीएच-32 / सॉर्ट / 25170 / 14	लक्ष्मी प्रसाद पाण्डेय / रामनिहोर पाण्डेय	317 सुंदर नगर मेन, सुखलिया, इंदौर म.प्र.	317 सुंदर नगर मेन, सुखलिया, इंदौर म.प्र.	म०प्र० सह-विकिस्तीय परिषद	महाकाल इस्टी. ऑफ मैनेज्मे. साइसेस	CERT. IN YOGA	12-04-13	1700/-	18-07-70	44	इंदौर	25-04-14	भोपाल
288	एससीएच-05बी / 1 / डब्लो / 25171 / 14	कल्पना दीवान / माखनलाल दीवान	झारू-माखनलाल दीवान, एलआईजी 50, पुनीत नगर, आधारताल, जबलपुर म.प्र.	झारू-माखनलाल दीवान, एलआईजी 50, पुनीत नगर, आधारताल, जबलपुर म.प्र.	रानी दुर्गावती विठ्ठल जबलपुर	स्वयं प्रभा इस्टी. ऑफ मैनेज्मे. जबलपुर	DIP. IN X-RAY	22-07-13	2200/-	30-06-73	40	निरक	25-04-14	भोपाल
289	एससीएच-34 / सॉर्ट / 25185 / 14	वर्षा बारिया / लाला बारिया	केशवबाग शरीनाली पारा झाबुआ	केशवबाग शरीनाली पारा झाबुआ	संचालनालय भारतीय विकित्सा प्रवृत्ति एवं होम्योपैथी म.प्र.।	त्रिमूर्ति महिला आर्युवेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र, खालियार।	CMASK	19-Jul-07	2700/-	30-Jun-81	33y	झाबुआ	29-4-2014	भोपाल
290	एससीएच-27 / डि. लो / 25188 / 14	सुमन राय / सतोष राय	गांव व गोस्ट तराई ब्लाक चंदेरी जिला अशोकनगर	गांव व गोस्ट तराई ब्लाक चंदेरी जिला अशोकनगर	जीवाजी विठ्ठल खालियार।	ओमकार कालेज ऑफ प्रो. स्टडीज गुना	DMLT	20-9-2011	2700/-	17-01-89	25	गुना	29-04-14	भोपाल
291	एससीएच-14 / सॉर्ट / 25201 / 14	रवीन्द्र सावुके / शिवाजी सावुके	183 रेडोमंड काम्लक्स इंदौर	183 रेडोमंड काम्लक्स इंदौर	म०प्र० सह-विकिस्तीय परिषद।	एमजीएम मेडिकल कालेज इंदौर।	CERT. IN ECG TECH.	12-4-2013	1200/-	05-04-89	25	इंदौर	29-04-14	भोपाल
292	एससीएच-14 / सॉर्ट / 25207 / 14	दीपक मरमट / राधाकिशन मरमट	14/24 नेताजी सुभाष मार्ग हाटपलिया देवास	14/24 नेताजी सुभाष मार्ग हाटपलिया देवास	म०प्र० सह-विकिस्तीय परिषद।	एमजीएम मेडिकल कालेज इंदौर।	CERT. IN ECG TECH.	12-04-13	1200/-	27-11-91	23y	इंदौर	29-04-14	भोपाल
293	एससीएच-08 / सॉर्ट / 25214 / 14	सविन दत्तविराग / रजित सिंह	कपेल जिला इंदौर 452020	कपेल जिला इंदौर 452020	मध्यप्रदेश सह-विकिस्तीय परिषद भोपाल	स्वशास्त्री महात्मा गंधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर	ORTHO Tech.	12-Apr-13	1200/-	07/06/1994	21	इंदौर	29-4-2014	भोपाल
294	एससीएच-04सी / सॉर्ट / 25224 / 14	विद्या डेवरिया / राजू डेवरिया	23/5 परसी मोहल्ला एलटीएच छावनी इंदौर	23/5 परसी मोहल्ला एलटीएच छावनी इंदौर	म०प्र० सह-विकिस्तीय परिषद।	एमजीएम मेडिकल कालेज इंदौर।	CERT. IN ANAES THESIA TECH.	12-Apr-13	1200/-	19-Mar-94	20	इंदौर	30-4-2014	भोपाल
295	एससीएच-05बी / सॉर्ट / 25225 / 14	रूपेश बोरनारे / नारायण बोरनारे	113/204 गोविन्द कालोनी श्री जी अकेडमी के सामने, निचर पेजजान कालोनी महेश गार्ड रोड इंदौर	113/204 गोविन्द कालोनी श्री जी अकेडमी के सामने, निचर पेजजान कालोनी महेश गार्ड रोड इंदौर	म०प्र० सह-विकिस्तीय परिषद।	एमजीएम मेडिकल कालेज इंदौर।	CERT. IN X-RAY TECH.	15-Oct-04	2700/-	11-Nov-85	29	इंदौर	30-4-2014	भोपाल

296	एससीएच-25226	आवेदक द्वारा नवीनीकरण के स्थान पर नवीन पंजीयन में एलाई कर दिया था इसलिए यह नंबर निरस्त किया जाता है।	शोलिका मालसे/राकेश मालसे	मुसाखेडी मरु नगर ए सेक्टर गली नं. 18 इंदौर		म090 सह-चिकित्सीय परिषद।	स्वाश्री महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर म.प्र.	CERT. IN X-RAY TECH.	12/4/2013	1200/-	18-Jun-89	25y	इंदौर	30-4-2014	मोपाल
297	एससीएच-05ती/स टि/ 25237/14		सतीश सोलंकी/मुकाम सिंह सोलंकी	3/2 नई राज मोहल्ला इंदौर		म090 सह-चिकित्सीय परिषद।	स्वाश्री महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर म.प्र.	CMLT	12-04-13	1200/-	15-Dec-88	26y	इंदौर	30-4-2014	मोपाल
298	एससीएच-04ए/सॉर्ट/ 25243/14		राजेश नाथ	त्रिपाठी महात्मा भाटपाचलान तहसील बडनगर, जिला उज्जैन		म090 सह-चिकित्सीय परिषद।	मेयो कालेज आफ मेडिकल साइंस, मोपाल	CERT. NATUR OPATH Y	29 aug 2012	1200/-	05-Jul-84	30y	निरंक	06-02-14	मोपाल
299	एससीएच-33/सॉर्ट/ 25316/14		राजेश नाथ	ग्राम बटौली, पोस्ट पणनिया जिला सीधी	obc	म090 सह-चिकित्सीय परिषद।	मेयो कालेज आफ मेडिकल साइंस, मोपाल	CERT. NATUR OPATH Y	12-04-13	1200/-	03-03-83	31y	निरंक	06-02-14	मोपाल
300	एससीएच-33/सॉर्ट/ 25316/14		राजेश कुमार खलक/ शिव प्रसाद खलक	ग्राम बटौली, पोस्ट पणनिया जिला सीधी	obc	म090 सह-चिकित्सीय परिषद।	मेयो कालेज आफ मेडिकल साइंस, मोपाल	CERT. NATUR OPATH Y	12-04-13	1200/-	03-03-83	31y	निरंक	06-02-14	मोपाल
301	एससीएच-01/डिग्र/ 2/ 25329/14		शशि वाला/अरुण कुमार	77-78 सुमन नगर, इंदौर 452001	SC	देवी अहिंसा सह-चिकित्सीय परिषद।	देवी अहिंसा कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस इंदौर	BPT	07-08-13	2200/-	23/09/1988	27	इंदौर	06-02-14	मोपाल
302	एससीएच-23/सॉर्ट/ 25342/14		हिरवती मन्जू जी सरय्या / मन्जूजी सरय्या	किन्नी रोड सौरर चिन्ववाडा	st	म090 सह-चिकित्सीय परिषद।	किंगेट इन्स्टी. आफ मेडिकल साइंसेस चिन्ववाडा।	AYU. CUM.	29-02-12	2700/-	13-11-76	38Y	चिन्ववाडा	06-05-14	मोपाल
303	एससीएच-34/सॉर्ट/ 25348/15		कु शशि प्रभा मरावी /लेवन सिंह मरावी	गांध घर बिसौरा पोस्ट अमगवां तहसील निवास जिला मण्डला	st	म090 सह-चिकित्सीय परिषद।	सेण्ट्रल इन्स्टी. ऑफ पैरामे. टेक्नालॉजी जबलपुर	CMASK	12-04-13	1700/-	06-10-88	26	जबलपुर	06-09-14	मोपाल
304	एससीएच-34/सॉर्ट/ 25466/14		रितु जायसवाल/टीकाम लाल जायसवाल	ग्राम पोस्ट अचलपुर तहसील पुष्प राजागढ जिला अरुणपुर	obc	मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद।	मेयो कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेस मोपाल	CMASK	29-02-12	2700/-	15-06-82	32y	मोपाल	06-11-14	मोपाल
305	एससीएच-27/डिग्रे/ 25775/14		शरीफ खान/ नूर अहमद	सर्वादेय कालोनी खडवा 450001	OBC	देवि अहिंसा विश्वविद्यालय इंदौर	अरिहन्त इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस इंदौर	DMLT	21/1/2013	1900/-	25/6/1986	30	इंदौर	20-08-2014	मोपाल
306	एससीएच-27/डिग्रे/ 25868/14		विजय कुमार यादव/सोहन लाल यादव	पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास, जाला जी बाई, महाराजपुर जिला मण्डला म.प्र.।	obc	राजी इगावती वि0वि0 जबलपुर	मण्डला इन्स्टी. आफ पैरामे. टेक्ना. मण्डला	DMLT	06/06/2013	1700/-	13/01/1975	30	निरंक	9-9-2014	मोपाल
307	एससीएच-34/सॉर्ट/ 25918/14		गीता उदके/राम चरण उदके	गांव रामपुरी पोस्ट मेघवठी, तहसील चांद जिला चिन्ववाडा	st	म090 सह-चिकित्सीय परिषद।	आर ए बी एल कॉलेज चिन्ववाडा	CMASK	30-01-14	1200/-	14-08-90	23	चिन्ववाडा	26-09-14	मोपाल

308	एससीएच-04ए/सॉर्ट/25939/14	सलोष कुमार बरमेया/महिपाल बरमेया	गांव भगोडी सतपुडा कावेण्ट स्कूल के पास, वार्ड नं. 12, तहसील परसिया जिला छिन्दवाडा	UR	म0प्र0 सह-शिकितीय परिषद	एल एन पैरामे. कालेज	CMLT	18-03-11	2700/-	22-11-85	29	छिन्दवा डा	16-10- 2014	मोपाल
309	एससीएच-05बी/सॉर्ट/25986/14	दयानंद मिश्रा/ओंकार दत्त मिश्रा	गांव कोतवाली परिसर सीहोर छिन्दवाडा	UR	म0प्र0 सह-शिकितीय परिषद	जवाहर लाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर मोपाल।	BACHE LOR OF X-RAY RADIO GRAPH AR TECH.	1-3-2010	-	19-12-1985	27y	निरंक	16-10- 2014	मोपाल
310	एससीएच-05ए/सॉर्ट/25991/14	दीपचंद डोगलिया/ कन्हैया लाल डोगलिया	गांव पोस्ट बडकुमद तहसील व जिला उज्जैन	SC	म0प्र0 सह-शिकितीय परिषद	इस्ती. ऑफ पैरामे. साइसेंस एण्ड कालेज ऑफ फिजियो. उज्जैन	CERT. IN CTMRI TECH.	7-10-2013	1200/-	1-1-1975	39	उज्जैन	16-10- 2014	मोपाल
311	एससीएच-01/डिग्र/2/26108/14	कीर्ति पाटीदार/महेश चंद्र पाटीदार	ब्लॉक डी फ्लैट नं. 405 शुभ लाभ वैली श्री मंगल नगर बंगाली स्ववायर के पास इंदौर 452018		देवी अहिल्या विठ्ठो इंदौर	एमजीएम मेडिकल कालेज इंदौर	BPT	07-01-14	2200/-	13-10-87	27	इंदौर	07-11-14	मोपाल
312	एससीएच-23/सॉर्ट/26218/14	सुरेन्द्र कुमार सोनी/श्यामजी सोनी	गांव नोहर पोस्ट काकनो जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश	OBC	म0प्र0 सह-शिकितीय परिषद	छतरपुर पैरामे. कालेज छतरपुर	CERT. IN AYU. COM.	12-08-13	1200/-	15-08-90	24	निरंक	20-11-14	मोपाल
313	एससीएच-34/सॉर्ट/26236/14	निर्मलादेवी मिश्रा / गया प्रसाद मिश्रा	कोनीया कला रीवा एम. पी.486223	UR	D.I.S.M.	शासकीय स्थायी अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय	CMASK	04-03-01	2700/-	12/7/1973	42	इंदौर	20-11- 2014	मोपाल
314	एससीएच-04ए/सॉर्ट/26245/14	प्रभु कुमावत/दशरथ कुमावत	गांव पोस्ट पिंगरला तहसील पिपलोवा रतलाम	obc	म0प्र0 सह-शिकितीय परिषद	मिर्कल पैरामेडिकल कालेज मन्सौर	CMLT	12-04-13	1200/-	8-5-1993	21y	निरंक	28-11- 2014	मोपाल
315	एससीएच-01/डिग्र/2/26305/14	मनीषा कन्नौज/पहाड सिंह कन्नौज	241 संजना पार्क विछोली मर्दाना इंदौर		देवी अहिल्या विठ्ठो इंदौर	एमएजीएम मेडिकल कालेज इंदौर	BPT	12-08-13	-	21-6-1988	26	इंदौर	04-12-14	मोपाल
316	एससीएच-01/पीज/2/26310/14	गीता प्रकाश लोखण्डे/प्रकाश बी लोखण्डे	103 राधिका अपार्टमेंट अम्बाडी रोड निपर मॉडिकपुर पुलिस स्टेशन शास्त्री नगर वसाई डब्ल्यू. वसाई महाराष्ट्र		बरकतखला विठ्ठो मोपाल	आयुजान कालेज मोपाल	MASTE R OF PHISIO THERA PY (ORTHO PAEDIC	05-11-11	5200/-	20-04-85	29	महाराष्ट्र	04-12-14	मोपाल

317	एससीएच-19/डि. लो/26345/14	अनिल कुमार जोशी/नर्मदा प्रसाद जोशी	इंडियनएस 188 सदा कॉलोनी राधागढ़ गुना मध्य प्रदेश	देवी अहिल्या विठ्ठो इचौर	इंदौर इंस्टी. ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर।	DIP. IN DIALYSIS TECH.	17-12-09	2700/ -	22-02-87	27	निरंक	12-12-14	भोपाल
318	एससीएच-04ए /डिप्लो/2634 7/14	यामलता कटरे/नारायण	वाड नं. 20 अलाय कनहार तहसील तालवरां जिला बालाघाट	obc	बालाघाट पैरामे. इंस्टी. बालाघाट	CML T	18-3-2011	2700/ -	4-7-1990	24	निरंक	12-12- 2014	भोपाल
319	एससीएच-34/सॉर्टि / 26358/14	कमला थापा/करण बहादुर	गांव सोडकला जिला श्यापुर, मध्य प्रदेश 478337	dism	महाकाल आयुर्वेद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र कोलारसर गिबपुरी	CMASK	15-04-95	2700 /-	11/01/1975	39	निरंक	12-12-14	भोपाल
320	एससीएच-27/डि- लो/25810/14	राहुल यादव/ अक्षया यादव	1045 यादव ट्रेडर्स कचनार सिटि रोड विजय नगर जबलपुर	obc	बालाश्री इंस्टी. ऑफ पैरामे. साइंस जबलपुर।	DMLT	6-6-2013	1700/ -	08-01-92	22	जबलपुर ₹	30-06-14	
321	एससीएच-32/सॉर्टि ./25820/14	धर्मनंद कुमार शर्मा/श्री देवी राम शर्मा	श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट जानकी कुंड, कमार संख्या 25, डी ब्लॉक चित्रकूट।	ur	महाकाल इंस्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंस।	Cert. in YOGA	04-12-13	1700/ -	05-10-79	35 year	शाजपुर ₹	30-6-2014	
322	एससीएच-36/डि- लो/26427/15	सुधा बस्तरवार/राजेश बस्तरवार	बेलपुरकर वाड रिपटापर कंदली नरसिंहपुर	sc	जे. व्ही. इंस्टी. ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी नरसिंहपुर	DIP IN PHARM ECY AYU.	31-7-2014	1700/ -	2-5-1979	36	नरसिंह पुर	7-1- 2015	भोपाल
323	एससीएच-27/डि- लो/26428/15	संध्या सिरमैया/धर्मनंद सिरमैया	एच नं. 2689 सुपाताल रामायण मंदिर के पास जबलपुर	sc	मेडिकल कालेज जबलपुर	DMLT	16-9-2014	1700/ -	1-7-1981	33	निरंक	7-1- 2015	भोपाल
324	एससीएच-23/सॉर्टि / 26444/15	अनीता ठाकुर/पंचम सिंह ठाकुर	हाउस नंबर 4723/7 एफ पंचमठा नगर, डी0 कुलदीप मिश्रा जवाहर नगर कालोनी अंधारताल जबलपुर	st	सेन्ट्रल इंस्टी. ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी जबलपुर	AYU. COM.	17-12-2013	1200/ -	29-3-1989	25y	जबलपुर ₹	7-1- 2015	भोपाल
325	एससीएच-27/डि- लो/26565/15	मुकेश वास्केल/जाम सिंह	गांव काललदा पोस्ट लुन्हेरा तहसील मनावर जिला धार	देवी अहिल्या विठ्ठो इचौर	चौधुराम कालेज ऑफ पैरामे. साइंस इंदौर	DMLT	22-3-2014		07-jun-1992	23	धार	20 JANUAR Y 2015	भोपाल
326	एससीएच-27/डि- लो/26595/15	जितेन्द्र कुमार/राम स्वरूप	गांव धाना नागपुर रोड पोस्ट हिलवाराघाट पुलिस स्टेशन बरगी तहसील व जिला जबलपुर	obc	सुभाष चंद्र बोस पैरामे. इंस्टी. जबलपुर	DMLT	26-6-2014	1700/ -	7-7-1993	21	निरंक	20 JANUAR Y 2015	भोपाल

327	एससीएच-27/डि लो/26596/15	राहुल प्रसाद शुक्ला/ मनमथन प्रसाद शुक्ला	मकान नं. 184 ग्राम देवरी पोस्ट ए एम ए थाना सिधपुर तहसील नागोद जिला सतना	ur	रानी दुर्गावती विठ्ठि जबलपुर	सुभाष चंद्र बोस पैराम, इस्टी. जबलपुर	DMLT	25-8-2014	1700/-	10-4-1990	24	निरंक	20 JANUAR Y 2015	भोपाल
328	एससीएच-23/डि लो/26649/15	पानसिंह/बीजनाथ सिंह	ग्राम पोस्ट हरिनापुर तिराहा तहसील मुरार खालियर	ur	जीवाजी विठ्ठि खालियर	केएस पैरामेडिकल कालेज खालियर	DIP.IN ALLOP ATHIC COM.	14-feb- 2011	-	10-mar-1978	37	खालियर	22 JANUAR Y 2015	भोपाल
329	एससीएच-29/डि लो/26651/15	रीता जैन/अमित कुमार जैन	अकम्य मेडिकल स्टोर, मैन बस स्टेशन ग्राम वाई गढकोटा जिला सागर	ur	रानी दुर्गावती विठ्ठि जबलपुर	मेडिकल कालेज जबलपुर	DIP.IN OPHTH ALMIC ASS.	03-07-14	1700/-	3-8-1987	27	निरंक	22 JANUAR Y 2015	भोपाल
330	एससीएच-23/सटि /26652/15	दीपक- चौरिया/होशियार चौरिया	चरणव पोस्ट उमहर तहसील व जिला छिन्दवाडा		मोडो सह-शिकितीय परिषद	बालाजी पैरामे. कालेज	AYU. COM.	10-07- 2014	-	22-6-1992	23	छिन्दवा डा	22 JANUAR Y 2015	भोपाल
331	एससीएच-27/डि लो/26664/15	देवराज किनोरहा/ चरण सिंह	185 राठौर मोहला ग्राम करेलीकवा तहसील गोटगाव जिला नरसिंहपुर		रानी दुर्गावती विठ्ठि जबलपुर	जबलपुर इस्टी. ऑफ पैरामे. टेक्ना. जबलपुर	DMLT	12-6-2012	2200/-	13-8-1987	27	निरंक	23 JANUAR Y 2015	भोपाल
332	एससीएच-05बी/स टि/26665/15	राजेन्द्र मीणा/मूलचंद मीणा शीघ्र एजीएन हेडु 1000/-का अंश दिया गया	गांव ककुखेडी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर	obc	मोडो सह-शिकितीय परिषद	एलबीएस कालेज ऑफ पैरामे. साइसेस भोपाल	CERT. IN X- RAY TECH.	12-4-2013	2600/-	1-1-1993	22	भोपाल	23 JANUAR Y 2015	भोपाल
333	एससीएच-27/डि लो/26794/15	सनील चौरसिया/महेन्द्र सिंह	कामले वाली गली वाई नं. 26 भवानीपुरा मिड	SC	जीवाजी विठ्ठि-खालियर	विवेकानंद इस्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंस	DMLT	16-12- 2012	1700/-	04-03-91	23 Year	निरंक	23 FEBRU ARY 2015	भोपाल
334	एससीएच-34/सटि /26795/15	सिया भदौरिया/विनाय सिंह भदौरिया	हाउस नं. 303 वाई नं 14 फतेहपुर रोड कृष्णपुरम कोलोनी खिचपुरी	UR	राजीव महिला आयुर्वेदाचार्यप्र शु	राजीव महिला आयुर्वेदाचार्यप्रशु	CMAS KP	28-7- 2000	2700/-	02-02-68	47 Year	खिचपुरी	23 FEBRU ARY 2015	भोपाल
335	एससीएच-23/सटि /26800/15	विपुल श्रीवास्तव/बल गोविंद श्रीवास्तव	पोस्ट जमसर कलां तह. बैरसिया भोपाल	ur	बकतखला विठ्ठि भोपाल।	राजीव गांधी कॉलेज भोपाल।	BMLT	29/02/201 2	2700/-	20/10/1978	37 Year	ललितपुर र सुपी	23 FEBRU ARY 2015	भोपाल

336	एससीएच-27/डि- लो/26905/15	शालिनी श्रीवास्तव/ विजय बहादुर श्रीवास्तव	14/81 केशव सहोदरा सदन निरंर रघु ऑफसेट नेहरू नगर रीवा	ur	अक्षय प्रताप सिंह विठ्ठिरी रीवा	चौरसिया पैरामे, इस्टी. रीवा	DMLT	9-10-2013	2200/-	18-2-1979	36	निरंक	23 FEBRU RY 2015	भोपाल
337	एससीएच-27/डि- लो/26906/15	प्राशंत तिवारी/अमृत लाल तिवारी	11/139 गोमती सवन सिलक नगर रीवा	ur	अक्षय प्रताप सिंह विठ्ठिरी रीवा	चौरसिया पैरामे, इस्टी. रीवा	DMLT	24-5-2014	1700/-	25-7-1987	27	निरंक	23 FEBRU RY 2015	भोपाल
338	एससीएच-34/सॉर्टि /26907/15	किरण पवार/अनिल	पोस्ट सिपावा तहसील मुतालाई जिला बैतूल	obc	DISM	शास. आयु. महिला स्वा. कार्य. प्र. के. कोलाएस शिवपुरी	CMASK	30-6-1998	2700/-	8-11-1977	37	शिवपुरी	23 FEBRU RY 2015	भोपाल
339	एससीएच-23/सॉर्टि /26918/15	सौरभ कुमार मुत्ता/श्री संतोष मुत्ता	गोबर गांव, पो. आम गांव बडा करेती जिला नरसिंहपुर म.प्र.।	ur	मोडो सह- विकिस्तीय परिषद।	जे.डी. इस्टी. ऑफ पैरामे. टेक्ना. नरसिंहपुर	AYU. COM.	17/12/2013	1200/-	27/10/1988	26	नरसिंह पुर	23 FEBRU RY 2015	भोपाल
340	एससीएच-27/डिप्र /1/26988/15	अमृत लाल कोल/ मुत्ता लाल कोल	ग्राम / पोस्ट बडेरी, तहसील बांधवगढ, जिला उमरिया	st	बखतउल्ला विठ्ठिरी भोपाल	आयुष्मान कालेज भोपाल	BMLT	24-7-2012	3700/-	3-1-1989	26	निरंक	12 MARCH 2015	भोपाल
341	एससीएच-34/सॉर्टि /26998/15	ज्योति काबरा/ शिव नारायण काबरा	10 बहादुर शाह मार्ग रामद्वारा देवास		मोडो सह- विकिस्तीय परिषद	शास. अद्याप आयु. महावि. इंदौर	CMASK	30-6-2008	2700/-	31-12-82	33	इंदौर	12 MARCH 2015	भोपाल
342	SCH-21/CERT/ 26900/2015	मनीष दहिया/रामबहोर दाहिया	गांव पोस्ट खरमजडा तहसील अन्नरपाटन जिला सतना		मोडो सह- विकिस्तीय परिषद	एसएस मेडिकल कालेज रीवा	CERT. IN HEALT. H INSPEC TOR	17-12-13	1200/-	1-7-1986	28	सतना	12 MARCH 2015	भोपाल
343	एससीएच-27/डि- लो/26901/15	अर्चना पटेल/ श्रीनिवास पटेल	जो 14 एस एस मेडिकल कालेज कैम्पस रीवा	obc	अक्षय प्रताप सिंह विठ्ठिरी रीवा	एसएस मेडिकल कालेज रीवा	DMLT	09-10-13	1700/-	05-07-83	31	निरंक	12 MARCH 2015	भोपाल
344	एससीएच-23/सॉर्टि /26902/15	सतीश रजक/ धर्मदास रजक	ग्राम पोस्ट पटना बुधुगं वार्ड नं. 13 तहसील रेहली सागर	obc	मोडो सह- विकिस्तीय परिषद	गुरुप्रिय इस्टी. ऑफ पैरामे. टेक्ना. सागर	AYU. COM.	17-12-13	1700/-	08-06-90	25	निरंक	12 MARCH 2015	भोपाल
345	एससीएच-04ए/सॉ र्टि/26903/15	विलाप कुमार गौर/ धनश्याम गौर	शाहीद अब्दुल हाकिम वार्ड गौर गली पोलीटेक्नीक रोड खुर्द सागर	obc	मोडो सह- विकिस्तीय परिषद	वैतन्य इस्टी. ऑफ पैरामे. साइसेस सागर	CMLT	17-12-13	1200/-	22-04-75	40	सागर	12 MARCH 2015	भोपाल
346	एससीएच-34/सॉर्टि /26904/15	संगीता सैनी/प्रेम नारायण सैनी	सैनी एसटीडी चौरा बाबा मंदिर के पास पतनगर वार्ड सागर	obc	मोडो सह- विकिस्तीय परिषद	वैतन्य इस्टी. ऑफ पैरामे. साइसेस सागर	CMASK	29-02-12	2500/-	26-12-90	24	सागर	12 MARCH 2015	भोपाल

347	एससीएच-34/सॉर्ट /26905/15	ज्योति सेन/जमुना सेन	हरिनारायण जैन/ मौलीजाल जैन	जैन मंदिर के पीछे, पतनगर ककागज बाई सागर	obc	मद्रप्रो सह- शिक्षित्सीय परिषद	शैतत्य इंस्टी. ऑफ पैरामे. साइंसेस सागर	CMASK	17-12-13	1200/-	09-09-89	25	सागर	12 MARCH 2015	मोपाल
348	एससीएच-23/सॉर्ट /26907/15	हरिनारायण जैन/ मौलीजाल जैन	बड़दुर्ग चौपाहा मेला रोड पुलिया के पास विदिशा	बड़दुर्ग चौपाहा मेला रोड पुलिया के पास विदिशा	ur	मद्रप्रो सह- शिक्षित्सीय परिषद	त्रिवेणी इंस्टी. ऑफ पैरामे. साइंसेस विदिशा	AYU COM.	29-02-12	2700/-	15-06-70	44	विदिशा	12 MARCH 2015	मोपाल
349	एससीएच-34/सॉर्ट /26908/15	श्वेता वर्मा/अचल वर्मा	पत्ति-राजेश सोनी रोड फाटक बजारिया रोड नियर हनुमान मंदिर विदिशा	पत्ति-राजेश सोनी रोड फाटक बजारिया रोड नियर हनुमान मंदिर विदिशा	obc	मद्रप्रो सह- शिक्षित्सीय परिषद	त्रिवेणी इंस्टी. ऑफ पैरामे. साइंसेस विदिशा	CMASK	17-12-13	1700/-	06-09-80	34	विदिशा	12 MARCH 2015	मोपाल
350	एससीएच-045/सॉर्ट /26912/15	दिलीप प्रजापत/पंढरी नाथ	कुरेशी देव चिकित्सा एण्ड पोली क्लीनिक बस स्थाप धर्मपुर जिला धार	कुरेशी देव चिकित्सा एण्ड पोली क्लीनिक बस स्थाप धर्मपुर जिला धार		मद्रप्रो सह-शिक्षित्सीय परिषद	संस्कार विद्यापीठ पैरामेडिकल इंस्टी. इंदौर	CMLT	12-apr- 2013		08-02-87	28	धार	12 MARCH 2015	मोपाल
351	एससीएच-05बी/सॉर्ट /26914/15	इरशाद खान/ वहीदुल्लाह खान	320/3 हाजी निजापुरदेन स्ट्रीट गली नं. 3 मदीना नगर इंदौर	320/3 हाजी निजापुरदेन स्ट्रीट गली नं. 3 मदीना नगर इंदौर	obc	मद्रप्रो सह-शिक्षित्सीय परिषद	इंदौर इंस्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस इंदौर	CTMRI	17-12-13	1700/-	01-07-75	39	निरक	12 MARCH 2015	मोपाल
352	एससीएच-01/डिप्ट /26915/15	रविन्द्र कोल्हे/प्रभाकर कोल्हे	बी 39 प्रसन्न हिलार नगर डूरे कालोनी छिन्दवाडा	बी 39 प्रसन्न हिलार नगर डूरे कालोनी छिन्दवाडा	obc	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर	इंदौर इंस्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस इंदौर	BPT	18-12-12	2700/-	20-06-89	26	निरक	12 MARCH 2015	मोपाल
353	एससीएच-01/डिप्ट /26916/15	रीमा शर्मा/स्वो श्री अरविंद शर्मा	38 मधुवन कालोनी नये दशहरा मैदान के पास पुलिस स्टेशन इंदौर	38 मधुवन कालोनी नये दशहरा मैदान के पास पुलिस स्टेशन इंदौर	ur	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर	इंदौर इंस्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस इंदौर	BPT	23-10-08	3700/-	17-04-84	31	इंदौर	12 MARCH 2015	मोपाल
354	एससीएच-01/डिप्ट /26918/15	श्री धर्मनंद कुमार ताम्रकार/राज कुमार ताम्रकार	स्वप्निल अपार्टमेंट फ्लैट नं. एफ 2 प्लॉट नं. 258-259 ई 8 त्रिवेणी मोपाल	स्वप्निल अपार्टमेंट फ्लैट नं. एफ 2 प्लॉट नं. 258-259 ई 8 त्रिवेणी मोपाल	obc	सरकतएल्लो विश्वविद्यालय मोपाल	राजीव गांधी कालेज मोपाल	MASTER OF PHYSIO THERA PY NEURO LOGY	29-01-10	4200/-	11-02-76	39	मोपाल	12 MARCH 2015	मोपाल

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 30 अप्रैल 2016

प्र. क्र. 01-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	उटीला	1578 0.03	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय	हरसी उच्चस्तरीय नहर की
			1579 0.02	नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला	उदयपुरा शाखा नहर के
			1580 0.010	ग्वालियर.	निर्माण हेतु.
			1581 0.05		
			1588 0.04		
			1589 0.01		
			1590 0.063		
			1592/1 0.029		
			1584/1 0.044		
			1546/2 0.07		
			योग . . . 1.113		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 43-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के

खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 12 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में.)	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	
ग्वालियर	ग्वालियर	हिमैयापुरा	75	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा 5 एल के निर्माण हेतु.
			0.05	नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला	
			77	ग्वालियर.	
			76		
			41		
			39		
			32/1		
			32/2		
			33		
			योग . .	0.83	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 7 मई 2016

प्र. क्र. 1-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ। चूंकि हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है। इसी परियोजना के नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	
टीकमगढ़	मोहनगढ़	नंदनपुर	1.887	भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 02-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. चूंकि हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
टीकमगढ़	मोहनगढ़	दरगायकला	3.627	भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. चूंकि हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
टीकमगढ़	मोहनगढ़	पड़वार	1.140	भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 10 मई 2016

क्र. 4910-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण		भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बंडोल.	ग्राम-थांवरी ब. न.-264 प.ह.नं.-37	रकबा 14.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.). पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 एवं माइनर 7-L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4914-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण		भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-1.	ग्राम-जमुनिया ब. न.-196 प.ह.नं.-118	रकबा 1.82 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.). पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर नहर क्रमांक 15-L के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एस. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 12 मई 2016

क्र. 167-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	मनकहरी	0.031	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सतना (म. प्र.).	योजना कार्य कोठी उदयसागर मनकहरी सड़क निर्माण हेतु,

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 168-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	रोयनी	0.179	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सतना (म. प्र.).	योजना कार्य कोठी उदयसागर मनकहरी सड़क निर्माण हेतु,

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 19 मई 2016

प्र. क्र. 02-अ-82-भू-अर्जन-2016-17-4394.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुरैना	जौरा	धमकन	निजी भूमि रकबा 26.82 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जौरा, जिला मुरैना म. प्र.	आसन बैराज योजना अंतर्गत बैराज का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जौरा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जौरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-भू-अर्जन-2016-17-4397.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुरैना	जौरा	घूघस	निजी भूमि रकबा 23.258 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जौरा, जिला मुरैना म. प्र.	आसन बैराज योजना अंतर्गत बैराज का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जौरा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जौरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-भू-अर्जन-2016-17-4396.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुरैना	जौरा	विरूंगा	निजी भूमि रकबा 9.63 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जौरा, जिला मुरैना म. प्र.	आसन बैराज योजना अंतर्गत बैराज का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जौरा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जौरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 28 अप्रैल 2016

प्र. क्र. 010-अ-82-वर्ष 2015-16.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पवई
(ग) ग्राम—नहीं पवई, प.ह.नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.040 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
5259	0.040	निजी भूमि
5258	0.010	निजी भूमि
5260	0.320	निजी भूमि
5272	0.050	निजी भूमि
5273	0.330	निजी भूमि
5274	0.040	निजी भूमि
5280	0.050	निजी भूमि
5270	0.010	निजी भूमि
5281/1	0.330	निजी भूमि
5282/1	0.105	निजी भूमि
5282/2	0.105	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
5286	0.350	निजी भूमि
5287	0.080	निजी भूमि
5288	0.050	निजी भूमि
745/1/क/2	0.110	निजी भूमि
5289/1	0.145	निजी भूमि
5289/2	0.145	निजी भूमि
5290/1	0.020	निजी भूमि
5290/2	0.020	निजी भूमि
5291	0.040	निजी भूमि
5292/1	0.210	निजी भूमि
5292/2	0.210	निजी भूमि
5293	0.040	निजी भूमि
5295	0.080	निजी भूमि
5296	0.030	निजी भूमि
743	0.030	निजी भूमि
742	0.520	निजी भूमि
5297	0.010	निजी भूमि
741	0.200	निजी भूमि
740/1/ख	0.162	निजी भूमि
740/2	0.178	निजी भूमि
739	0.020	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . . 4.040

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 2 मई 2016

प्र. क्र. 032-अ-82-वर्ष 2015-16.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन

में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—जमड़ा, प.ह.नं. 42
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.914 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
455	0.048	निजी भूमि
456	0.032	निजी भूमि
457	0.064	निजी भूमि
461	0.096	निजी भूमि
465	0.035	निजी भूमि
423	0.048	निजी भूमि
435	0.019	निजी भूमि
432	0.029	निजी भूमि
431	0.032	निजी भूमि
428	0.016	निजी भूमि
427/1	0.009	निजी भूमि
427/2	0.009	निजी भूमि
413	0.029	निजी भूमि
412/1	0.008	निजी भूमि
412/2	0.008	निजी भूमि
411/1	0.017	निजी भूमि
411/2	0.017	निजी भूमि
224	0.048	निजी भूमि
229	0.019	निजी भूमि
228	0.032	निजी भूमि
230	0.019	निजी भूमि
233	0.070	निजी भूमि
251	0.035	निजी भूमि
185	0.038	निजी भूमि
184	0.054	निजी भूमि
183	0.029	निजी भूमि
175	0.038	निजी भूमि
173	0.016	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	0.914	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जमड़ा तालाब योजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 045-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पवई
(ग) ग्राम—पिपरियादौन, प.ह.नं. 58
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.03 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
8/1	0.21	निजी भूमि
8/2	0.63	निजी भूमि
9	0.67	निजी भूमि
7	0.36	निजी भूमि
12	0.45	निजी भूमि
16	0.03	निजी भूमि
18	0.42	निजी भूमि
19	0.20	निजी भूमि
20	1.04	निजी भूमि
21	1.13	निजी भूमि
400	0.16	निजी भूमि
402	0.63	निजी भूमि
404	0.03	निजी भूमि

पन्ना, दिनांक 28 अप्रैल 2016

(1)	(2)	(3)
405	0.05	निजी भूमि
406	0.04	निजी भूमि
401	0.15	निजी भूमि
407/1	0.03	निजी भूमि
407/2	0.24	निजी भूमि
407/3	0.24	निजी भूमि
410	0.29	निजी भूमि
411	0.33	निजी भूमि
413/1	0.09	निजी भूमि
413/2	0.01	निजी भूमि
419	0.11	निजी भूमि
420/1	0.05	निजी भूमि
420/2	0.06	निजी भूमि
420/3	0.18	निजी भूमि
415	0.22	निजी भूमि
416	0.03	निजी भूमि
424	0.28	निजी भूमि
423	0.25	निजी भूमि
418	0.22	निजी भूमि
425	0.78	निजी भूमि
426	0.34	निजी भूमि
427	0.33	निजी भूमि
428	0.64	निजी भूमि
429	0.65	निजी भूमि
432	0.60	निजी भूमि
431/1	0.06	निजी भूमि
431/2	0.06	निजी भूमि
431/3	0.06	निजी भूमि
435	0.09	निजी भूमि
436	1.01	निजी भूमि
438	0.42	निजी भूमि
439	0.36	निजी भूमि
440/1	0.19	निजी भूमि
440/2	0.20	निजी भूमि
444	0.20	निजी भूमि
452	0.03	निजी भूमि
399	0.18	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि ... 15.03

प्र. क्र. 047-अ-82-वर्ष 2015-16.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
 (ख) तहसील—पवई
 (ग) ग्राम—बोदा, प.ह.नं. 65
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—9.56 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
58	0.98	निजी भूमि
40	0.62	निजी भूमि
38	0.26	निजी भूमि
39	0.61	निजी भूमि
37	1.45	निजी भूमि
33	0.20	निजी भूमि
32	0.15	निजी भूमि
64	0.69	निजी भूमि
20	0.16	निजी भूमि
21	0.24	निजी भूमि
22	0.49	निजी भूमि
68	0.40	निजी भूमि
67	0.22	निजी भूमि
66	0.11	निजी भूमि
65	0.05	निजी भूमि
62/1क	0.34	निजी भूमि
62/2	0.50	निजी भूमि
61	0.12	निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
59	0.69	निजी भूमि	26/3	0.02	निजी भूमि
25	0.60	निजी भूमि	27/1	0.08	निजी भूमि
26	0.30	निजी भूमि	27/2	0.03	निजी भूमि
19	0.02	निजी भूमि	28/1	0.86	निजी भूमि
81	0.04	निजी भूमि	29	1.05	निजी भूमि
35/1	0.02	निजी भूमि	30	0.50	निजी भूमि
35/2	0.30	निजी भूमि	46	0.60	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>9.56</u>		49	0.56	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु,			69	0.15	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.			70	0.20	निजी भूमि
पन्ना, दिनांक 2 मई 2016			71	0.27	निजी भूमि
प्र. क्र. 046-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—			73	0.10	निजी भूमि
अनुसूची			159	0.24	निजी भूमि
(1) भूमि का वर्णन—			160	0.29	निजी भूमि
(क) जिला—पन्ना			161	0.08	निजी भूमि
(ख) तहसील—पवई			169	0.17	निजी भूमि
(ग) ग्राम—घैरी, प.ह.नं. 58			168	0.12	निजी भूमि
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.550 हेक्टेयर.			163	0.11	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	167	0.33	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	166	0.21	निजी भूमि
26/1	0.03	निजी भूमि	164	0.11	निजी भूमि
26/2	0.03	निजी भूमि	182	0.06	निजी भूमि
			185	0.08	निजी भूमि
			186	0.04	निजी भूमि
			43	0.20	निजी भूमि
			225	0.68	निजी भूमि
			244	0.70	निजी भूमि
			241	0.39	निजी भूमि
			240	0.30	निजी भूमि
			242	0.46	निजी भूमि
			233	0.03	निजी भूमि
			238	0.50	निजी भूमि
			235	0.03	निजी भूमि
			236	0.13	निजी भूमि
			237	0.07	निजी भूमि
			268	0.42	निजी भूमि
			267	0.13	निजी भूमि
			266	0.08	निजी भूमि
			254	0.06	निजी भूमि
			253	0.04	निजी भूमि
			50	0.01	निजी भूमि
			कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>10.55</u>	
			(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.		

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 216-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—रैपुरा

(ग) ग्राम—इमलिया, प.ह.नं. 32

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.70 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
142	0.02	निजी भूमि
143	0.02	निजी भूमि
150	0.07	निजी भूमि
151	0.07	निजी भूमि
152	0.07	निजी भूमि
187/1	0.03	निजी भूमि
168/3	0.02	निजी भूमि
222/2	0.01	निजी भूमि
309/3	0.01	निजी भूमि
315/3	0.01	निजी भूमि
187/2	0.04	निजी भूमि
309/1	0.01	निजी भूमि
188/1	0.01	निजी भूमि
315/1	0.01	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
187/3	0.02	निजी भूमि
222/1	0.01	निजी भूमि
309/2	0.01	निजी भूमि
315/2	0.01	निजी भूमि
220	0.04	निजी भूमि
272	0.07	निजी भूमि
499/1	0.11	निजी भूमि
504	0.04	निजी भूमि
273	0.05	निजी भूमि
274	0.04	निजी भूमि
275	0.01	निजी भूमि
283	0.01	निजी भूमि
284	0.03	निजी भूमि
285	0.02	निजी भूमि
286	0.01	निजी भूमि
287	0.04	निजी भूमि
352	0.06	निजी भूमि
355	0.05	निजी भूमि
356	0.01	निजी भूमि
358	0.07	निजी भूमि
368	0.01	निजी भूमि
360	0.01	निजी भूमि
361	0.04	निजी भूमि
366	0.03	निजी भूमि
363	0.03	निजी भूमि
421	0.02	निजी भूमि
422	0.04	निजी भूमि
498	0.03	निजी भूमि
404	0.06	निजी भूमि
405	0.05	निजी भूमि
309/4	0.01	निजी भूमि
309/5	0.01	निजी भूमि
315/4	0.01	निजी भूमि
315/5	0.04	निजी भूमि
309/6	0.03	निजी भूमि
408/1	0.04	निजी भूमि
408/2	0.04	निजी भूमि
506/1	0.02	निजी भूमि
507/1	0.02	निजी भूमि
536	0.01	निजी भूमि
507/2	0.04	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	1.70	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पटपरा नाला तालाब योजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.	(1)	(2)	(3)
	488	0.02	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.	658	0.02	निजी भूमि
	489	0.01	निजी भूमि
	499	0.01	निजी भूमि
	490	0.01	निजी भूमि
प्र. क्र. 223-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—	496	0.03	निजी भूमि
	510	0.04	निजी भूमि
	512	0.02	निजी भूमि
	512	0.02	निजी भूमि
	651	0.07	निजी भूमि
	654	0.10	निजी भूमि
	657	0.04	निजी भूमि
	659	0.20	निजी भूमि
	684	0.01	निजी भूमि
	686	0.04	निजी भूमि
	683	0.03	निजी भूमि
	685	0.10	निजी भूमि
	694	0.08	निजी भूमि
	750	0.04	निजी भूमि
	739	0.08	निजी भूमि
	737	0.01	निजी भूमि
	734	0.01	निजी भूमि
	695/1	0.01	निजी भूमि
अनुसूची	742	0.04	निजी भूमि
(1) भूमि का वर्णन—	744	0.02	निजी भूमि
(क) जिला—पन्ना	745/2	0.09	निजी भूमि
(ख) तहसील—शाहनगर	726	0.01	निजी भूमि
(ग) ग्राम—पौसी, प.ह.नं. 08	1296	0.02	निजी भूमि
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.51 हेक्टेयर.	1299	0.05	निजी भूमि
	1300	0.03	निजी भूमि
	1301	0.06	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	
(1)	(2)	(3)	
357	0.04	निजी भूमि	803
358	0.03	निजी भूमि	824
393	0.06	निजी भूमि	825
400	0.04	निजी भूमि	826
401	0.03	निजी भूमि	827
411	0.11	निजी भूमि	828
459	0.02	निजी भूमि	830
460	0.03	निजी भूमि	832/1
461	0.01	निजी भूमि	883
465	0.07	निजी भूमि	886
466	0.01	निजी भूमि	898
497	0.03	निजी भूमि	897
467	0.03	निजी भूमि	918
			925
			943

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
962	0.22	निजी भूमि	513/1	0.05	निजी भूमि
978/1	0.07	निजी भूमि	510	0.01	निजी भूमि
978/2	0.06	निजी भूमि	513/3	0.02	निजी भूमि
979/1	0.02	निजी भूमि	557	0.01	निजी भूमि
979/2	0.02	निजी भूमि	543	0.01	निजी भूमि
979/3	0.02	निजी भूमि	554	0.02	निजी भूमि
979/4	0.02	निजी भूमि	557	0.04	निजी भूमि
814/2	0.30	निजी भूमि	3006	0.02	निजी भूमि
832/2	0.09	निजी भूमि	3007	0.03	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	3.51		3013	0.04	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पौसी तालाब योजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.			3014	0.03	निजी भूमि
(3) भूमिकानक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.			553	0.01	निजी भूमि
प्र. क्र. 224-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—			555	0.01	निजी भूमि
			457/1	0.09	निजी भूमि
			457/2	0.09	निजी भूमि
			431/2	0.02	निजी भूमि
			462	0.01	निजी भूमि
			479	0.15	निजी भूमि
			478	0.11	निजी भूमि
			480	0.02	निजी भूमि
			487	0.05	निजी भूमि
			488	0.06	निजी भूमि
			489	0.08	निजी भूमि
			463	0.05	निजी भूमि
			473	0.09	निजी भूमि
			475	0.01	निजी भूमि
			477	0.01	निजी भूमि
			464	0.03	निजी भूमि
			435	0.01	निजी भूमि
			495	0.05	निजी भूमि
			433	0.03	निजी भूमि
			496/1	0.03	निजी भूमि
			432	0.04	निजी भूमि
			496/2	0.01	निजी भूमि
			497	0.01	निजी भूमि
			429	0.07	निजी भूमि
			503	0.02	निजी भूमि
			428/1	0.05	निजी भूमि
			428/2	0.05	निजी भूमि
			507/1	0.03	निजी भूमि
			508/1	0.02	निजी भूमि
			507/2	0.02	निजी भूमि
			508/2	0.02	निजी भूमि
			3001	0.01	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार			
(1)	(2)	(3)			
509	0.08	निजी भूमि			
512/2	0.05	निजी भूमि			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3005	0.02	निजी भूमि	2271	0.05	निजी भूमि
556	0.04	निजी भूमि	2272	0.02	निजी भूमि
2810	0.01	निजी भूमि	2273	0.01	निजी भूमि
2800	0.07	निजी भूमि	2229	0.01	निजी भूमि
4274	0.01	निजी भूमि	2227	0.02	निजी भूमि
4275	0.03	निजी भूमि	2228	0.02	निजी भूमि
4276	0.01	निजी भूमि	2229	0.01	निजी भूमि
4280	0.03	निजी भूमि	2339	0.01	निजी भूमि
2801	0.07	निजी भूमि	2340	0.10	निजी भूमि
2802	0.05	निजी भूमि	2348	0.01	निजी भूमि
2806	0.01	निजी भूमि	2346	0.09	निजी भूमि
2807	0.03	निजी भूमि	2347	0.01	निजी भूमि
2808	0.04	निजी भूमि	2410	0.15	निजी भूमि
2809	0.05	निजी भूमि	2411	0.01	निजी भूमि
2818	0.10	निजी भूमि	2370	0.04	निजी भूमि
2820	0.07	निजी भूमि	2403	0.02	निजी भूमि
2821	0.11	निजी भूमि	2404	0.07	निजी भूमि
2791	0.01	निजी भूमि	3180	0.05	निजी भूमि
2819/1	0.03	निजी भूमि	2374/2	0.01	निजी भूमि
2819/2	0.03	निजी भूमि	2375	0.09	निजी भूमि
2792/2	0.02	निजी भूमि	1886	0.01	निजी भूमि
2822	0.02	निजी भूमि	1891	0.02	निजी भूमि
2823	0.07	निजी भूमि	1892	0.01	निजी भूमि
2824	0.07	निजी भूमि	2388	0.15	निजी भूमि
2790	0.01	निजी भूमि	2389	0.05	निजी भूमि
2230	0.01	निजी भूमि	2390	0.01	निजी भूमि
2231	0.03	निजी भूमि	2391/1	0.02	निजी भूमि
2232	0.04	निजी भूमि	883	0.01	निजी भूमि
2238	0.01	निजी भूमि	885	0.02	निजी भूमि
2239	0.01	निजी भूमि	1069	0.04	निजी भूमि
2243	0.04	निजी भूमि	2391/2	0.02	निजी भूमि
2244	0.01	निजी भूमि	2391/3	0.02	निजी भूमि
2245	0.01	निजी भूमि	2399	0.02	निजी भूमि
2792/1	0.03	निजी भूमि	2400	0.03	निजी भूमि
2247/1	0.04	निजी भूमि	2391/4	0.02	निजी भूमि
4277	0.02	निजी भूमि	2392/1	0.02	निजी भूमि
4278	0.03	निजी भूमि	2392/2	0.01	निजी भूमि
2247/2	0.04	निजी भूमि	2405	0.01	निजी भूमि
2247/3	0.03	निजी भूमि	2406	0.04	निजी भूमि
2248	0.02	निजी भूमि	2407	0.07	निजी भूमि
2249	0.04	निजी भूमि	2408	0.02	निजी भूमि
2264	0.04	निजी भूमि	2414	0.02	निजी भूमि
2270	0.02	निजी भूमि	2415	0.09	निजी भूमि
2265	0.08	निजी भूमि	2416	0.08	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2417	0.03	निजी भूमि	1251	0.05	निजी भूमि
2418	0.05	निजी भूमि	1252	0.03	निजी भूमि
2419	0.02	निजी भूमि	1254	0.06	निजी भूमि
1105	0.03	निजी भूमि	1255	0.04	निजी भूमि
1102	0.05	निजी भूमि	1256	0.03	निजी भूमि
2433	0.01	निजी भूमि	1257	0.01	निजी भूमि
877	0.01	निजी भूमि	1261/2	0.03	निजी भूमि
878	0.03	निजी भूमि	1253	0.07	निजी भूमि
879	0.08	निजी भूमि	1260	0.08	निजी भूमि
880	0.08	निजी भूमि	1259	0.01	निजी भूमि
881	0.02	निजी भूमि	1270	0.06	निजी भूमि
882	0.05	निजी भूमि	1261/1	0.02	निजी भूमि
1074	0.01	निजी भूमि	1262	0.01	निजी भूमि
886	0.18	निजी भूमि	1271	0.02	निजी भूमि
893	0.01	निजी भूमि	1272	0.01	निजी भूमि
894	0.08	निजी भूमि	1273	0.05	निजी भूमि
1065	0.11	निजी भूमि	1274	0.02	निजी भूमि
1068	0.01	निजी भूमि	1275	0.04	निजी भूमि
1062	0.03	निजी भूमि	1276	0.12	निजी भूमि
1063	0.03	निजी भूमि	1277	0.05	निजी भूमि
1064	0.04	निजी भूमि	513/2	0.02	निजी भूमि
2413	0.02	निजी भूमि	513/1	0.02	निजी भूमि
1103	0.04	निजी भूमि	3002	0.02	निजी भूमि
1098	0.05	निजी भूमि	3003	0.03	निजी भूमि
1092	0.01	निजी भूमि	3016	0.06	निजी भूमि
1101	0.02	निजी भूमि	3017	0.01	निजी भूमि
1099	0.04	निजी भूमि	3018	0.03	निजी भूमि
1075	0.09	निजी भूमि	3019	0.03	निजी भूमि
1076	0.03	निजी भूमि	3020	0.01	निजी भूमि
1187	0.04	निजी भूमि	3062	0.03	निजी भूमि
1188	0.03	निजी भूमि	3063	0.01	निजी भूमि
1190	0.02	निजी भूमि	3064	0.01	निजी भूमि
1189	0.07	निजी भूमि	3069	0.10	निजी भूमि
1194	0.04	निजी भूमि	3092	0.11	निजी भूमि
1195	0.06	निजी भूमि	3066	0.04	निजी भूमि
1196	0.02	निजी भूमि	3068	0.03	निजी भूमि
1200	0.02	निजी भूमि	3101	0.03	निजी भूमि
1208	0.05	निजी भूमि	3100	0.03	निजी भूमि
1209	0.04	निजी भूमि	3099	0.02	निजी भूमि
1211	0.04	निजी भूमि	3098	0.03	निजी भूमि
1216	0.02	निजी भूमि	3116	0.03	निजी भूमि
1217	0.03	निजी भूमि	3122	0.03	निजी भूमि
1226	0.04	निजी भूमि	3123	0.02	निजी भूमि
1218	0.02	निजी भूमि	3136	0.04	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3144	0.02	निजी भूमि	4180	0.02	निजी भूमि
3166	0.03	निजी भूमि	4182	0.04	निजी भूमि
3167	0.04	निजी भूमि	4191	0.06	निजी भूमि
3188	0.05	निजी भूमि	4184	0.02	निजी भूमि
3169	0.03	निजी भूमि	2185	0.01	निजी भूमि
3170	0.01	निजी भूमि	2186	0.03	निजी भूमि
3171	0.02	निजी भूमि	2187	0.01	निजी भूमि
3184	0.01	निजी भूमि	4189	0.04	निजी भूमि
3766	0.06	निजी भूमि	4190	0.02	निजी भूमि
3794	0.04	निजी भूमि	4263	0.01	निजी भूमि
3795	0.03	निजी भूमि	4569	0.03	निजी भूमि
3805	0.03	निजी भूमि	4624	0.03	निजी भूमि
3834	0.03	निजी भूमि	4625	0.03	निजी भूमि
3850	0.03	निजी भूमि	1106	0.02	निजी भूमि
3767	0.02	निजी भूमि	1107	0.02	निजी भूमि
3787	0.01	निजी भूमि	1108	0.02	निजी भूमि
3806/1	0.01	निजी भूमि	1109	0.02	निजी भूमि
3788	0.02	निजी भूमि	1116	0.02	निजी भूमि
3806/2	0.01	निजी भूमि	1117	0.02	निजी भूमि
3790	0.04	निजी भूमि	1118	0.02	निजी भूमि
3791	0.02	निजी भूमि	1119	0.01	निजी भूमि
3792	0.03	निजी भूमि	1121	0.02	निजी भूमि
3807	0.06	निजी भूमि	1122	0.02	निजी भूमि
3808	0.03	निजी भूमि	1123	0.01	निजी भूमि
3809	0.04	निजी भूमि	1142	0.01	निजी भूमि
2144	0.02	निजी भूमि	1141	0.05	निजी भूमि
4336	0.02	निजी भूमि	1143	0.03	निजी भूमि
4307	0.02	निजी भूमि	1144	0.02	निजी भूमि
2149	0.03	निजी भूमि	1145	0.02	निजी भूमि
2155	0.03	निजी भूमि	1159	0.02	निजी भूमि
2156	0.01	निजी भूमि	1158	0.03	निजी भूमि
2153	0.01	निजी भूमि	1160	0.03	निजी भूमि
2154	0.02	निजी भूमि	1161	0.02	निजी भूमि
2250	0.04	निजी भूमि	1176	0.02	निजी भूमि
2174	0.02	निजी भूमि	1177	0.01	निजी भूमि
2175	0.02	निजी भूमि	1731	0.02	निजी भूमि
2176	0.01	निजी भूमि	1877	0.01	निजी भूमि
2181	0.01	निजी भूमि	1878	0.02	निजी भूमि
2180	0.04	निजी भूमि	1879	0.04	निजी भूमि
2183	0.02	निजी भूमि	1900	0.04	निजी भूमि
2184	0.01	निजी भूमि	4376	0.01	निजी भूमि
4174	0.03	निजी भूमि	1901	0.01	निजी भूमि
4175	0.02	निजी भूमि	1902	0.01	निजी भूमि
4179	0.05	निजी भूमि	1903	0.03	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1904	0.02	निजी भूमि	2054	0.01	निजी भूमि
1911	0.02	निजी भूमि	2055	0.01	निजी भूमि
1912	0.03	निजी भूमि	2040	0.02	निजी भूमि
1913	0.01	निजी भूमि	2041	0.02	निजी भूमि
1914	0.02	निजी भूमि	2042	0.02	निजी भूमि
1915	0.02	निजी भूमि	2043	0.01	निजी भूमि
1916	0.01	निजी भूमि	2050/2	0.01	निजी भूमि
1917	0.03	निजी भूमि	2050/1	0.01	निजी भूमि
1921	0.03	निजी भूमि	4374	0.03	निजी भूमि
1920	0.01	निजी भूमि	4332/1	0.03	निजी भूमि
4373	0.02	निजी भूमि	4332/2	0.03	निजी भूमि
4375	0.02	निजी भूमि	4352	0.01	निजी भूमि
1722	0.01	निजी भूमि	4345	0.05	निजी भूमि
1724	0.01	निजी भूमि	4353	0.02	निजी भूमि
1725	0.01	निजी भूमि	4521	0.07	निजी भूमि
1726	0.02	निजी भूमि	4372	0.03	निजी भूमि
1727/1	0.01	निजी भूमि	4335	0.06	निजी भूमि
1737	0.01	निजी भूमि	4333	0.02	निजी भूमि
1738/1	0.01	निजी भूमि	4334	0.02	निजी भूमि
1728	0.02	निजी भूमि	4342	0.01	निजी भूमि
1732	0.02	निजी भूमि	4354	0.01	निजी भूमि
1734	0.01	निजी भूमि	2337	0.02	निजी भूमि
1733	0.01	निजी भूमि	4517	0.01	निजी भूमि
2412	0.04	निजी भूमि	4304	0.02	निजी भूमि
1749	0.01	निजी भूमि	4305	0.01	निजी भूमि
1750	0.02	निजी भूमि	4306	0.03	निजी भूमि
1751	0.02	निजी भूमि	4280	0.02	निजी भूमि
1761	0.02	निजी भूमि	4277	0.01	निजी भूमि
1762	0.01	निजी भूमि	4278	0.02	निजी भूमि
2063	0.01	निजी भूमि	4606	0.04	निजी भूमि
2064	0.01	निजी भूमि	4607	0.02	निजी भूमि
2065	0.01	निजी भूमि	4616	0.02	निजी भूमि
1757	0.01	निजी भूमि	4617	0.02	निजी भूमि
2067	0.03	निजी भूमि	4618	0.01	निजी भूमि
2068	0.04	निजी भूमि	4615	0.04	निजी भूमि
2069	0.04	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . .	12.08	
1763	0.02	निजी भूमि			
2059	0.01	निजी भूमि			
2060	0.03	निजी भूमि			
2061	0.01	निजी भूमि			
1893	0.02	निजी भूमि			
1894	0.02	निजी भूमि			
2038	0.01	निजी भूमि			
2051	0.01	निजी भूमि			
2052	0.01	निजी भूमि			
2053	0.01	निजी भूमि			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—उमेही नाला तालाब योजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश	(1)	(2)	(3)
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,	801	0.230	0.073
राजस्व विभाग	812	0.270	0.042
ग्वालियर, दिनांक 30 अप्रैल 2016	835	0.760	0.084
	838	1.070	0.052
प्र. क्र. 21-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को	836	1.000	0.158
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	517	0.020	0.005
(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित	518	0.150	0.052
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन	519	0.370	0.100
और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार	521	0.070	0.042
अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित	520	0.530	0.021
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए	522 मि-1	0.210	0.094
आवश्यकता है:—	522 मि-2	0.210	
अनुसूची	522 मि-3	0.220	
(1) भूमि का वर्णन—	522 मि-4	0.220	
(क) जिला—ग्वालियर	523	0.050	0.021
(ख) तहसील—ग्वालियर	524	0.070	0.062
(ग) ग्राम—रतवाई	475	1.100	0.110
(घ) क्षेत्रफल—11.412 हेक्टर.	474	0.150	0.052
	1015	0.450	0.062
	1033	0.070	0.042
हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु अर्जित की जा रही	1034	0.140	0.021
भूमि के सर्वे नम्बर एवं रकबा की सूची—ग्राम रतवाई	1035	0.180	0.052
	1037	0.270	0.062
सर्वे	1064	0.310	0.077
क्रमांक	1063	0.170	0.005
	1062	0.100	0.021
(1)	1067	0.280	0.062
705	1060	0.110	0.005
710	1068	0.080	0.062
707	1069	0.140	0.005
706	1059	0.070	0.011
723	1057	0.430	0.094
724	1056	0.080	0.031
725	1732	0.050	0.011
727	1722	0.110	0.011
790	1713	0.120	0.052
791	1714	0.150	0.031
789	1708	0.400	0.005
808	1715	0.070	0.021
807	1689	0.090	0.062
806	1688	0.260	0.042
798	1690	0.110	0.005
804	1681	0.080	0.005
805	1682	0.030	0.031

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1683	0.080	0.031		रतबाई 3 एल मायनर	
1684	0.070	0.031	354	0.070	00.02
1672	0.420	0.125	353	0.420	00.01
1660	0.350	0.062	357 मि-1	1.590	00.16
1661	0.040	0.031	357 मि-2	0.790	
1384	0.200	0.031	357 मि-3	0.790	
1385 मि-1	0.300	0.062	357 मि-4	0.790	
1385 मि-1	0.120		359 मि-1	0.170	00.01
1387	0.410	0.052	359 मि-2	0.120	
1377	0.260	0.095	360	0.180	00.01
1401	0.090	0.031	361	0.070	00.01
1376 मि-1	0.070	0.011	362	0.130	00.01
1376 मि-2	0.080		364	0.210	00.04
1402	0.310	0.062	363	0.160	00.05
1372	0.410	0.073	368	0.590	00.11
1405	0.140	0.011	298	1.400	00.09
1406	0.210	0.073	372	0.320	00.01
1407	0.180	0.052	374	0.460	00.08
1409	0.260	0.091	376	0.860	00.02
1408	0.210	0.011	435	1.030	00.17
1444	1.050	0.105	423	0.560	00.10
1445	0.470	0.105	424	0.480	00.02
1447	0.250	0.042	420	0.260	00.06
1459	0.290	0.052	422	0.080	00.01
1458	0.690	0.135	418	0.660	00.02
1456	0.030	0.011	411	0.330	00.05
1457	0.300	0.021	416	1.000	00.09
1454 मि-2	0.050	0.011	412	0.410	00.01
1465	0.670	0.125	414	0.630	00.07
1453	0.470	0.021	1252 मि-1	0.370	00.06
1468	0.780	0.042	1252 मि-2	0.370	
1360	0.110	0.042	1239	0.040	00.02
1357	0.710	0.062	1238	0.030	00.04
1361	0.900	0.105	1237	0.330	00.06
1344	0.100	0.005	1237 मि-1	0.080	00.06
1345 मि-1	1.080	0.178	1237 मि-2	0.140	
1345 मि-2	0.100		1234	0.070	00.01
1338	0.960	0.157	1265	0.330	00.09
1337	0.060	0.011	1266	0.260	00.07
1336	0.920	0.062	1267	0.210	00.03
1335 मि-1	0.100	0.021	1268	0.580	00.08
1335 मि-2	0.110		1222	1.770	00.23
			1220	3.140	00.07
		योग . . 5.062	1221	3.950	00.25

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1285	0.180	00.06	1955	0.930	00.09
1283	0.084	00.04	1954 मि-1	0.080	00.12
1289	0.310	00.01	1954 मि-2	0.530	
1288	0.100	00.01	1962	0.510	00.12
1295	0.840	00.03	1961	0.490	00.08
1294	1.050	00.10	1583	0.810	00.15
1293 मि-1	0.940	00.20	1605	1.480	00.24
1293 मि-2	0.930		1607	0.840	00.08
1291	0.830	00.06	1555	0.031	00.17
1304	0.379	00.08	1614	1.220	00.10
1305	0.220	00.03	1613	0.810	00.10
		योग . . 2.920	1616 मि-1	0.360	00.22
1 आर गायनर ग्राम रतबाई			1616 मि-2	0.490	
761/1	0.190	00.09	1615 मि-1	0.200	00.04
761/2	1.440		1615 मि-2	0.630	
762	0.200	00.04	1475	0.750	00.10
2424	0.310	00.04		योग	3.430
764	0.080	00.01		कुल योग	11.412
2422	0.290	00.06			
2423	0.360	00.10			
2427	0.480	00.02			
2428	0.050	00.01			
2429	0.610	00.07			
2430	0.470	00.06			
2432	0.360	00.05			
2433	0.660	00.05			
2434/1	1.520	00.11			
2434/2	0.420				
2442		00.04			
2441	0.370	00.05			
2440	0.370	00.03			
2349	0.700	00.04			
2317	2.410	00.09			
2315	0.510	00.02			
2318	1.250	00.16			
2304	1.070	00.06			
2302	3.420	00.15			
2278	0.490	00.01			
2279	1.180	00.04			
2300	0.100	00.01			
2299	0.520	00.10			
1945	1.000	00.11			
1944	2.280	00.08			
1946	2.600	00.12			

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 2 मई 2016

क्र. 1389-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—लूक चक नं. 1
(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.497 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

(1)	(2)
63	0.190
66	0.306
67	0.004
90	0.321
105	0.004
113	0.089
114	0.009
119	0.051
120	0.071
121	0.081
123	0.015
124	0.190
128	0.160
129	0.006
130	0.451
194	0.030
195	0.088
196	0.025
206	0.042
207	0.055
208	0.086
209	0.111
210	0.156
211	0.027
219	0.003
220	0.276
221	0.094
234	0.004
235	0.157
236	0.173
237	0.137
239	0.009
65	0.001
68	0.170
70	0.134
72	0.032
74	0.162
84	0.045
85	0.151
113	0.134
114	0.093
योग . .	<u>4.446</u>

ब. शासकीय भूमि

129	0.019
191	0.032
योग . .	अ + ब
योग . .	<u>4.497</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर बहाव योजना के महाना वितरक नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1391-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—जवा
 (ग) ग्राम—लूक चक नं. 5
 (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.197 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
 (हेक्टेयर में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

1	0.114
1/6	0.046
योग . .	<u>0.160</u>

ब. शासकीय भूमि

1/2 0.037

योग . . अ + ब

योग . . 0.197

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर बहाव योजना के महाना वितरक नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1393-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—पटेहरा
(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.941 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
	अ-निजी पट्टे की भूमि
655	0.027
649	0.114
650	0.063
651	0.080
734	0.057
738	0.100
742	0.150
743	0.015
744	0.028
745	0.145
747	0.135
	योग . . 0.941

ब. शासकीय भूमि

योग . . अ + ब

Nil Nil

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर बहाव योजना के महाना वितरक नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

संशोधित अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—इटमा पैपखार
(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.589 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
	अ-निजी पट्टे की भूमि
148	0.074
151	0.052
152	0.028
161	0.052
162	0.043
163	0.022
169	0.005
174	0.015
175	0.008
176	0.055
180	0.052
220	0.033
222	0.027
223	0.009
228	0.019
229	0.018
236	0.037
239	0.045
250	0.004
278	0.017
279	0.052
280	0.097
306	0.064
307	0.055
801	0.124
805	0.069
807	0.049
816	0.045

क्र. 1395-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक

(1)	(2)
817	0.043
818	0.190
834	0.078
835	0.073
836	0.067
837	0.056
925	0.025
926	0.076
929	0.058
936	0.027
381	0.010
658	0.175
660	0.050
661	0.035
667	0.042
668	0.026
669	0.020
670	0.012
677	0.008
679	0.050
695	0.029
696	0.010
697	0.050
698	0.072
700	0.094
722	0.012
727	0.015
योग . .	<u>2.573</u>

ब. शासकीय भूमि

930	0.016
योग . . अ + ब	<u>2.589</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्यौंथर बहाव योजना के महाना वितरक नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 10 मई 2016

पत्र क्र. 1437-प्रशा.-भू-अर्जन-गोविन्दगढ़.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—महाडांडी
(घ) क्षेत्रफल —0.033 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

175/2/क

0.033

ब. म. प्र. शासन की भूमि

निरंक

निरंक

अ + ब का योग . .

0.033

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला-रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1439-प्रशा.-भू-अर्जन-गोविन्दगढ़.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—पांती 370

(घ) क्षेत्रफल —0.495 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
----------	-------------------------------

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

950/1	0.338
914/2	0.120
1117	0.037

ब. म. प्र. शासन की भूमि

निरंक	निरंक
अ +ब का योग . .	<u>0.495</u>

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला-रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1441-प्रशा.-भू-अर्जन-गोविन्दगढ़.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—करौदी, प.ह. 8
(घ) क्षेत्रफल —0.100 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
----------	-------------------------------

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

939	0.100
-----	-------

ब. म. प्र. शासन की भूमि

निरंक	निरंक
अ +ब का योग . .	<u>0.100</u>

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला-रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1443-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) ग्राम—बीरखाम
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.522 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
----------	-------------------------------

(1) (2)

1958	0.260
1875	0.014
1886	0.248
योग . .	<u>0.522</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “कोठी टोला माइनर एवं सब-माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 10 मई 2016

क्र. 4907-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन—		353	0.01
(क)	जिला—सिवनी	354	0.01
(ख)	तहसील—सिवनी	355	0.01
(ग)	ग्राम—धनौरा खुर्द, प.ह.नं. 24	356	0.01
(घ)	लगभग क्षेत्रफल—1.21 हेक्टेयर.	357	0.01
अशासकीय भूमि का रकबा		358	0.01
खसरा नम्बर		359	0.01
अर्जित रकबा		360	0.01
(हेक्टेयर में)		361	0.01
(1)	(2)	362	0.01
162	0.57	363	0.01
159/10	0.04	कुल योग . . . 0.25	
159/9	0.23		
77/10	0.13		
81	0.07		
164/1	0.03		
163	0.14		
कुल योग . . . 1.21			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—अपर तिलवारा बायी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 4911-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—		(1)	(2)
(क)	जिला—सिवनी	1	0.19
(ख)	तहसील—सिवनी	2	0.10
(ग)	ग्राम—आमानाला, प.ह.नं. 32	5	0.20
(घ)	लगभग क्षेत्रफल—0.25 हेक्टेयर.	6/1	0.06

अशासकीय भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा	खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल
(1)	(2)	(1)	(2)
86	0.10	1	0.19
318/1ड	0.03	2	0.10
352	0.01	5	0.20
		6/1	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु जिसके लिए आवश्यक है—अपर तिलवारा बायी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 4912-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—		(1)	(2)
(क)	जिला—सिवनी	1	0.19
(ख)	तहसील—सिवनी	2	0.10
(ग)	नगर/ग्राम—कारीरात, ब. नं.-59, प.ह.नं.-125, रा.नि.म. सिवनी भाग-1.	5	0.20
(घ)	लगभग क्षेत्रफल—2.88 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.	6/1	0.06

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल
(1)	(2)
1	0.19
2	0.10
5	0.20
6/1	0.06

(1)	(2)
6/3	0.06
7	0.05
245	0.03
244/1	0.15
244/2	0.15
239	0.11
240	0.08
241	0.10
243/1	0.10
211	0.14
243/2	0.02
209	0.04
208	0.02
205	0.12
204	0.04
203	0.17
200/1	0.11
200/2	0.22
199	0.10
264	0.03
265/2	
265/1	0.05
261	0.01
260	0.04
259	0.07
258	0.15
255	0.10
254	0.07

योग (अ) . . . 2.88

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

0.00	0.00
योग-(ब) . . .	0.00
योग-(अ)+(ब)	2.88

- (2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 17-L, 18-L माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni, nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व

विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 5 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के सक्षम प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4913-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) ग्राम—आमानाला, प.ह.नं.-32,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.54 हेक्टेयर.

अशासकीय भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
318/1ग	0.11
318/3	0.14
319/2	0.24
327	0.22
329	0.42
339/1	0.20
330/1	0.02
335/1	0.11
343/1	0.08
कुल योग . . .	1.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—अपर तिलवारा बायी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 4915-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—सुकरी, ब.नं.-583, प.ह.न.-119, रा.नि.म. सिवनी भाग-1.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.78 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
388	0.13
382	0.20
380	0.02
379	0.11
376/2	0.09
378/1	0.02
378/3	0.07
399/2	0.07
399/1	0.12
396	0.01
398/1, 398/2	0.15
400	0.11
404	0.10
405	0.10
410/5	0.04
410/1	0.07
410/2	0.12
योग-(अ)	1.53

(1) (2)

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

389	0.11
383	0.11
356	0.02
348	0.01
योग-(ब)	0.25
योग-(अ) + (ब)	1.78

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 8-L, माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्रि पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के सक्षम प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 2 मई 2016

क्र. C-1656-दो-2-22-2013.—श्री एच. एन. वाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 31 मार्च 2016 से 7 अप्रैल 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में 8, 9 एवं 10 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एच. एन. वाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. वाजपेयी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1661-दो-2-109-2006.—श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 20 से 23 अप्रैल 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में 19 अप्रैल 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1663-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 11 से 13 अप्रैल 2016

तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1665-दो-2-11-2014.—श्री व्ही. एल. झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 25 से 30 अप्रैल 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 अप्रैल 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एल. झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. एल. झा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 11 मई 2016

क्र. A-1510-दो-3-420-80-भाग बारह.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, अनिवार्य सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को उनके अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिनांक 27 फरवरी 2016 को उनके अवकाश लेख में संचित अवकाश 169 दिवस (एक सौ उन्हत्तर दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक),

दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है :-

गणना-पत्रक

1. श्रीमती कुमुदबाला बरणा, : 28-9-1981
अनिवार्य सेवानिवृत्त प्रधान
न्यायाधीश (जिला एवं सत्र
न्यायाधीश), कुटुम्ब न्यायालय,
भोपाल का नियुक्ति दिनांक.
2. अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिनांक : 27-2-2016
3. नियुक्ति दिनांक 28-9-1981 : 05 वर्ष, 05 माह,
से दिनांक 09-03-1987 11 दिन.
तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से : 28 वर्ष, 11 माह,
सेवानिवृत्ति दिनांक तक 17 दिन.
कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित : 5 × 15 = 75 दिन
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 15 दिन
की दर से).
6. कालम (4) में अंकित : 28=14×15=210 दिन
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 292 दिन
समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:-सेवा के दौरान : 103
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 189 दिन
अवकाश समर्पण की पात्रता.

(अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिनांक 27 फरवरी 2016 को शेष अर्जित अवकाश 169 दिन).

क्र. B-2366-दो-3-130-2009.—श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी / एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 18 जनवरी 2016 से 2 अप्रैल 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छिहत्तर दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी / एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी / एडीशनल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 12 मई 2016

क्र. B-2396-दो-2-14-2012.—श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 20 से 23 अप्रैल 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 अप्रैल 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे. खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-2399-दो-2-14-2013.—श्री वी. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 5 से 9 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके, पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री वी. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वी. के. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2403-दो-2-17-2012.—श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 30 मार्च 2016 का एक दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही. कौर, उपरोक्तानुसार

जबलपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2016

क्र. 488-Confdl.-2016-दो-2-21-63.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (चयन ग्रेड) को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक से, स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित रिक्त पदों पर सुपर समय वेतनमान (Super Time Scale) रुपये 70290-1540-76450/- में नियुक्त करता है :—

सारणी

क्र.	नाम तथा पदनाम	सुपर समय वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री राधा किशन गुप्ता, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.	01-02-2015	रिक्त पद पर.
2.	डॉ. मोहम्मद शमीम, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर.	01-02-2015	श्री राधा किशन गुप्ता, सुपर समय वेतनमान धारक के तत्समय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.
3.	श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.	12-02-2015	रिक्त पद पर.

अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्र. 481-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016-(भाग-बी)—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री सुनील कुमार जैन (सीनियर), तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर	अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-10, विद्युत अधिनियम, 2003, सागर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)
4	श्री राजीव कृष्ण जोशी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.	06-04-2015	रिक्त पद पर.
5	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, (सीनियर), जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी.	01-05-2015	रिक्त पद पर.
6	कुमारी मीना सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया.	01-06-2015	रिक्त पद पर.
7	श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी.	01-06-2015	कुमारी मीना सिंह, सुपर समय वेतनमान धारक के तत्समय Ex-cadre पद पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.
8	श्रीमती सरिता सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास.	01-06-2015	श्रीमती राधा सोनकर, सुपर समय वेतनमान धारक के तत्समय Ex-cadre पद पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.
9	श्री मोहम्मद यूसुफ मंसूरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर.	01-06-2015	रिक्त पद पर.
10	श्री श्याम सुन्दर गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड.	01-06-2015	रिक्त पद पर.
11	श्री विनोद भारद्वाज, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.	01-07-2015	रिक्त पद पर.
12	श्री शिव मंगल सिंह, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.	01-07-2015	श्री विनोद भारद्वाज, सुपर समय वेतनमान धारक के तत्समय Ex-cadre पद पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.
13	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, (सीनियर), जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर.	21-09-2015	डॉ. मोहम्मद शमीम, सुपर समय वेतनमान धारक के तत्समय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.
14	श्री राजेश गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच.	01-10-2015	श्री शिव मंगल सिंह, सुपर समय वेतनमान धारक के दिनांक 30-09-2015 को सेवानिवृत्त होने से हुए रिक्त पद पर.
15	श्री शैलेन्द्र शुक्ला, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	01-11-2015	श्री राधा किशन गुप्ता, सुपर समय वेतनमान धारक के दिनांक 31-10-2015 को सेवानिवृत्त होने से हुए रिक्त पद पर.
16	श्री गौरी शंकर दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर.	01-11-2015	श्री शैलेन्द्र शुक्ला, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.

(1)	(2)	(3)	(4)
17	श्री अनिल वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर.	01-12-2015	रिक्त पद पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 23rd April 2016

No. C-1547-III-6-5-14.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions, the High Court of Madhya Pradesh hereby designates Additional Sessions Judges, named in the Column No. (3) of the following table for the places specified in the corresponding entry in column No. (2) thereof for trial of offences relating to VYAPAM scam matters and matters linked thereto, investigated by the Central Bureau of Investigation, Delhi and Special Task Force, Bhopal, in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of designation Judges for the places specified in Column No. (2) of the following table :—

TABLE

S.No. (1)	Places (2)	Name of the Additional Sessions Judges (3)
1	Jabalpur	Shri Sikandar Singh Parmar, IX ASJ
2	Guna	Shri Pramod Kumar Agrawal, I ASJ
3	Bhopal	Smt. Anuradha Shukla, XVI ASJ
4	Bhind	Shri Yogesh Kumar Gupta, I ASJ
5	Chhatarpur	Shri Bharat Bhushan Shrivastava, Special Judge under SC/ST (POA) Act.

जबलपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्र. B-200-तीन-6-4-81 भाग-पांच.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, एतद्द्वारा, अपनी अधिसूचना क्रमांक सी/1424, दिनांक 20 अप्रैल 2016 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक (1) तथा उससे संबंधित स्तम्भ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें :—

अनुसूची

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में (2)	क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई (3)	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम (4)
2	श्री कुलदीप जैन, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड.	राजस्व जिला भिण्ड की तहसील भिण्ड, तहसील रौन एवं तहसील मिहोना की क्षेत्रीय अधिकारिता.	विशेष न्यायालय, क्रमांक-1, भिण्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
2-क	श्री पी. सी. आर्य, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गोहद, भिण्ड.	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गोहद का न्यायालय.	विशेष न्यायालय, गोहद, भिण्ड.
2-ख	श्री पवन कुमार शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लहार, भिण्ड.	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लहार का न्यायालय	विशेष न्यायालय, लहार, भिण्ड.
2-ग	श्री उमेश पांडव, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड.	राजस्व जिला भिण्ड की तहसील अटेर, तहसील गोरमी एवं तहसील मेहगांव की क्षेत्रीय अधिकारिता.	विशेष न्यायालय, क्रमांक-2, भिण्ड.

No. B-200-III-6-4-81 Pt.-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (Act No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. C-1424-III-6-4-81 Pt.-VII, dated 20th April 2016, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1) for the Existing entries in Column No. (2), the following entries shall be substituted :—

SCHEDULE

S.No.	Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government.
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Shri Kuldeep Jain, IInd ASJ, Bhind.	Areas of Tehsil Bhind, Tehsil Raun & Tehsil Mihona of Revenue District Bhind.	Special Court No.-1, Bhind.
2-A	Shri P. C. Arya, IInd ASJ, Gohad, Bhind.	Territorial jurisdiction of Gohad	Special Court Gohad, Bhind.
2-B	Shri Pawan Kumar Sharma, ASJ, Lahar, Bhind.	Territorial jurisdiction of Lahar	Special Court Lahar, Bhind.
2-C	Shri Umesh Pandav, IVth ASJ, Bhind.	Areas of Tehsil Ater, Tehsil Gormi and Tehsil Mehgaon of Revenue District Bhind.	Special Court No.-2, Bhind.

जबलपुर, दिनांक 2 मई 2016

क्र. सी-1670-तीन-6-2-2016.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शित है, को उक्त संहिता की

धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेपतः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है :-

सारणी

क्र.	न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	पदस्थापना का स्थान	राजस्व जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री राजेश कुमार तिवारी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	मउगंज	रीवा
2	श्री वरुण चौहान, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	रीवा	रीवा
3	श्री पार्थ शंकर मिश्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	शाजापुर	शाजापुर
4	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	भिण्ड	भिण्ड
5	श्री पुष्पक पाठक, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	मउगंज	रीवा
6	श्री राजकुमार गौड़, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	त्योंथर	रीवा
7	श्री संजय कुमार भलावी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	झाबुआ	झाबुआ
8	श्री शरद कुमार लटोरिया, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	करेरा	शिवपुरी
9	श्री संकषण प्रसाद पाण्डे, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	भिण्ड	भिण्ड
10	श्रीमती अर्चना नायडू बोडे, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	बुडार	शहडोल
11	श्री अमित नगायच, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	जयसिंहनगर	शहडोल
12	श्रीमती तृप्ति पांडे, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	भिण्ड	भिण्ड
13	श्री हरीश वानवंशी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	गढ़ाकोटा	सागर
14	श्रीमती सुनीता तारम, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	लखनादौन	सिवनी
15	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	सागर	सागर
16	श्रीमती नीलिमा देवदत्त, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	झाबुआ	झाबुआ
17	श्री समीर कुमार मिश्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	सागर	सागर
18	श्री पीयूष भावे, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	बीना	सागर
19	श्री सुनील अहिरवार, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	कन्नौद	देवास
20	श्रीमती स्वप्नश्री सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	मण्डला	मण्डला

(1)	(2)	(3)	(4)
21	श्री दीपराज कावड़े, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	कोतमा	अनूपपुर
22	श्रीमती ज्योति राजपूत, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	देवसर	सिंगरौली
23	कु. स्नेहा सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	दमोह	दमोह
24	श्रीमती वीना खालखो, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	महीदपुर	उज्जैन
25	श्री भूपेश कुमार मिश्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	ग्वालियर	ग्वालियर
26	श्री वरुण कुमार शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	दमोह	दमोह
27	कु. हर्षिणी यादव, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	सतना	सतना
28	श्री अजय सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	रामपुर बघेलान	सतना
29	श्री ब्रजेश सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	रामपुर बघेलान	सतना
30	श्री राघवेन्द्र पटेल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	नागौद	सतना

Jabalpur, the 4th May 2016

No. A-1460-III-6-5-14.—In the notification issued by the High Court No. C/1547, dated, 23rd April 2016 in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions, in respect of designating Additional Sessions Judges, named in the Column No. (3) of the following table for the places specified in the corresponding entry in Column No. (2) thereof for trial offences relating to VYAPAM scam matters and matters linked thereto, investigated by the Central Bureau of Investigation, Delhi and Special Task Force, Bhopal, in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of designating Judges for the places specified in Column No. (2) of the following table, the Courts, which the designated officers would be succeeding to are specified in Column No. (4) :—

TABLE

S.No.	Places	Name of the designated Additional Sessions Judges	In Place of
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jabalpur	Shri Sikandar Singh Parmar, IX ASJ	Shri Suneel Kumar Jain, IX ASJ
2	Guna	Shri Pramod Kumar Agrawal, I ASJ	Shri P. C. Gupta, IV ASJ
3	Bhopal	Smt. Anuradha Shukla, XVI ASJ	Shri B. S. Bhadoriya, XVI ASJ
4	Bhind	Shri Yogesh Kumar Gupta, I ASJ	Shri Deepak Kumar Agrawal, Special Judge under SC/ST (POA) Act.
5	Chhatarpur	Shri Bharat Bhushan Shrivastava, Special Judge under SC/ST (POA) Act.	Shri Ram Gopal Singh, III ASJ.

क्र. A-1462-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री अजय कुमार सिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त सेंधवा में प्रत्येक माह में 15 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे।

No. A-1462-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Ajay Kumar Singh, I. ADJ, Badwani shall also hold sitting at Sendhwa in addition to his place of sitting for the period of 15 days for holding Link Court.

क्र. C-1737-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित न्यायिक अधिकारीगण अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे।

No. C-1737-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Judicial Officers named in the column no. (3) of the following table shall also hold sitting at places mentioned in the column no. (2) of the table in addition to his place of sitting for the period mentioned in the column no. (4) for holding Link Court:—

TABLE

S. No.	Places where Link Courts is to be held	Name of the Officer and designation	No. of Days for the Link Court
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Karera	Shri Devendra Pal Singh Gaur, II ADJ, Shivpuri	15 days
2.	Mahidpur	Shri Leeladhar Solanki, II ADJ, Ujjain	15 days
3.	Pipariya	Shri Kripashankar Shakya, I ADJ, Sohagpur	15 days
4.	Bhikangaon	Shri Natthu Singh Dabar, IV ADJ, Khargone	15 days
5.	Maihar	Shri Satish Chandra Rai, II ADJ, Satna	15 days
6.	Niwas	Shri Deepak Gupta, I ADJ, Mandla	1 week
7.	Laundi	Shri Bharat Singh Rawat, II ADJ, Chhatarpur	1 week

क्र. C-1739-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री वरुण कुमार शर्मा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, दमोह अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त तेंदूखेड़ा में प्रत्येक माह में 15 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे।

No. C-1739-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Varun Kumar Sharma, IV Civil Judge Class 2, Damoh shall also hold sitting at Tendukheda in addition to his place of sitting for the period of 15 days in a month for holding Link Court.

No. C-1741-III-6-6-90.—The Notification issued by the High Court of M. P. No. B/1562, Jabalpur, dated 10-4-2016, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) for designating the Judicial Magistrates to be the Presiding Officers of the Court for trial of offences under Forest Laws and Mining Laws is hereby withdrawn. Consequently, the designation of Judicial Magistrates to be the Presiding Officers of the Court for trial of offences under Forest Laws and Mining Laws shall stand cancelled forthwith.

By order of the High Court,
VIVEK SAXENA, O.S.D. (D.E.).